

# Artificial Intelligence : Need, Challenges and Oppurtunities

**Dr. SANTOSH PRATAP SINGH**

M.Com., Ph.D.

*Assistant Professor,*

Department of Commerce,

**Swami Shukdevanand P.G. College,  
Shahjahanpur, U.P., BHARAT**

**Dr. MANISH KUMAR**

M.Com., M.B.A., M.A.(Eco.), Ph.D

*Assistant Professor,*

Department of Commerce,

**K.M.C. Langauge University,  
Lucknow, U.P., BHARAT**

**Dr. GAURAV SAXENA**

M.Com., M.B.A., M.A. (Edu.), B.Ed., Ph.D

*Assistant Professor,*

Department of Commerce,

**Swami Shukdevanand P.G. College,  
Shahjahanpur, U.P., BHARAT**

**Dr. VIKAS AGARWAL**

M.Com., M.B.A., M.Sc.(CS),

NET (Commerce & Management), Ph.D

Dean,

**Sun Institute of Management & Technology,  
Shahjahanpur, U.P., BHARAT**

**Dr. RUPAK SRIVASTAVA**

M.Com., M.A. (Eco.), Ph.D

*Assistant Professor,*

Department of Commerce,

**Swami Shukdevanand P.G. College,  
Shahjahanpur, U.P., BHARAT**

**VANI PUBLICATIONS**

⇒ *Printing History :*

First Edition—July 2025

⇒ **ISBN :** 978-93-90899-53-1

⇒ *Price :* ₹ **1200 only**

⇒ *Published by :*

**Vani Publications**

53-C, Old Vijay Nagar Colony,

AGRA-282 002

⇒ *Printers :*

**Nikita Offset Press**

Raja Mandi, Agra-282 002

⇒ *Disclaimer :*

*Every effort has been made to avoid errors and omissions in this publication. In spite of this, errors may creep in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publishers nor the author nor the seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom. It is suggested that to avoid any doubt, the reader should cross-check all the facts.*

⇒ *Condition of Sale :*

*This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. No part of this publication may be reproduced or copied in any form or by any means without permission in writing of the author and the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.*

*For binding mistake, misprints or for missing pages, etc., the publisher's liability is limited to replacement within one month of purchase by similar edition. All expenses in this connection are to be borne by the purchaser.*

*All disputes are subject to Agra jurisdiction only.*

## Editorial-cum-Acknowledgement

The 21st century has witnessed an extraordinary acceleration in technological advancements, with **Artificial Intelligence (AI)** emerging as one of the most transformative forces across all domains—be it business, healthcare, education, governance, or daily human interaction. AI is no longer a distant vision of science fiction but a reality reshaping industries, redefining productivity, and reimagining human potential.

This edited volume, “*Artificial Intelligence: Need, Challenges and Opportunities*”, is a humble yet thoughtful attempt to capture the multidimensional landscape of AI. It explores the **need for AI in modern societies**, discusses **challenges such as ethical dilemmas, bias, security, and employment disruptions**, and offers insights into the **opportunities AI presents for sustainable development, inclusive growth, and innovation**.

The objective behind curating this volume was to provide an inclusive academic platform for scholars, researchers, and practitioners to share their perspectives, case studies, and analytical frameworks. The compilation includes contributions that are rich in research, rigorous in methodology, and diverse in perspective, making the book relevant for academicians, students, policymakers, and industry professionals alike.

Firstly, We are grateful to Param Pujya Swami Chinmayanand Saraswati Ji Maharaj for his blessings, because his blessings it was not possible for us to do this task successfully.

We are thankful to Prof. A.K. Mishra, Secretary, S.S. (PG) College for his blessings and motivation for edited this book.

We are also thankful to Prof. R.K. Azad, Principal, S.S.(PG) College to develop an excellent academic environment for students and faculty also.

We are heartily grateful to Prof. Anurag Agarwal, Head and Vice principal, S.S.(PG) College for his guidance, blessings and motivation because he continue motivate us at every step of this difficult task.

We extend my heartfelt **gratitude to all the contributors**, whose scholarly inputs have enriched this volume and made it possible to reflect the true depth of the subject matter. Your research and commitment to excellence have been invaluable.

I would also like to express sincere appreciation to the **reviewer and advisory committee members** for their meticulous evaluations, constructive feedback, and scholarly guidance throughout the editorial process.

A special note of thanks goes to our **Publisher** for their professional assistance and timely support. Their efforts ensured that this book meets the academic standards and reaches the wider audience it deserves.

It is my earnest hope that this book will serve as a meaningful resource, spark new ideas, and encourage responsible advancement of AI technologies for the betterment of humanity.

**Dr. Santosh Pratap Singh**

**Dr. Gaurav Saxena**

**Dr. Manish Kumar**

**Dr. Vikas Agarwal**

**Dr. Rupak Shrivastava**

## FOREWORD

Artificial Intelligence (AI) is a revolutionary force that is redefining the very fabric of human existence in the quickly changing 21st-century world. AI has impacted practically every aspect of contemporary life, from transforming healthcare and education to altering business, politics, and social interactions. As intelligent machines are incorporated into our everyday lives, the discussion of artificial intelligence (AI) is expanding beyond technical circles to include ethicists, legislators, academics, and regular people. An extensive range of thought leaders, researchers, and practitioners are brought together in this edited volume, **Artificial Intelligence: Need, Challenges, and Opportunities**, to provide profound insights into the complex nature of AI.

The book examines the critical need for AI adoption in a variety of industries, describes the moral and technological difficulties associated with it, and highlights the previously unheard-of prospects it offers for social and economic progress.

I congratulate the editors for compiling a wonderful relevant and stimulating collection in this edited book. I firmly believe that the knowledge presented in this book will be an invaluable resource for academics, professionals, decision-makers, and students alike, enabling them to participate actively in the developing story of artificial intelligence.



**Dr. Anurag Agarwal**  
Head and Vice Principal  
Department of Commerce  
Swami Shukdevanand (PG) College  
Shahjahanpur, Uttar Pradesh, Bharat

# CONTENT

---

1.	The Needs And Challenges Of Artificial Intelligence In India — <b>Dr. Bhupendra Brahmhatt</b>	<b>1</b>
2.	A Perspective On Artificial Intelligence In Manufacturing —Ms. Parvica Gupta	<b>7</b>
3.	The Impact Of Artificial Intelligence On Higher Education — <b>Ms. Megha Nagelia, Dr Suresh Saini</b>	<b>14</b>
4.	Artificial Intelligence In Supply Chain Management — <b>Smita Kaushik</b>	<b>17</b>
5.	Role Of Artificial Intelligence In Cyber Security And Prospect In Future — <b>Narender Singh, B. K. Singh, Richa Saxena Jitendra Pal Singh, Saurabh Singhal, Shankar Singh</b>	<b>22</b>
6.	Impact Of Artificial Intelligence To Protect Human Health And Disease — <b>Mrs. Shivanki Rani</b>	<b>29</b>
7.	The Future Of Ai In Retail Investing: Opportunities And Emerging Trends — <b>Devendra Pratap Singh, Dr. Anurag Agarwal</b>	<b>37</b>
8.	The Indispensable Ai: Fueling Impact And Efficiency In Social Entrepreneurship — <b>Ms. Brij Lally</b>	<b>41</b>
9.	The Role Of Chatgpt And Generative Ai In Academic Research: A Systematic Review — <b>Syed Ali Zuhair Zaidi, Dr. Manish Kumar</b>	<b>45</b>
10.	Between Breakthrough And Breakdown: The Imperative Of Ai Governance — <b>Arushi Rastogi</b>	<b>53</b>
11.	वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव — <b>डा. देवेन्द्र सिंह</b>	<b>60</b>
12.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाणिज्यिक बैंकों के विकास में योगदान — <b>डा. कमलेश बाबू गौतम</b>	<b>66</b>
13.	लेखा व बहीखाता पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य — <b>डा. दयाराम</b>	<b>71</b>
14.	डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका	<b>75</b>

	— डा. साहब हुसैन	
15.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा शिक्षक की जगह लेने के संदर्भ में एक नैतिक और सामाजिक अध्ययन	79
	— शिवानी भारद्वाज	
16.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नई शिक्षा नीति 2020 में योगदान	83
	— श्रीमती नीरज गुप्ता	
17.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा का विकास	87
	— बृज निवास	
18.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा भाषा शिक्षण में नवाचार का अध्ययन	91
	— राम औतार सिंह	
19.	शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का छात्र प्रदर्शन और शिक्षकों की भूमिका पर प्रभाव	95
	— सौरभ कुमार मिश्रा	
20.	ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका : अवसर व चुनौतियाँ	100
	— डा. अजय कुमार वर्मा	
21.	मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ एवं सीमाएँ	104
	— डा. सचिन खन्ना	
22.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आयात निर्यात प्रबंध में नवाचार की भूमिका	108
	— अपर्णा त्रिपाठी	
23.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव	112
	— अमिता रस्तोगी	
24.	शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का छात्र अध्ययन पर प्रभाव	117
	— प्रतिभा द्विवेदी	
25.	शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षा शास्त्र का नया स्वरूप	122
	— डा. राहुल कुमार, प्रियंका मिश्रा	
26.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन (ऑनलाइन अध्ययन और स्मार्ट क्लासरूम के संदर्भ में)	126
	— रोहित कुमार सिंह	

# THE NEEDS AND CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDIA

**Dr. Bhupendra Brahmhatt\***

**Abstract :** *We are going through the most technologically revolutionary phase in history. The reason for this is AI (Artificial Intelligence) technology. We can call artificial intelligence as artificial intelligence, artificial brain. AI is a computer model. Its main source is software technology. We have seen humans working like machines, now machines working like humans will come. The world is moving in a new direction thanks to AI. The list of areas where AI (Artificial Intelligence) can bring revolutionary changes is very long or rather endless. Artificial intelligence is created and used in various ways and it has developed a lot and its results are also promising. From the Internet to sports, writing, education, health, justice and economic policy, all are included. The potentials and dangers of AI technology are boundary marker, so the intellectual class of the society is closely monitoring its development and use and is also issuing warnings when necessary.*

*The results of artificial intelligence for disaster prevention are promising. If we consider necessities, needs come first. Technology is essential for the advancement of human life, which sometimes also provides relief from dangerous activities. Artificial intelligence can be created and used in various ways, and today it is being used in many fields. For a nation and society like India, there is a great need in many important fields like health, manufacturing, financial technology and agriculture and education, research, space, law, but there is a big challenge in front of it. Maintaining privacy, economy, employment, environment and humanity-ethics will be a challenge. Therefore it is desirable that we do not overdo in adopting new technology and use AI judiciously with human mind, human values and human approach, only then our existence in this universe will last as long as determined by nature.*

**Keywords:** *change, artificial intelligence, need, challenge, problem of humanism*

## **Introduction:**

Change is the law of nature. Which no one has been able to break till date, there has been a huge change in the world in the last few years. Not only this, we are going through the most technologically revolutionary phase in history. The reason for this is AI (Artificial Intelligence) technology. AI is different from other technologies because it is not just a tool but an agent. This form of technology is constantly evolving. Thus, every technology is constantly evolving. And after a certain point, new technology takes its place, but... The destination of AI (Artificial Intelligence) has been decided. This is not a new technology. But the combination of many technologies has brought fundamental changes in the way the machine works. We have seen humans working like machines,

---

\* Associate Professor & H.O.D., Department of Sociology, M.P. Arts and M.H. Commerce College For Women, Outside Raipur Gate, Ahmedabad, Gujrat, Bharat

now machines will also work like humans. Now the world is moving in a new direction thanks to Artificial Intelligence. The list of areas where AI (Artificial Intelligence) can bring revolutionary changes is very long or rather endless. Artificial intelligence is created and used in various ways and it has developed a lot and its results are also promising. From the Internet to games, writing, education, health, justice and economic policy, everything is involved. The possibilities and dangers of AI technology are unprecedented, so the intellectual class of the society is closely monitoring its development and use and is also issuing warnings when necessary.

We can call artificial intelligence as artificial intelligence, artificial brain. The idea of AI (artificial intelligence) was first presented by Warren McCulloch and Walter Pitts of Columbia University, USA in 1943 and John McCarthy of Stanford University, USA used the term AI for the first time in 1955. Therefore, McCarthy is credited with the invention of AI (artificial intelligence). McCarthy is considered the father of computer model AI. Its main source is software technology. AI (artificial intelligence) works on the basis of the information given. In this, the developer trains the machine in such a way that it not only works on the basis of generative artificial intelligence, but the system also works on the basis of re-entering the data. In other words, "flexible adaptation and action through external means to achieve specific goals. It is defined as the ability of the system to correctly interpret data, learn from such data, and use that learning. That is why it can think, learn, and work ahead of humans in the future. Which is a matter of concern for humans and can have an impact on human society over time. This may be the reason. It does a lot of work and often does it better than humans. Yuval Noah Harari says that AI has hacked the entire human race. When it can even imagine, what use is it to humans now? It is further said that it can also create culture. In short, now we have entered the AI (Artificial Intelligence) era.

### **Need for AI(Artificial Intelligence):**

The results of artificial intelligence for disaster prevention are promising. If we take needs into consideration then needs come first. Technology is necessary for the progress of human life, sometimes it gives freedom from dangerous activities. Artificial intelligence can be created and used in various ways and today it is being used in many sectors. Health sector, manufacturing sector, financial sector, etc. For a nation and society like India, there is a great need of AI (Artificial Intelligence) in many niche sectors like technology and agriculture and education, which are as follows.

**1. Medical science:** The use of AI in advanced disease diagnosis and treatment through surgery can be very helpful in building a healthy society. Artificial intelligence can be used for cancer screening and analysis to make better decisions, and thus, AI is needed for better, faster results in the field of monitoring and controlling health and wellness.

**2. Space Science:** When human limitations become a hindrance in research and work in the field of space, in many cases artificial intelligence can help us to work in adverse conditions. A lot of information can be sent from one end of space to another through satellites, and it is also helpful in space exploration and finding ways for dangerous tasks. When it comes to analysing huge amounts of data in space exploration and exploration, artificial intelligence and machine learning are a good option to deal with huge amounts of data. It would not be an exaggeration to say that without AI, space landing missions on foreign planets would not have been possible. Vyom Mitra created by us will work for this.

**3. Mechanical work place:** Machines are often needed to work underground or underwater. If the temperature is more than 50 degrees Celsius or less than -40 degrees Celsius, it is difficult for humans to work there. In such a situation, i.e. in the absence of humans, artificial intelligence programs prove to be very effective. It is more beneficial to use artificial intelligence to assign tasks to particularly precise servants at the workplace. In addition, processing large amounts of information in machines for state-related information makes this information very useful for various purposes of decision-making and policy making in the secretariat. Working in a systematic manner, making predictions and taking decisions is also necessary.

**4. Business – Industry:** AI has become very useful in e-commerce. Algorithms designed to sell goods work brilliantly, providing all the information like opinions about the product as well as the image. And person and location-centric advertising are making a significant impact in attracting customers. There are many ways to do business and grow the business. The horizons provided by AI have become business. This can provide employment to crores of people. The use of AI in the industry is also necessary to increase productivity, make marketing effective, reduce logistics costs by analysing routes and time, and move forward in such new areas.

**5. Banking and Monetary transactions:** AI is essential for customer support in banks, detecting anomalies in the process and keeping credit/debit card usage safe by alerting them. We have to thank AI for preventing financial frauds worth billions of rupees. Additionally, the stock market provides entrepreneurs with a lot of information in a short time and also tells about future trends. You can predict prices. Predicting market prices is essential for making profitable business decisions, and this is where AI comes into play.

**6. Agriculture:** Even today we are dependent on nature in the agriculture sector. Due to environmental irregularities and land scarcity we have to produce 50% more food by 2050 and we have to use our resources very carefully. We will need AI a lot there. It is very useful in spraying medicine and preventing other diseases. Also, information like soil moisture, temperature, dew point is very necessary in intelligent irrigation systems and through management we can increase production.

**7. Healthcare:** When it comes to human health or saving lives, Artificial Intelligence is useful in many ways, such as predicting heart attacks, knowing the minute details in CT scans and MRIs can save the lives of millions of people, and AI will be very helpful in brain diseases like stroke. AI is very important in expanding the scope of telemedicine for treatment in remote areas. AI is most useful in the pharmaceutical industry. In a country like India where there is a shortage of doctors, it comes to the aid of health experts. With the help of AI, doctors can treat a large community and AI is essential in leading the world towards a healthy life by providing education and knowledge about health care.

**8. In the field of education and research:** AI will play a vital role in changing the education system and evaluation system in the education sector in India. Through VR and with the help of AI teachers we can increase the scope of education and AI teaching innovation can increase its quality. For most of the people doing research in universities and colleges AI can be very useful in research design, literature review and data analysis. In short, there is a great need for AI in the field of research and education.

**9. In the field of sports:** Artificial intelligence is necessary for players to plan game strategies, analyse opponents' play, and make the game more interesting for spectators. AI can make predictions

about the game at every stage of the game using a variety of information, including player appearance, characteristics, playing field characteristics, and specific factors such as the weather.

**10. Politics, Logic and Government:** Bias is a human trait. This human trait has prevented the world's political leaders from solving global problems like climate change, space pollution and national problems like caste, religion and gender. Areas like the boundaries of a country, region, implementation of language technology, education, etc. become controversial due to bias. If this area is handed over to artificial intelligence, then its solution will be found immediately. Of course, if any part is under artificial intelligence then it can be controversial. If the human biases of its creator are included in it while creating the algorithm, then big questions will arise. Apart from this, it is necessary to hand over some public services in the government to AI. It has been suggested to hand over some civil services and class-3 and class-4 services to AI. If AI is used to reduce government expenditure, it will speed up administration and will also help people get justice.

**11. Military, legal and crime prevention requirements:** AI has been essential in preventing financial crimes as well as criminal crimes, as the Chinese Communist Party has developed a complex social credit system that measures the transactions of citizens and organizations, resulting in criminals not getting access to bullet trains. AI has started being used to prevent crime in national institutions. AI has also started doing intelligence work. In the military, robots and drones are useful in places where soldiers cannot go. Thus, human lives can be saved with AI.

**12. Humanoid machines:** The sale of intelligent machines i.e. robots is increasing in our country. According to an estimate, more than three thousand robots are working in different fields. When it comes to robots working directly with humans, humans prefer humanoid robots over humans. There are robots around the world that work like humans and now also speak and have emotions, whose names are Sophia and Erica Jia. Then they give companionship to lonely psychiatric patients and the elderly, and people are also starting to accept such robots as human life partners. In short, AI robots are trying to replace humans. However, here, at Columbia University, the current president, Minush Shafiq said that earlier jobs were available on the basis of physical strength, now they are available on the basis of brain capacity, but in the future they will be available on the basis of heart. This statement has to be remembered.

### **The challenges of AI:**

Artificial intelligence has created some challenges for human life, society and environment, which are as follows.

**1. Challenge for the economy and inequality:** Given the changes in the workforce, it seems that new jobs will be created but new skills will have to be developed to perform the required work. AI will discriminate or differentiate between high-level and low-level skilled workers. On the one hand, AI will bring new opportunities for the industry. On the other hand, despite the growing demand for professionals with technology knowledge to leverage the potential of technology, there is a shortage of AI-related skills. From expertise in AI-related skills such as machine learning, prompt engineering, data science to understanding the ethical implications of AI, the lack of expertise in the effective implementation of AI is a major challenge. The World Economic Forum's 2023 report states that by 2027, 6 out of every 10 employees will need AI training, but today less than half of the people are getting training opportunities. This skill gap will be a challenge not only for professionals but also for the economy. Not only this, AI skilled and non-skilled classes will emerge in the society, which will increase socio-economic inequality in the society.

**2. Employment sector challenge:** Some people believe that this new technology will make people unemployed and die of hunger. AI is being considered a big challenge for employment in the coming years, especially for doctors, lawyers, chartered accountants and creators, as their work patterns will change. Currently 90% of people in India are in the informal sector. They will be affected by the impact of AI and will become unemployed. With the advent of 3D printing technology in the construction sector, many workers will become unemployed. The use of robots in agriculture and transportation sectors will increase unemployment. In short, blue-collar and white-collar employment may decrease. But online and AI start-ups will increase. Along with this, high-skill jobs will increase. Employment opportunities will increase in IoT, data analysis, VR, cloud computing and their income will also be good.

**3. Challenge of maintaining privacy:** Individuals cannot maintain their privacy due to surveillance systems, use of various apps, collection of online information and IoT. Dataweapons, while a useful tool, are problematic for free democracies. A small group of people in the world are collecting huge amounts of data. Data can be used to obtain information about any activity, past and pattern or even a person's general life. In short, nothing can remain private or hidden. As the use of AI increases, maintaining privacy will become a big challenge.

**4. Environmental Protection Challenge:** All technology uses electricity or electrical energy. This energy is obtained from natural resources and other non-renewable energy sources. All the calculations performed by AI will require a large amount of electricity, which can result in a major problem with the reliability of power supply, and if it is used more, not only will the demand and prices of electricity increase rapidly, but water consumption will also increase. The water crisis will also increase in the coming days, leading to a situation of water war. Not only this, man's ability to exploit nature will increase even more, making land even more precious. Due to this, the problem of climate change will also increase due to pollution and increase in temperature in the global environment. Thus, AI will pose a big challenge to the environment.

**5. Challenge of e-waste:** With the development of technology, many old technologies are becoming obsolete. Consumers or users are forced to use old technology, but old equipment becomes useless in front of new technology. As a result, we have to face the problem of e-waste. Not only this, this e-waste also contains many toxic elements which harm the environment, waste management has become a major problem and a sustainable recycling policy has to be made to reduce its pollution. The use of AI in the disposal of increasing e-waste can be a big challenge.

**6. Social and political challenges:** AI is affecting society and politics. Now AI is being used to intervene in the social and political sphere through gamification. The narrative of civilization can be used to define the goals and objectives of an AI system directly or indirectly. China has been doing this everywhere for many years. Given the huge potential of gamification of AI-based systems for social engineering, it is possible that this power may fall into the hands of autocratic rulers. And what is even more dangerous is that if this power falls into the hands of autocratic rulers who appear to be altruistic or who claim altruism as their goal, if a person starts running the world like a puppet in their hands, then there is a fear that spreading hatred in society and creating conflict can cause great harm to the unity of society.

**7. Humanism-ethics challenge:** If artificial intelligence has an adverse effect on society, it will create problems for humanism. AI can be used in a destructive direction. If a crazy person, company or politician uses it with malicious intent, the consequences can be far more dangerous than climate

disaster or nuclear war. Therefore it has been written an open letter on behalf of 1,000 technologists from around the world demanding humanity to stop AI development until everyone agrees on common safety protocols. This is serious because technologists want to control themselves. If this step is not taken, such systems can cause harm. In short, AI is a double-edged sword that cuts human life and works with the edge of utility today, but tomorrow it will attack with the edge of nuisance. It will divide humanity into two parts. Chaos - GPT aims to spread chaos on Earth and rule the Earth by bypassing humanity. This is why experts like Elon Musk, Steve Wozniak and Jeffery Hinton, the fathers of AI, are not at all worried about AI encroachment. On AI intervention, Stephen Hawking said that the short-term effects of AI (artificial intelligence) will depend on who controls it, while the long-term effects of AI (artificial intelligence) will depend on whether humanity will be able to control it or not?

**Conclusion:**

This is the age of AI. So why is there a need for the use of AI in various sectors in India? What new challenges will it create? We have discussed this in detail. Given the above, the question arises: what are our capabilities as humans? If we look for answers based on the fear of the age of AI, we will get a poor picture of human capabilities. Instead, it is important that we think about what are our capabilities? The possibilities open up for humans in the age of AI. Let's think. And it is human skills that enable us to work together, innovate, do things that technology cannot do, for example, communication skills. 70% of executives on LinkedIn said that soft skills are more important to their organizations than high-tech AI skills. We have to consider whether we have as much faith in human capabilities as in AI capabilities. If we do, it is possible to create a world of work that is not only more humane but also a place where all people are valued for their unique skills. This will enable us to touch new levels of human achievement. But for this we have to see and understand AI in the context of our country and society and when the wise people of the world have warned about the future, it is the duty of our politicians and administrators to take the warning seriously and regulate and control it. Do this as soon as possible. Also, it is the duty of all of us not to overdo it in adopting any new technology and not to disrupt the functioning of human intelligence-nature with human brain, human values and human attitude. Judicious use of AI is desired and only then our existence will be able to survive for a certain period in this nature universe.



# A PERSPECTIVE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANUFACTURING

**Ms. Parvica Gupta\***

**Abstract :** Since the start of the twenty-first century, artificial intelligence (AI) has grown rapidly, driven by bio-evolution and human natural intelligence. There have been numerous reports of successful AI applications, and Industry 4.0 offers a conceptual platform for manufacturing-related AI research and development.

*When choosing whether and how to apply AI in manufacturing, it's critical to take into account the unique requirements and capabilities of each production situation. In order to improve understanding of the AI/ML technologies available for solving manufacturing problems, provide decision-support for prioritising and selecting appropriate AI/ML technologies, and identify areas where further research can yield transformative returns for the industry, this review identifies current developments, challenges, and future directions in AI/ML relevant to manufacturing. According to preliminary findings, artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) have the potential to significantly reduce costs and increase manufacturing efficiency, particularly when paired with the capacity to gather vast quantities of data from manufacturing systems. The design and planning of production systems, process modelling, optimisation, quality control, maintenance, automated assembly, and disassembly are just a few of the manufacturing uses of AI that are highlighted in this chapter. A summary of typical manufacturing issues and their corresponding AI solutions is also provided, along with an outlook for further research aimed at utilizing AI to achieve smart production*

## 1.0 Introduction

As it incorporates AI/ML and other new technologies to revolutionize industry, the fourth industrial revolution (Industry 4.0) is largely made possible by the translation of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) from computer science theory into practical technology. Recognizing the strategic significance of AI/ML technologies, governments and industry throughout the world have started a number of efforts to investigate and profit from this new revolution by integrating AI/ML into industrial and manufacturing processes.

These projects entail integrating information technology advancements (such as the Internet of Things [IoT], big data analytics, edge computing, and cybersecurity) into the current process automation infrastructure and introducing AI/ML to the manufacturing floor. The industrial sector may use these AI/ML technologies to increase production productivity, sustainability, and efficiency by utilizing the massive volumes of data generated by measurement equipment on the factory floor.


## 1.1 AI/ML Applications In Manufacturing

The optimization of manufacturing operations, process and product design, scientific machine learning, computational experimentation, and industrial automation are some of the current and developing industrial uses of AI/ML approaches that are essential to Industry 4.0.

---

\* Assistant Professor, Rakshpal Bahadur Management Institute, Bareilly (RBMI), Bareilly (U.P.), Bharat

Figure 1 shows the range of AI/ML applications across many manufacturing disciplines, categorised according to whether they fall under automation, design, or operations. Real-time AI-driven automation and scientific machine learning are at an earlier level of acceptance than process and product design, which are further along on the industrial demonstration and adoption curve. All things considered, AI helps businesses collect and evaluate vast volumes of data, spot trends and insights, and automate procedures, allowing for quicker and better-informed decisions that enhance operations and product development. The goal, possible advantages, and difficulties of AI techniques in manufacturing applications will be discussed in this section.



## 1.2 The Four Types of AI in Manufacturing

**Assisted Intelligence:** Humans are assisted in tasks by this inbuilt AI technology. Instead of learning from people, it offers direction that makes it possible to complete tasks more precisely. This includes an algorithm that assesses inventory levels.

**Augmented Intelligence:** Augmented intelligence systems are an advancement over assisted intelligence in that they employ machine learning (ML) to integrate input from other systems and humans to make them "smarter." AI-guided labour instructions are one instance of augmented intelligence in manufacturing.

**Automation:** Automation powered by AI includes procedures that don't need regular human input. One instance of automated intelligence in manufacturing is robotic process automation (RPA).

**Autonomous Intelligence:** The most sophisticated application of AI in manufacturing is this one. Autonomous intelligence technology replaces physical and cognitive tasks that need quick adaptability to new data, acting without human input. Self-driving warehouse vehicles are one example.

Artificial intelligence has a wide range of applications in manufacturing. To increase productivity, you'll frequently need to use AI technologies from several of the previously listed categories.

## 1.3 Key Applications

AI is transforming the manufacturing industry by automating tasks, improving efficiency, and enhancing quality.

### Key Applications include:

- **Predictive maintenance:** AI algorithms analyse machine data to predict failures, reducing downtime and maintenance costs.

- **Quality control:** AI-powered systems detect defects in products during production, ensuring higher quality and reducing waste.
- **Supply chain optimization:** AI optimizes inventory management, demand forecasting, and logistics, leading to cost savings and improved efficiency.
- **Product design and development:** AI helps in designing and developing new products, accelerating the process and improving innovation.
- **Robotic process automation (RPA):** AI-powered robots automate repetitive tasks, freeing up human workers for more complex tasks.

## **1.4 Benefits of AI in Manufacturing**

### **1. Predictive maintenance**

- Machine learning, sensor data from equipment (detecting temperature, movement, vibration, etc.), and even outside data like the weather are all used in AI-powered predictive maintenance. This method aids in anticipating potential machine failures.
- Additionally, it prolongs the life of machinery, lowers maintenance expenses, and minimizes unscheduled downtime. Machine downtime can be decreased by 35% to 45% using predictive maintenance, according to statistics from the U.S. Department of Energy.

### **2. Smart quality control**

- AI helps users identify quality problems, cut down on scrap, and increase output by providing 360-degree view across factories, manufacturing plants, lines, and warehouses.
- AI can help manufacturers boost production throughput by 20% and enhance quality by up to 35%. Furthermore, the smallest flaws that are invisible to the human eye can be effectively detected by AI-powered sensors. Both productivity and the proportion of products that pass quality control are increased as a result. AI also significantly improves accuracy and speeds up regular tasks, doing away with the necessity for laborious and prone to mistakes human inspections.

### **3. Enhanced productivity**

- AI excels at making intricate computations and coding simpler. This lessens the strain of difficult maths problems. These activities can be completed automatically by AI or packaged into easy-to-use tools that engineers can utilise to expedite their work.
- By automating monotonous tasks using AI, factory workers may devote more time to creative tasks, which boosts job satisfaction and helps them reach their full potential. Employee productivity is increased by this technology since it makes important information easily accessible. Manufacturers can use reports to forecast orders, and engineers can easily identify appropriate materials for particular products.

### **4. Generative design**

Generative design is another significant benefit of AI in manufacturing. It leverages AI algorithms to explore and generate a wide range of design possibilities for various products and components.

This brings significant advantages to the manufacturing process in the form of:

- **Innovative Designs** - Human designers might not have thought of creative and unusual design alternatives that manufacturers can offer.

- **Efficiency** - By quickly creating and assessing a large number of design options, it speeds up the design process and conserves time and money during the product development process.
- **Reduced Material Waste** - By building effective and lightweight structures, it reduces the amount of material used. This helps with cost-cutting and sustainability initiatives.

### **5. Better management of inventory & demand forecasting**

- Having too much or too little inventory can cause manufacturers to lose clients and revenue. Many aspects of inventory management are difficult for humans to manage flawlessly, but AI can assist.
- The accurate stock level can be maintained with the use of AI's robust computations. It maintains inventory throughout a convoluted global supply chain, forecasts demand, and modifies stock levels between sites. AI-driven forecasting can cut supply chain errors by as much as 50%, according to McKinsey Digital.

### **6. Customizing the factory layouts**

- It is difficult to design the factory floor for maximum efficiency because there are hundreds of thousands of variables. In addition, manufacturing layouts should change as goods do. Here, AI solutions are quite helpful. They are able to identify inefficiencies in floor plans, remove obstructions, and increase productivity. Following modifications, producers can see production site traffic in real time for minimally disruptive, speedy testing.

## **1.5 Real-World Examples of AI in Manufacturing**

Here's a quick look at real-world examples of how AI is used in manufacturing.

### **1. GE uses AI to reduce product design times.**

- ✓ Engineers at General Electric have developed technologies that could significantly speed up the design of power turbines and aircraft engines using artificial intelligence.
- ✓ To examine the flow of fluids in a single turbine blade or engine part design, GE engineers needed about two days.
- ✓ But in only 15 minutes, researchers at General Electric's New York research centre created a model that uses machine learning to evaluate a million design possibilities.
- ✓ But researchers at General Electric's New York research centre used machine learning to create a model that could evaluate a million design variants in only 15 minutes. The company's next generation of items are produced more quickly as a result.

### **2. Toyota collaborates with Invisible AI.**

- ✓ In order to introduce computer vision into its North American plants, Toyota has partnered with Invisible AI and applied AI. By doing this, Toyota improved the safety, quality, and efficiency of its production processes.
- ✓ By examining how individuals move, this AI technology can anticipate and stop minor flaws and injuries. The ability of these AI systems to learn on their own is amazing. Furthermore, neither a cloud nor an internet connection is required for these gadgets. They feature a camera to monitor activity on the floor and are equipped with specialized equipment.

### **3. Suntory PepsiCo streamlines its quality control in production.**

- ✓ Suntory PepsiCo, a company that makes beverages, has five factories in Vietnam. They required assistance reading labels with manufacturing and expiration dates in their soda facilities. Because the tags were applied before the surface was completely dry, they occasionally became smeared.
- ✓ This resulted in costly production halts and delays. Suntory Pepsi Co sought assistance from Pacific Hi-Tech to resolve issue, and they developed a "Machine Vision" solution.
- ✓ This method reads product labels using cameras and artificial intelligence. It rapidly determines whether the labels are accurate, readable, and missing or smudged. A machine removes the product from the assembly line if the label is incorrect. This happens without stopping everything.
- ✓ This machine vision system helps Suntory PepsiCo ensure that their products are of high quality. A human would need a lot more time to examine each product and make decisions, but AI machines complete this task more quickly and with less errors.

### **1.6 The Prospects of Artificial Intelligence in Manufacturing**

AI for Manufacturing has a bright future and is anticipated to propel substantial expansion and enhanced productivity across all industrial domains. The facts and statistics from numerous research organisations show that now is the ideal moment for companies to use AI-driven solutions to digitally transform themselves. Without human assistance, AI systems are capable of intelligently and independently managing production processes in reaction to outside events. These systems will make it possible to detect issues, apply solutions, and develop more accurate manufacturing processes independently.

Since the manufacturing sector is at the heart of digital change, integrating AI is more of a need than a desirable alternative. Using AI has significantly more advantages than not using it.

Key figures that illustrate AI's potential in the manufacturing sector are as follows:

- (i) An increase in labour productivity of 15–30%
- (ii) reduction in machine downtime of 30 to 50%
- (iii) 10 to 30% percent throughput yield
- (iv) 10–20% reduction in expenses linked to quality

### **1.7 Challenges of AI in Manufacturing**

Automation is nothing new to manufacturers. For more than 50 years, the manufacturing sector has prioritized producing better goods, especially by automating procedures, cutting expenses, and improving quality, starting with the first steam-powered machines.

Similar to automation, manufacturers are now at the forefront of implementing AI technology, using AI-powered analytics to enhance productivity, product quality, and worker safety.

According to a recent Deloitte survey on AI adoption in manufacturing, 93% of businesses think AI will be an essential tool to boost innovation and growth. However, as the sector uses AI more widely, it also has to deal with tighter quality standards and regulations, more complicated goods, and shorter time-to-market requirements.

The great majority of industrial businesses must, however, get past a number of additional obstacles that stand in the way of AI and digital transformation initiatives.

## **1. Lack of talent in AI**

Many businesses lack the resources to deploy an interdisciplinary team of data scientists, ML engineers, software architects, BI analysts, and SMEs for a single data-science project, and it becomes even more difficult to scale to deliver on time when you have multiple data-science projects to execute.

This problem is especially noticeable in manufacturing, a market sector that many young data scientists view as repetitive, unstimulating, and monotonous. To make matters worse, manufacturing is predicted to experience a severe workforce shortage over the next ten years as Baby Boomers retire.

Two essential technologies that can close this skills gap and hasten the digital transformation of industry are AI automation and AutoML 2.0.

## **2. Data Quality**

Access to clean, meaningful, high-quality data is critical for the success of AI initiatives, but can be a challenge in manufacturing. Manufacturing data often is biased, outdated, and full of errors, which can be caused by multiple factors. One example is sensor data collected on the production floor in extreme, harsh operating conditions, where extreme temperature, noise and vibration variables can produce inaccurate data.

Plants have historically been built using many proprietary systems, which do not talk to one another, where operational data also may be spread across multiple databases in multiple formats not suitable for analytics, requiring extensive preprocessing. For example, a predictive maintenance application will need access to the computerized maintenance management system or process historians.

## **3. Real-time decision-making**

Applications in manufacturing, like quality control and meeting customer delivery deadlines, are becoming more and more dependent on this. Sometimes decisions must be made in a matter of seconds, or even milliseconds, to spot an issue before it leads to unscheduled outages, a manufacturing flaw, or a safety concern.

Streaming analytics and real-time prediction services are necessary for such quick decision-making so that manufacturers can take immediate action and avoid unfavourable outcomes.

## **4. Trust and Transparency**

A significant barrier to broad AI adoption is the complexity of the technology and manufacturers' lack of trust in its capabilities. People without a data science background struggle to understand how data science and predictive modeling works, and do not have confidence in the abstract algorithms behind AI technology. Greater transparency would provide information about the AI process -- the input data used, what algorithms were selected, and how the model made its predictions.

While most AI traditionally uses 'black box' models, new approaches to data science provide more transparency into the full AI pipeline. This includes insight into the detailed process to transform the raw data into the inputs of machine learning and how the ML model produces predictions by combining hundreds of or even more features. By sharing information about how the prediction models work and the reasoning behind forecasts, manufacturing organizations can generate higher trust in the models and consequent business insights produced.

Using a data-science automation platform that can be easily integrated with your existing systems and solutions and that can automate the entire data science life-cycle is essential to a

successful AI program. This allows SMEs to concentrate on the outcomes of their AI and machine learning applications rather than the hassles of the data science process.

Despite the hurdles, AI is poised to alter the industrial business, leading to improved efficiency, innovation, and competitiveness.

## 1.8 Conclusion

This review examined the potential benefits, challenges, and applications of integrating AI/ML in the manufacturing pipeline, including operations, planning, quality assurance, energy consumption forecasting, process optimization, security and safety, product design, automation, and human-machine interaction. As a result, the review highlighted emerging developments, current challenges, and future directions in AI/ML relevant to manufacturing, highlighted AI/ML technologies available for solving manufacturing problems, and identified areas where further research can yield transformative returns for the industry. AI/ML's rapid evolution presents an unprecedented opportunity to transform the manufacturing sector.

The AI/ML solutions also require a thorough understanding of the potential trade-offs (e.g., restructuring facilities, energy costs, and expertise) as well as the specific needs and capabilities of the company and stakeholders. The trends indicate that AI/ML will continue to be applied cooperatively, alongside human skills, while at the same time gradually increasing the amount of automation. AI/ML can take advantage of the large amount of data generated from industrial sensors to derive actionable insights as well as take optimal actions independently. Over the next ten years, artificial intelligence (AI/ML) models can improve over time as the data, infrastructure, and algorithms are iterated upon, and provide compounding benefits to the manufacturing industry.

The risks involved will, however, limit the rate of adoption, particularly as the application shifts from analytical support to AI control of industrial operations. AI/ML implementation choices should be tailored to the particular needs and circumstances of each company, and in the future, this field would benefit from longer-term case studies of manufacturers who have and have not adopted AI/ML.

## 1.9 Notation

**AI:-** artificial intelligence

**ML:-** machine learning

**AutoML:-** automated machine learning

## 1.10 Reference

- <https://www.sangfor.com/blog/cloud-and-infrastructure/role-of-ai-in-manufacturing-industry>
- <https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/amp2.10159>
- <https://www.hpe.com/in/en/what-is/ai-in-manufacturing.html>
- <https://www.sap.com/resources/ai-in-manufacturing>
- <https://g.co/kgs/j6QYGEW>
- A Perspective on Artificial Intelligence in Manufacturing, Book by G. Chryssolouris, Kosmas Alexopoulos, and Zoi Arkouli



# THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HIGHER EDUCATION

**Ms. Megha Nagelia\***

**Dr. Suresh Saini\*\***

**Abstract :** *Artificial Intelligence (AI) is profoundly influencing higher education, driving innovations in teaching, learning, and administration. This chapter explores how AI enables personalized learning experiences, enhances administrative efficiency, and expands accessibility for diverse learners. It also highlights the transformative impact of technologies like intelligent tutoring systems, predictive analytics, and virtual learning environments. However, the integration of AI presents challenges, including ethical considerations, data privacy concerns, and the risk of widening the digital divide. By addressing these issues responsibly, higher education institutions can leverage AI to create inclusive, equitable, and future-ready learning ecosystems.*

## **Introduction**

Artificial Intelligence (AI) is transforming every aspect of human life, from healthcare to finance, and higher education is no exception. By leveraging machine learning, natural language processing, and data analytics, AI is reshaping the way educators teach and students learn. This chapter explores the multifaceted impact of AI on higher education, focusing on its potential to enhance learning experiences, optimize administrative processes, and address persistent challenges such as accessibility and personalization.

## **AI-Driven Personalized Learning**

One of the most significant contributions of AI to higher education is personalized learning. Traditional classrooms often adopt a one-size-fits-all approach, which can leave some students disengaged or struggling to keep pace. AI algorithms analyze students' learning styles, preferences, and progress to tailor educational content accordingly. Adaptive learning platforms like Coursera, Khan Academy, and EdTech tools use AI to recommend customized resources, quizzes, and study schedules.

For example, intelligent tutoring systems such as Carnegie Learning provide real-time feedback and adaptive exercises based on individual performance. These systems foster a deeper understanding of concepts by addressing specific weaknesses and encouraging mastery through iterative practice. Such innovations not only improve student outcomes but also empower educators to focus on higher-order teaching activities rather than repetitive tasks.

## **Enhancing Administrative Efficiency**

AI is streamlining administrative functions, enabling institutions to operate more efficiently. Tasks such as student enrollment, course scheduling, and resource allocation are increasingly

---

\* Assistant Professor, Jagannath University, Jaipur, Rajasthan, Bharat

\*\*Assistant Professor, Jagannath University, Jaipur, Rajasthan, Bharat

managed by AI-powered tools. Chatbots, like IBM's Watson, handle routine queries about admissions, deadlines, and campus services, freeing up human staff for more complex responsibilities.

Predictive analytics further supports decision-making in areas like student retention and academic performance. By analyzing historical data, AI systems can identify at-risk students and suggest timely interventions, such as mentoring or academic support. This proactive approach reduces dropout rates and ensures better resource utilization.

### **Transforming Teaching Practices**

AI is also transforming the role of educators by providing them with new tools to enhance teaching practices. Virtual and augmented reality, powered by AI, create immersive learning experiences that help students grasp complex subjects. For instance, medical students can practice surgical procedures in a simulated environment, while engineering students can experiment with virtual prototypes.

Moreover, AI-assisted grading systems, such as Gradescope, automate the evaluation of assignments and exams, saving educators countless hours. These systems provide detailed feedback to students while maintaining consistency and objectivity in assessments. Educators can also use AI-driven analytics to gain insights into classroom engagement, enabling them to refine their teaching strategies.

### **Expanding Accessibility and Inclusion**

AI holds immense potential to make higher education more inclusive. For students with disabilities, AI-powered tools like speech-to-text transcription, screen readers, and real-time language translation break down barriers to learning. Virtual assistants such as Microsoft's Immersive Reader ensure that students with dyslexia or visual impairments can access educational content seamlessly.

In addition, AI enables remote learning by powering Learning Management Systems (LMS) such as Moodle and Blackboard. These platforms offer flexibility to non-traditional students, including working professionals and those in remote areas, ensuring equitable access to quality education. During the COVID-19 pandemic, AI-driven remote learning solutions played a pivotal role in sustaining academic continuity.

### **Ethical Considerations and Challenges**

Despite its promise, the integration of AI in higher education raises ethical concerns. Issues related to data privacy, algorithmic bias, and the potential for over-reliance on automation must be addressed. For instance, predictive analytics might unintentionally reinforce stereotypes, disadvantaging certain groups of students.

Additionally, the widespread adoption of AI risks exacerbating the digital divide. Institutions in developing regions often lack the infrastructure and resources to implement AI solutions, potentially widening disparities in educational outcomes. Policymakers and educators must work collaboratively to ensure that AI technologies are deployed responsibly and equitably.

### **Future Prospects**

The future of AI in higher education is both exciting and uncertain. Emerging technologies such as generative AI, blockchain-integrated credentials, and autonomous learning agents promise to redefine the educational landscape. For instance, generative AI can create custom learning materials, while blockchain ensures the security and authenticity of academic records.

To harness these opportunities, institutions must invest in faculty training and infrastructure upgrades. Collaborative efforts between academia, industry, and government will be essential to create an ecosystem where AI-driven innovations thrive while upholding core educational values.

### **Conclusion**

AI is revolutionizing higher education by enhancing personalized learning, optimizing administrative processes, and expanding accessibility. However, its integration must be approached thoughtfully, balancing innovation with ethical considerations. By embracing AI responsibly, higher education institutions can prepare students for a rapidly evolving world while fostering equity and inclusivity. The journey ahead is as challenging as it is promising, but with strategic planning and collaboration, the transformative potential of AI can be fully realized.



# ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Smita Kaushik\*

**Abstract :** *Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing Supply Chain Management (SCM) by improving efficiency, accuracy, and decision-making processes. AI-driven technologies such as machine learning, predictive analytics, and automation are transforming supply chains into more adaptive, resilient, and cost-effective systems. AI enhances demand forecasting, inventory management, route optimization, and risk mitigation. It also enables businesses to achieve greater transparency and agility by automating tasks, reducing human errors, and improving customer satisfaction. AI-driven robotics and autonomous vehicles are further streamlining warehousing and logistics. This paper explores the role of AI in SCM, its benefits, challenges, and future trends. By integrating AI, companies can enhance productivity, sustainability, and competitiveness in the global market. The study concludes that AI will continue to be a key driver of innovation in supply chains, leading to smarter and more efficient operations.*

**Keywords :** *Artificial Intelligence, Supply Chain Management, Machine Learning, Predictive Analytics, Automation*

## Introduction

The rapid advancement of technology has significantly reshaped supply chain management (SCM), transforming it from traditional manual operations to highly automated, data-driven processes. Supply chains today are far more complex, spanning global networks of suppliers, manufacturers, logistics providers, and consumers. To manage these intricate networks efficiently, businesses are increasingly leveraging Artificial Intelligence (AI), which offers powerful capabilities in automation, predictive analytics, and real-time decision-making.

AI in supply chain management enables organizations to analyze vast amounts of structured and unstructured data from multiple sources, allowing for better forecasting, process optimization, and risk mitigation. By implementing AI-driven solutions, companies can achieve greater efficiency, reduce costs, and enhance the overall agility of their supply chains. AI-powered algorithms can identify patterns in data that humans might overlook, leading to improved demand forecasting, enhanced inventory management, and optimized logistics.

One of the critical applications of AI in supply chains is **demand forecasting**. Traditional forecasting methods often rely on historical sales data and simplistic statistical models, which may fail to capture complex market dynamics. AI-driven predictive analytics, however, can integrate diverse datasets, such as consumer behavior, market trends, economic indicators, and even real-time events like weather changes, to generate more accurate demand forecasts. This helps businesses minimize stockouts and overstocking, reducing excess inventory costs and ensuring optimal product availability.

---

\* Assistant Professor, Faculty of Management Studies, Jagannath University, Jaipur, Rajasthan, Bharat

Another area where AI is making a significant impact is **warehouse automation**. AI-powered robotics and autonomous systems are streamlining warehouse operations by automating repetitive tasks such as sorting, picking, and packing. For instance, companies like Amazon and Alibaba employ AI-driven robots to increase warehouse efficiency, reduce human labor dependency, and improve order fulfillment accuracy. These intelligent systems enhance productivity and allow businesses to scale operations without proportional increases in labor costs.

**Route optimization and logistics** is another domain benefiting from AI advancements. AI-driven systems analyze real-time traffic conditions, weather patterns, and historical transportation data to determine the most efficient delivery routes. Logistics companies such as UPS use AI-powered route optimization tools to reduce fuel consumption, lower operational costs, and improve delivery timelines. Autonomous delivery vehicles and drones, powered by AI, are also becoming a reality, further transforming last-mile delivery services.

Beyond operational efficiency, AI is crucial in **risk management and fraud detection** within supply chains. Machine learning models can assess and predict risks associated with suppliers, geopolitical factors, and market fluctuations. AI-powered monitoring systems can detect anomalies in supply chain transactions, helping businesses prevent fraud, ensure compliance, and maintain transparency across the supply chain.

Furthermore, AI is enabling **sustainable supply chain practices**. With growing concerns about environmental impact, businesses are adopting AI-driven solutions to optimize resource allocation, reduce waste, and minimize carbon footprints. AI-driven sustainability initiatives include optimizing transportation routes for lower emissions, reducing energy consumption in warehouses, and using AI insights to make environmentally responsible sourcing decisions.

Despite its numerous advantages, integrating AI into supply chain management presents challenges. High implementation costs, data privacy concerns, integration with legacy systems, and workforce resistance are some of the obstacles companies must address. However, as AI technologies continue to evolve and become more accessible, businesses that embrace AI will gain a competitive edge in the increasingly digital and interconnected global marketplace.

This article delves into the profound impact of AI on supply chain management, highlighting its key applications, benefits, challenges, and future trends. By leveraging AI, companies can build more resilient, responsive, and sustainable supply chains, ultimately driving long-term success and innovation in the industry.

## **Role of AI in Supply Chain Management**

AI enhances supply chain operations by providing intelligent insights and automation. The key roles of AI in SCM include:

### **1 Demand Forecasting and Inventory Management**

AI-powered predictive analytics enables businesses to accurately forecast demand patterns, reducing stockouts and overstocking. Machine learning algorithms analyze historical sales data, market trends, and external factors (such as weather and economic conditions) to predict future demand. Example: **Amazon** uses AI-driven demand forecasting to optimize its inventory and reduce excess stock.

## **2 Supply Chain Automation**

AI automates repetitive tasks such as order processing, invoicing, and tracking. Robotic Process Automation (RPA) reduces manual errors and improves operational efficiency. Example: **Walmart** utilizes AI-powered chatbots to automate supplier communications and streamline procurement processes.

## **3 Route Optimization and Logistics**

AI enhances logistics by optimizing delivery routes, reducing fuel consumption, and improving delivery timelines. AI-driven GPS systems analyze traffic patterns, road conditions, and weather forecasts to suggest the most efficient routes. Example: **UPS** uses AI-based route optimization to minimize travel time and fuel costs.

## **4 Risk Management and Fraud Detection**

AI identifies potential supply chain disruptions by analyzing real-time data from multiple sources. Machine learning algorithms detect fraudulent transactions and anomalies in procurement processes. Example: **IBM Watson** uses AI to monitor supplier risks and ensure compliance with regulations.

## **5 Warehouse Automation and Robotics**

AI-powered robots and autonomous vehicles enhance warehouse operations by performing tasks such as picking, packing, and sorting with high precision. Example: **Alibaba** employs AI-driven robotic arms in its smart warehouses to increase efficiency.

## **6 Smart Procurement and Supplier Management**

AI helps businesses select the best suppliers by analyzing their performance, pricing, and reliability. AI-driven procurement platforms enable companies to make data-driven decisions. Example: **SAP Ariba** leverages AI to optimize supplier negotiations and enhance procurement efficiency.

## **7 Customer Service and Order Fulfillment**

AI-powered chatbots and virtual assistants improve customer experience by providing real-time support, order tracking, and issue resolution. Example: **Amazon Alexa** assists customers with order status updates and product recommendations.

## **Benefits of AI in Supply Chain Management**

AI integration in supply chains offers several advantages:

### **1 Enhanced Decision-Making**

AI analyzes real-time data, enabling supply chain managers to make informed decisions regarding procurement, inventory, and logistics.

### **2 Cost Reduction**

Automation of supply chain processes reduces labor costs, minimizes errors, and optimizes resource utilization.

### **3 Improved Customer Experience**

AI-powered chatbots and recommendation systems enhance customer support, leading to higher satisfaction and loyalty.

#### **4 Increased Agility and Resilience**

AI helps businesses quickly adapt to market changes, supply chain disruptions, and unexpected demand fluctuations.

#### **5 Sustainability and Waste Reduction**

AI-driven insights optimize resource allocation, reducing energy consumption and minimizing waste in supply chain operations.

#### **6 Improved Supplier Collaboration**

AI-powered platforms facilitate real-time communication and collaboration between suppliers, manufacturers, and logistics providers, ensuring better coordination and efficiency.

#### **7 Enhanced Predictive Maintenance**

AI algorithms analyze equipment usage data to predict failures before they occur, reducing downtime and maintenance costs.

#### **8 Scalability and Flexibility**

AI-driven systems allow businesses to scale operations efficiently by automating processes and adapting to changing market conditions.

### **Future Trends in AI and Supply Chain Management**

#### **1 AI-Driven Autonomous Supply Chains**

AI will continue to advance toward fully autonomous supply chains, where minimal human intervention is required. Self-learning algorithms will optimize logistics, procurement, and inventory management dynamically.

#### **2 Integration of AI with IoT and Blockchain**

AI will increasingly integrate with the Internet of Things (IoT) and blockchain technology, enabling real-time tracking, enhanced security, and end-to-end supply chain visibility.

#### **3 AI-Powered Predictive Maintenance**

AI will improve predictive maintenance, allowing businesses to detect potential equipment failures before they occur, reducing downtime and increasing efficiency.

#### **4 Sustainable and Green AI Initiatives**

AI-driven solutions will focus on sustainability by optimizing resource allocation, reducing waste, and minimizing carbon footprints in supply chain operations.

#### **5 AI-Enhanced Human Collaboration**

While automation is increasing, AI will also enhance human collaboration by providing actionable insights, reducing repetitive tasks, and allowing supply chain professionals to focus on strategic decision-making.

### **Challenges in AI Implementation in Supply Chain Management**

#### **1 High Implementation Costs**

The integration of AI-driven solutions requires substantial investment in technology, infrastructure, and workforce training, making it difficult for smaller firms to adopt.

## 2 Data Privacy and Security Concerns

AI relies on large datasets, raising concerns about data protection, cybersecurity risks, and regulatory compliance in handling sensitive business information.

## 3 Integration with Legacy Systems

Many supply chain businesses use outdated IT systems that may not be compatible with AI technologies, leading to implementation challenges and additional upgrade costs.

## 4 Workforce Resistance and Skill Gaps

The transition to AI-driven processes may face resistance from employees due to fear of job displacement. Additionally, a shortage of skilled AI professionals can slow adoption.

## 5 Ethical and Bias Issues in AI Decision-Making

AI algorithms may inadvertently introduce biases in decision-making, affecting supplier selection, demand forecasting, and other critical operations, leading to fairness and ethical concerns.

## Conclusion

The integration of AI in supply chain management is proving to be a transformative force, enabling businesses to achieve unprecedented efficiency, accuracy, and adaptability. AI-driven solutions enhance demand forecasting, warehouse automation, logistics optimization, and risk management, ultimately leading to cost reductions and improved customer satisfaction. As supply chains become increasingly complex and globalized, AI will continue to play a pivotal role in streamlining operations and ensuring agility in a competitive marketplace.

Despite its many advantages, the adoption of AI in supply chains presents several challenges, including high implementation costs, data privacy concerns, and integration difficulties with existing legacy systems. However, as AI technology advances and becomes more accessible, these challenges can be mitigated through strategic planning and investment in AI-driven innovations.

Looking ahead, AI will be instrumental in shaping the future of supply chain management. Businesses that proactively embrace AI technologies will gain a significant competitive edge, enhancing their resilience, sustainability, and operational excellence. In conclusion, AI is not just an enabler but a critical driver of the future of supply chains, revolutionizing the industry and setting new benchmarks for efficiency and innovation.

## References

- Ivanov, D., Tsipoulanidis, A., & Schönberger, J. (2019). *Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value*. Springer.
- Min, H. (2019). *Artificial Intelligence in Supply Chain Management: Theory and Applications*. *Journal of Business Logistics*, 40(1), 78-90.
- McKinsey & Company. (2021). *AI-driven transformation in supply chain management*. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/>
- IBM Institute for Business Value. (2020). *AI and the Future of Supply Chains*. Retrieved from <https://www.ibm.com/>
- Harvard Business Review. (2022). *How AI is Revolutionizing Supply Chain Management*. Retrieved from <https://hbr.org/>



# ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CYBER SECURITY AND PROSPECT IN FUTURE

**Narender Singh\***

**B. K. Singh\*\***

**Richa Saxena\*\*\***

**Jitendra Pal Singh\***

**Saurabh Singhal\*\*\*\***

**Shankar Singh\*\*\*\*\***

**Abstract :** *Artificial Intelligence (AI) is the advanced research in the field of computer software which provides the desirable information in different fields. AI is give a lot of information about the research and has wide potential in the field of cyber security. The scope of AI in cyber security is extensive, covering everything from threat recognition to automated responses and advanced predictive analytics. As the cyber threats continuous increase, AI can play an important role in both defensive and offensive security measures. With the increasing volume and sophistication of cyber threats, AI will continue to play an increasingly important role in safeguarding systems, networks, and data across industries. AI algorithms can learn normal network behavior and detect anomalies that could signal a cyber attack, such as unusual network traffic or login patterns. These anomalies can be flagged for further investigation in real time. However, it is essential to carefully implement and manage AI solutions to mitigate potential risks and challenges. In this Review article Focused on the application and importance of AI in the cyber security and future challenge.*

**Keywords :** *Artificial Intelligence, Cyber Security, Cyber Attack, Cyber Threats*

## 1. Introduction:

Artificial intelligence (AI) is the cutting edge technology in the Digital era and it start a new revolution if the computer applications. AI is a machine tool which plays a crucial role in all fields such as education, medical health care, engineering, and agriculture and cyber security. AI is a powerful latest technology that play an important role in cyber security automate repetitive tasks, accelerate threat detection and take quick action to improve the accuracy of their actions. Nowadays we will go on advanced in the field of digital technology but get a lot of risk to safe the information or data in network system. The term cyber security refers to a set of technologies, processes and practices to protect defend networks, devices, software and data from the attack, damage. Cyber security is becoming complex because of the exponential growth of interconnected device, systems

---

\* Department of Physics, School of Sciences, I.F.T.M. University, Moradabad, U.P., India

\*\*Department of Mathematics, School of Sciences, I.F.T.M. University, Moradabad, U.P., India

\*\*\*School of Basic and Applied Sciences, S.G.R.R. University, Dehradun, U.K., India

\*\*\*\*Department of Geography, D.S.M. Degree College, Kanth, Moradabad, U.P., India

\*\*\*\*\*Research Scholar, Department of E.C., School of Engineering and Technology, IFTM University Moradabad, U.P. India

and networks. This is exacerbated by advances in the digital economy and infrastructure, leading to a significant growth of cyber attacks with serious consequences. AI is a bewitching tool that can provide analytics and intelligence to protect against ever-evolving cyberattack by sharply analyzing millions of events in a very short time and tracking a wide variety of cyber threats to anticipate and act in advance of the problem. AI is increasingly being integrated into the cybersecurity fabric and used in a variety of use cases to automate security tasks and take action to resolve it. Cybersecurity puts policies, procedures and technical mechanisms in place to protect, detect, correct and defend against damage, unauthorized modification of information and communication systems and the information they contain. The fast pace of technological change and innovation, along with the rapidly evolving nature of cyber threats, further complicates the situation. In this review chapter focus the applications of AI and Positive and Negative impact.

## **2. Methods of Artificial Intelligence:**

There are different methods used in artificial intelligence applications:

### **2.1 Machine Learning:**

AI driven machine learning models significantly enhance cybersecurity by learning from the previous attacks, predicting threats and automating security defenses. Cybersecurity provides strength to AI models by ensuring their safety against adversarial attacks and data breaches. AI processes large datasets efficiently, identifying patterns and correlations that humans may overlook (N.H Patil et al 2023) [1]. AI helps automate and optimize machine learning model training, providing accuracy and performance. AI enables systems to understand, create and translate human language useful in applications like chatbots virtual assistant. AI learns from interactions with environments, optimizing plans in robotics, gaming and real time decision making [2-3]. AI automates repetitive works in software development, optimizing coding, debugging and development.

### **2.2 Knowledge-Based Systems:**

A Knowledge Based System (KBS) may be defined as a computer system capable of giving information in a particular region, utilizing knowledge provided by human expert. KBS is a type of AI that uses a structured knowledge base to solve difficult problems needed human expertise. These systems are formed to simulate human thought –making and solving problem by using rules and logic to stored knowledge [4-5]. A distinguishing feature of KBS lies in the separation behind the knowledge, which can be represented in a number of ways such as rules, frames, inference engine which uses the knowledge base to arrive at a conclusion of the information.

### **2.3 Applications of KBS:**

KBS have the different applications in different fields;

- Education System: Intelligent tutoring systems.
- Healthcare System: Medical diagnosis and treatment recommendations.
- Banking System: Fraud detection of transaction and risk assessment.
- Cybersecurity: Threat detection and quick response action.
- Manufacturing: Quality control and process automation.

Future of KBS: With advancement of artificial intelligence (AI), KBS are including by integrating machine learning, natural language processing, and large data analytics [6-7]. In Advanced AI-

powered knowledge-based systems are improving in automation, adaptability, real time decision-making and take quick action.

### **3. Cybersecurity:**

AI plays an important role to recognizing the threat, automating responses, and improving overall security posture. Some key points are given in which the AI work as cybersecurity:

#### **1.1 Threat Detection and Data Prevention:**

AI plays a crucial role in threat detection by odd matching the data and take the quick action. AI advanced systems can analyze vast amounts of network traffic and identify odd patterns that might reflect a cyberattack [8-9].

#### **3.3 Phishing Detection:**

AI can analyze email content, sender behavior, and metadata to detect phishing attempts before they reach the user. Maximum people are hunter of phishing of cyber crime. Phishing attacks have a significant concern in India, with various reports highlighting the escalating number of incidents (financial express). In the year 2022, The Indian Computer Response Team Handled 1,391,457 cyber attacks incidents, including 1714, phishing cases. This marked a 23% increasing phishing attacks from previous year (business and Finance news). In the year 2023, India ranked third globally for phishing attacks recording over 79 million incidents. The technology sector was notable targeted, accounting for nearly 33% of these attacks (India Today). In the year 2024, the financial sector experienced a 175% surge in phishing attacks compared to the same period in the previous year, with 135,173 incidents reported. This increase in attributed the rapid adoption of digital banking, e-commerce, and digital payment platforms ( Finance News+1).

#### **3.4 Malware Detection:**

Machine learning models can detect malware, threats by analyzing file behaviors rather than relying on signature based detection.

#### **3.5 Fraud Detection:**

AI plays an important role in Banking and e-commerce against the Fraud Transactions as third Eye (Neha Saini et al, 2023). AI identifies the fraud transaction and takes alert the security before the any miss happened. AI powered fraud detection systems continuously adapt to new attack vectors [10].

### **4. Effect of AI in Human Society:**

AI has deep effect on human society; bring both positive and negative outgrowths. The impact of AI explains as (Michael Cheng-Tek Tai et-al 2020).

#### **4.1 Positive Effect:**

There are many positive impacts on human society especially in the field of healthcare. AI gives the computers capacity to learn reason and apply logic as fast as possible. Scientists' medical researchers, doctors, clinicians, mathematicians, and engineers, when working together to design an AI that motive for medical diagnosis and treatments, thus offering reliable and safe systems of health care delivery [11-12]. AI can provide various ways of treatment for physician to consider. The procedure is something like this ,to load the digital results of physical examination to the computer that will consider all possibilities and automatically diagnose whether or not the patient

suffers from deficiencies and illness suggest various kinds of available best treatment (Michael Cheng-Tek Tai et-al 2020). AI helps in easily disease detection, drug discovery and personalized medicine. Robotive surgeries and AI assisted diagnostic improve accuracy and patient care [13].

#### **4.2 Role of AI in Surgical:**

AI based surgical procedures have been available for the people to choose. AI needs to operate the health professional, it can complete the work with less affect the body parts. The da Vinci surgical system, a robotic technology allowing surgeon to perform minimally invasive procedures, is available in most of the hospitals now [14]. The less invasive the surgery the less trauma it will occur and less blood loss, less anxiety of the patients.

#### **4.3 Role of AI in Safety and Security:**

AI plays a crucial in the Safety and security system in different fields. AI assists in cybersecurity, fraud detection, Phishing Detection and crime prevention. Autonomous vehicles and AI driven traffic management improve road safety [15]. The most impotent role of AI in Prevention the data from the threads detection and take needed action against it.

#### **4.4 Economic Growth and job Creation:**

AI creates new industries and job opportunities, such as AI engineering and Data science. Businesses benefit from AI-driven innovations, boosting economic growth [16].

#### **4.5 Negative Effect of AI:**

AI has many negative impacts on society, ranging from economic disruption to ethical concerns. There are many negative effect of AI as

#### **4.6 AI creates the Unemployment:**

- AI and automation replace human workers in industries like manufacturing, retail and customer service [17].
- Even skilled professionals face automation risks with AI driven Systems.
- Many workers are a higher risk of losing jobs, leading to economic inequality.

#### **4.7 Bias and Discrimination:**

- AI driven decision-making lacks human empathy and moral judgment.
- AI algorithms can inherit biases from training data, leading to unfair decisions in hiring law enforcement and finance [18].
- Facial recognition systems have been criticized for racial and gender biases.

#### **4.8 Cybersecurity Threats and AI Driven Crime:**

- AI can used by hackers to automate cyberattacks, making them more effective [19].
- AI driven phishing attacks and scams are becoming harder to detect.
- AI generated misinformation can manipulate public opinion.

#### **4.9 Dependence on AI Reducing Human Intelligence:**

- Automation may discourage human creativity and innovation.
- AI driven education tools may make students overly dependent on technology [20-21].
- Over reliance on AI can weaken critical thinking and problem solving skills.

## **5. Applications of AI:**

AI has the following applications:

- i.** AI in cybersecurity
- ii.** AI in healthcare
- iii.** AI in astronomy
- iv.** AI in gaming
- v.** AI in finance
- vi.** AI in data security
- vii.** AI in social Media
- viii.** AI in traffic security
- ix.** AI in travel and Transport
- x.** AI in robotics
- xi.** AI in education and research
- xii.** AI in agriculture
- xiii.** AI in telecommunications

## **6. Conclusion:**

In the field of computer AI application bring a new digital revolution. AI Not only works in computer field but also work in all possible fields. It has proved to be a boon for researchers. They get the accurate data with accuracy. AI plays a crucial role in cybersecurity by detecting threats, automating responses, and improving overall security measures. It enhances threat intelligence, identifies vulnerabilities and helps organizations respond to cyberattack more efficiently. However, AI also introduces new risks, such as adversarial attacks, deepfake based fraud, and automated hacking technologies. In the future, AI will remain a double edge sword in cybersecurity acting as both a powerful defense tool and a potential weapon for cybercriminals. A proactive approach including regulations and AI governance is essential to ensure AI strengthens, rather than weakens cybersecurity.

## **References:**

- Michael Cheng-Tek Tai , The impact of artificial intelligence on human society and bioethics, Tzu Chi Medical Journal (2020), 32(4): 339–343.
- Kaplan A, Haenlein M. Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. Business Horizons (2019), 62:15-25.
- Iftikhar, B., & Alghamdi, A. S. Application of artificial neural network within the detection of dos attacks. Proceedings of the ordinal international conference on Security of knowledge and networks, (2009). 229–234.
- Jonze, S. 28 Best Quotes About Artificial Intelligence. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/07/25/28-best-quotes-about-artificialintelligence>.
- Preda, M. D., Christodorescu, M., Jha, S., & Debray, S., A Semantics-Based Approach to Malware Detection. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, (2008), 30(5), 1–54. doi:10.1145/1387673.1387674.

- Ahmad, I., Abdullah, A. B., & Alghamdi, A. S., Application of artificial neural network in the detection of DOS attacks. *SIN'09 - Proceedings of the 2nd International Conference on Security of Information and Networks*, (2009), 229–234. <https://doi.org/10.1145/1626195.1626252>.
- Bitter, C., North, J., Elizondo, D. A., & Watson, T., An introduction to the use of neural networks for network intrusion detection. *Studies in Computational Intelligence* (2012), 394, 5–24. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-25237-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-25237-2_2).
- Carrillo, F. A. G., Can Technology Replace the Teacher in the Pedagogical Relationship with the Student? *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2012), 46, 5646–5655. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.490>.
- Chmielewski, M., Wilkos, M., & Wilkos, K. Building a multiagent environment for military decision support tools with semantic services. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (2010), 6070 LNAI(PART 1), 173–182. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-13480-7\\_19](https://doi.org/10.1007/978-3-642-13480-7_19).
- Hosseini, R., Qanadli, S. D., Barman, S., Mazinani, M., Ellis, T., & Dehmeshki, J. An automatic approach for learning and tuning gaussian interval type-2 fuzzy membership functions applied to lung CAD classification system. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems* (2012), 20(2), 224–234. <https://doi.org/10.1109/TFUZZ.2011.2172616>.
- Kotenko, I., & Ulanov, A., Multi-agent framework for simulation of adaptive cooperative defense against internet attacks. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, (2007), 4476 LNAI, 212–228. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-72839-9\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-540-72839-9_18).
- Kotkas, V., Penjam, J., Kalja, A., & Tyugu, E. (2013). A model-based software technology proposal. *MODELSWARD 2013 - Proceedings of the 1st International Conference on Model- Driven Engineering and Software Development*, 312–315. <https://doi.org/10.5220/0004348203120315>.
- Parati, N., & Anand, P., Machine Learning in Cyber Defence. *International Journal of Computer Sciences and Engineering* (2017), 5(12), 317–322.
- Shankarapani, M. K., Ramamoorthy, S., Movva, R. S., & Mukkamala, S., Malware detection using assembly and API call sequences. *Journal in Computer Virology*, (2011), 7(2), 107– 119. <https://doi.org/10.1007/s11416-010-0141-5>.
- Venkatesh, G. K., Nadarajan, R. A., Venkatesh, G. K., Nadarajan, R. A., Botnet, H., Using, D., & Learning, A. HTTP Botnet Detection Using Adaptive Learning Rate Multilayer Feed- Forward Neural Network To cite this version : HAL Id : hal-01534315 HTTP Botnet Detection using Adaptive Learning Rate Multilayer Feed-forward Neural Network (2017)..
- Wu, C. H. Behavior-based spam detection using a hybrid method of rule-based techniques and neural networks. *Expert Systems with Applications*, (2009), 36(3 PART 1), 4321–4330. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.03.002>.
- Rajani, P., Adike, S., & Abhishek, S. G. K., ARTIFICIAL INTELLIGENCE : THE NEW AGE. (2020), 8(2), 1398–1403.
- Stepanov, L.V., Koltsov, A.S., Parinov, A.V., Evaluating the cybersecurity of an enterprise based on a genetic algorithm, in: *International Russian Automation Conference, 2020*, pp. 580–590.

- M. Vega-Barbas, V.A. Villagr'a, F. Monje, R. Riesco, X. Larriva-Novo, J. Berrocal, Ontology-based system for dynamic risk management in administrative domains, *Appl. Sci.* (2019) , 9 (21) 4547.
- B. Tozer, T. Mazzuchi, S. Sarkani, optimizing attack surface and configuration diversity using multi-objective reinforcement learning, in: *IEEE 14th international conference on machine learning and applications*, 2015, pp. 144–149.
- D. Bringhenti, G. Marchetto, R. Sisto, F. Valenza, F.J. Yusupov, Towards a fully automated and optimized network security functions orchestration, in: *4th International Conference on Computing, Communications and Security (ICCCS)*, 2019, pp. 1–7.



# IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PROTECT HUMAN HEALTH AND DISEASE

Mrs. Shivanki Rani\*

**Abstract :** *Artificial intelligence (AI) is the programming of computer systems to analyze, problem-solve, and make decisions just as a human would. The influence of artificial intelligence (AI) has drastically risen in recent years especially in the field of medicine. Its influence has spread so greatly that it is determined to become a pillar in the future medical world. In this chapter, the positive and negative aspects of AI implementation in healthcare are discussed, as well as recommended some potential solutions to the potential issues at hand. Artificial intelligence (AI) is revolutionizing healthcare by enhancing disease prevention, diagnosis, and treatment. AI-driven technologies, including machine learning, deep learning, and natural language processing, are improving early disease detection, enabling personalized medicine, and optimizing healthcare management. AI enhances medical imaging, robotic surgeries, and virtual health assistants, improving patient outcomes and reducing healthcare costs. AI can be used to support public health surveillance, epidemiological research, communication, the allocation of resources, and other forms of decision making. It can also improve productivity in daily public health work. This study examines the current state of artificial intelligence (AI)-based technology applications and their impact on the healthcare industry. The results indicate that major hospitals are, at present, using AI-enabled systems to augment medical staff in patient diagnosis and treatment activities for a wide range of diseases. In addition, AI systems are making an impact on improving the efficiency of nursing and managerial activities of hospitals. We discuss the details of those opportunities and challenges to provide a balanced view of the value of AI applications in healthcare*

**Keywords :** *Artificial Intelligence (AI), Healthcare, Machine Learning, Medical Imaging, Public Health Surveillance*


## Introduction

The average lifespan of humans has more than doubled in the last two hundred years, largely due to modern medicine and public health initiatives. However, an extended lifespan is associated with increases in various types of diseases among which non-communicable diseases (NCDs), also commonly referred to as chronic diseases. For this chapter, we collectively refer to the following as chronic diseases: type 2 diabetes, obesity, cardiovascular disease (CVD), metabolic associated fatty liver disease (MAFLD), cancer, chronic lung and kidney disease, autoimmune and neurodegenerative diseases. Lifestyle-associated chronic diseases tend to have two common characteristics: one is homeostasis disturbance and the second is metaflammation or chronic metabolic inflammation. Therefore, the pathophysiology of chronic diseases points to the physiological rationale that connects inflammation with homeostasis. It is now widely recognized that pathogenesis of disease

---

\* Assistant Professor, Faculty of Education, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad (U.P.), Bharat

is often the result of interactions between various genetic and environmental factors. The sum of environmental exposures (non-genetic) from conception until old age, throughout the lifespan is known as the “exposome”. The term "exposome" is used to demonstrate the complexity and extent of exposures to toxic substances, nutrition, psychosocial stressors and physical impacts and their associated biological responses



**Fig. 1 Deep phenotyping, combined with artificial intelligence, plays a crucial role in health promotion and chronic disease prevention. By capturing a comprehensive molecular profile of an individual over time, it helps track changes from health to disease. Integrating omics technologies and physiological data allows for precise risk assessment. Using a systems approach and big-data analytics, AI and machine learning can enhance early detection and guide preventive clinical decisions.**

Recently, there has been widespread applications of AI-supported technologies in healthcare institutions for improved care service quality and efficiency of medical resources. Since AI encompasses machine learning, natural language processing, and smart robots, AI-based technologies provide numerous opportunities for innovation in the knowledge-intensive healthcare industry. AI has attracted the attention of researchers, physicians, technology and program developers, and consumers in various fields in terms of its potential for transformative innovations in treating human diseases and public health. Hospitals will invest \$6.6 billion annually in AI-related technologies by 2021. As AI-supported technologies learn and diagnose from a large volume of medical research and patients’ treatment records, they play a significant role in augmenting doctors’ decision-making process for diagnoses and treatment “AI-based diagnostic algorithms are applied in the detection of breast cancer, serving as a ‘second opinion’ in assisting radiologists’ image interpretations.” It was also reported that AI technology can diagnose skin cancer more accurately than a professional dermatologist.

Moreover, advanced virtual human avatars are being used to conduct conversations required to diagnose and treat patients with the mental disease. Miyashita and Brady provided an example of discharged patients who were fitted with a Wi-Fi-enabled armband that remotely monitors vital signs, such as respiratory rate, oxygen levels, pulse, blood pressure, and body temperature, from a group of hospitals serving 500,000 people in southeast England.

**Some example are given below**

### **1- AI-Driven Clinical Assessment and Disease Prediction:**

Chronic diseases, including heart disease, diabetes, stroke, and neurodegenerative disorders, are among the leading causes of death and disability worldwide. These conditions often develop over many years and may remain asymptomatic in their early stages, leading to late-stage diagnoses when treatment options become less effective, and healthcare costs significantly increase. Early detection is critical to improving health outcomes, enabling timely interventions, personalized treatments, and preventive strategies that can reduce disease progression and enhance quality of life. AI systems are capable of analyzing vast amounts of complex data, including electronic health records, medical imaging, genetic information, and real-time patient monitoring.

#### **Overview of AI in Healthcare**

(I) **Machine Learning (ML):** In healthcare, ML models are widely used for predicting disease risk, personalizing treatment regimens, and identifying patterns in patient data

(II) **Deep Learning (DL):** It is particularly useful in areas like medical imaging, where it is used for diagnosing conditions such as cancer, heart disease, and neurological disorders from medical scans.

(III) **Computer Vision:** In healthcare, computer vision is used in image-based diagnostics, such as interpreting X-rays, MRIs, and CT scans to detect conditions like tumors, fractures, and other abnormalities.

#### **Applications of AI in Healthcare:**

For example, AI algorithms can analyze medical imaging to detect diseases like cancer, heart disease, and eye conditions with high accuracy, often at earlier stages than traditional methods.

AI enables the creation of personalized treatment plans based on a patient's unique genetic makeup, medical history, and lifestyle.

AI accelerates the drug discovery process by analyzing vast amounts of biomedical data to identify promising drug candidates, predict how different compounds will interact with specific diseases, and optimize clinical trial designs.

#### **Advantages of AI-Driven Early Detection**

AI-driven early detection systems offer numerous benefits for both patients and healthcare providers, transforming the landscape of chronic disease management and prevention Here are the key advantages:

##### **(I) Improved Accuracy and Precision**

**Enhanced Diagnostic Accuracy:** AI algorithms can analyze vast amounts of patient data, including medical images, genetic information, and clinical records, to identify subtle patterns that human clinicians

**Early Detection of Diseases:** AI systems can detect diseases in their earliest stages, often before symptoms appear.

##### **(II) Timely Intervention and Preventive Care Proactive Disease Management:**


By identifying at-risk individuals early, AI enables healthcare providers to intervene before the disease progresses. **Reducing Disease Burden:** Early detection helps to prevent the complications associated with chronic diseases, such as heart failure, kidney failure, or stroke

### (III) Efficiency and Cost Reduction

AI systems automate routine tasks such as data analysis, image interpretation, and risk prediction, allowing healthcare providers to focus on patient care rather than administrative duties. This increases overall efficiency and reduces the workload on clinicians

**Cost Savings:** By detecting diseases early, AI-driven systems can reduce the need for expensive treatments, hospitalizations, and surgeries associated with advanced stages of chronic diseases.

### (IV) Enhanced Research and Development Accelerating Medical Research: AI-powered early detection systems can analyze large datasets to uncover new insights about disease patterns, risk factors, and treatment outcomes.



**Fig 2: Role of AI in healthcare**


## 2- AI-Powered Public Health Surveillance

### (I) Natural Language Processing (NLP)

**Analyzing Unstructured Data from Social Media and News:** Natural Language Processing (NLP) focuses on the interaction between computers and human language. In public health surveillance, NLP techniques can be applied to analyze unstructured data sources such as social media posts, news articles, and online forums. By processing this data, public health officials can gain insights into public sentiment, disease awareness, and emerging health trends. For instance, NLP algorithms can identify spikes in discussions about specific symptoms or diseases, serving as early warning signals for potential outbreaks. This real-time analysis of social media can complement traditional surveillance methods and provide a more comprehensive view of public health dynamics.

## (II) Ensuring Data Quality and Reliability:

Maintaining data quality and reliability is critical for effective surveillance. AI technologies can help automate the cleaning and validation of data, identifying inconsistencies and errors that could skew results.




**Fig 3: Predictive modeling of AI in public health.**

## 3. Artificial Intelligence in Precision Medicine

The field of precision medicine is similarly experiencing rapid growth. Precision medicine is perhaps best described as a health care movement involving what the National Research Council initially called the development of “a New Taxonomy of human disease based on molecular biology,” or a revolution in health care triggered by knowledge gained from sequencing the human genome.

Precision medicine offers healthcare providers the ability to discover and present information that either validates or alters the trajectory of a medical decision from one that is based on the evidence for the average patient, to one that is based upon individual’s unique characteristics. It facilitates a clinician’s delivery of care personalized for each patient.



**Fig 4: Dimensions of synergy between AI and precision medicine. Both precision medicine and artificial intelligence (AI) techniques impact the goal of personalizing care in five ways (therapy planning using clinical, genomic or social and behavioral determinants of health, and risk prediction/diagnosis, using genomic or other variables.)**

#### 4. AI in Hospital Management and Workflow Optimization

**Resource Allocation and Scheduling:** AI algorithms are adept at predicting patient inflow and identifying peak operation times, enabling hospitals to allocate resources more efficiently. AI-driven scheduling tools optimize staff rosters and equipment usage, reducing wait times and improving patient flow.

**Supply Chain Management:** AI systems enhance supply chain efficiency in healthcare settings by predicting inventory needs, managing stock levels, and automating orders. This minimizes waste and ensures the availability of critical medical supplies.

**Facility Management:** AI tools assist in the maintenance of healthcare facilities by predicting when equipment needs servicing or replacement, thus preventing downtimes and ensuring continuous, reliable operations.

## **(I) Cost Reduction and Error Minimization**

**Automating Routine Tasks:** AI automates routine administrative tasks such as billing, appointment scheduling, and patient communications. This not only reduces operational costs but also allows healthcare staff to focus on more critical, patient-centric tasks.

**Error Reduction in Diagnostics and Treatment:** By providing decision support to clinicians, AI reduces the likelihood of diagnostic errors and ensures that patients receive appropriate care. This enhances patient safety and reduces the costs associated with misdiagnoses and incorrect treatments.

**Predictive Maintenance of Medical Equipment:** AI-enabled predictive maintenance anticipates equipment failures before they occur, reducing unexpected repair costs and extending the lifespan of costly medical equipment.

## **5. Future Perspectives and Innovations**

- The potential of AI in vaccine development
- AI in mental health monitoring and treatment
- Integration of AI with nanotechnology and biotechnology

## **6. Conclusion**

Summary of AI's positive impact on human health. The balance between AI advancements and ethical considerations. The future role of AI in global healthcare

Artificial Intelligence is rapidly transforming the landscape of human health and disease management. From early diagnosis and personalized treatment to drug discovery and epidemic prediction, AI technologies are proving to be powerful tools in enhancing healthcare outcomes. By enabling faster, more accurate analyses and supporting clinical decision-making, AI not only increases efficiency but also improves patient safety and care quality. However, to fully harness its potential, ethical considerations, data privacy, and equitable access must remain at the forefront of its development and deployment. As AI continues to evolve, its thoughtful integration into healthcare systems promises a future where health services are more proactive, precise, and inclusive—ultimately safeguarding and advancing human health on a global scale.

## **References**

- Amato, F.; López, A.; Peña-Méndez, E.; Vañhara, P.; Hampl, A.; Havel, J. Artificial Neural Networks in Medical Diagnosis. *J. Appl. Biomed.* 2013, 11, 47–58.
- Anwar, Muhammad Shoaib, Mohammad Mahtab Alam, Meraj Ali Khan, Amr S. Abouzied, Zakir Hussain, and V. Puneeth. "Generalized viscoelastic flow with thermal radiations and chemical reactions." *Geoenery Science and Engineering* 232 (2024): 212442.
- Chikowe, Ibrahim, King David Bwaila, Samuel Chima Ugbaja, and Amr S. Abouzied. "GC–MS analysis, molecular docking, and pharmacokinetic studies of *Multidentiacrassa* extracts' compounds for analgesic and anti-inflammatory activities in dentistry." *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 1876
- Boddapati, V. N., Sarisa, M., Reddy, M. S., Sunkara, J. R., Rajaram, S. K., Bauskar, S. R., & Polimetla, K. (2022). Data migration in the cloud database: A review of vendor solutions and challenges. Available at SSRN 4977121
- Esteva, A.; Kuprel, B.; Novoa, R.; Ko, J.; Swetter, S.; Blau, H.; Thrun, S. Dermatologist-level Classification of Skin cancer with Deep Neural Networks. *Nature* 2017, 542, 115–118

- Fatima, S. (2024b). Transforming Healthcare with AI and Machine Learning: Revolutionizing Patient Care Through Advanced Analytics. *International Journal of Education and Science Research Review*, Volume-11(Issue6).
- H. K., Bauskar, S. R., Madhavaram, C. R., Galla, E. P., Sunkara, J. R., & Reddy, M. S. (2020). Exploring AI Algorithms for Cancer Classification and Prediction Using Electronic Health Records. *Journal of Artificial Intelligence and Big Data*, 1(1), 65-74. 7.
- Lee, S.; Lee, D. Healthcare wearable devices: An analysis of key factors for continuous use intention. *Serv. Bus.* 2020, 14, 503–531.
- Miyashita, M.; Brady, M. The Health Care Benefits of Combining Wearables and AI. *Harv. Bus. Rev.* 2019. Available online: <https://hbr.org/2019/05/the-health-care-benefits-of-combining-wearables-and-ai> (accessed on 18 June 2020).
- Ramesh, A.; Kambhampati, C.; Monson, J.; Drew, P. Artificial Intelligence in Medicine. *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 2004, 86, 334–338.
- Reddy, M. S., Sarisa, M., Konkimalla, S., Bauskar, S. R., Gollangi, H. K., Galla, E. P., & Rajaram, S. K. (2021). Predicting tomorrow's Ailments: How AI/ML Is Transforming Disease Forecasting. *ESP Journal of Engineering & Technology Advancements*, 1(2), 188-200. 5. Gollangi, H. K., Bauskar, S. R., Madhavaram, C. R., Galla, E. P., Sunkara, J. R., & Reddy, M. S. (2020). Echoes in Pixels: The intersection of Image Processing and Sound detection through the lens of AI and ML. *International Journal of Development Research*, 10(08), 39735-39743. 6. Gollangi,
- Yoon, S.; Lee, D. Artificial Intelligence and Robots in Healthcare: What are the Success Factors for Technology-based Service Encounters? *Int. J. Healthc. Manag.* **2019**, 12, 218–225.



# THE FUTURE OF AI IN RETAIL INVESTING: OPPORTUNITIES AND EMERGING TRENDS

**Devendra Pratap Singh\***  
**Dr. Anurag Agarwal\*\***

**Abstract :** *Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing the financial sector, particularly in retail investing. AI-powered tools and platforms are enabling retail investors to make more informed decisions, optimize portfolios, and improve risk management. This paper explores the current state of AI in retail investing, identifies key opportunities, and examines emerging trends shaping the future. The study highlights how AI-driven market analysis, robo-advisors, algorithmic trading, and sentiment analysis are enhancing investor confidence and market participation. However, challenges such as algorithmic bias, data privacy, and regulatory issues must be addressed to ensure sustainable growth. The paper concludes with strategic recommendations for leveraging AI to foster inclusive and ethical investment practices.*

**Keywords :** *Artificial Intelligence (AI), Retail Investing, Algorithmic Trading, Market Regulation, Predictive Analytics*

## **Introduction**

The rise of Artificial Intelligence (AI) in financial markets marks a paradigm shift in how investment decisions are made and executed. Financial markets have always been complex and influenced by a range of economic, political, and psychological factors. Traditionally, retail investors have faced significant barriers in accessing market insights, sophisticated investment tools, and expert financial advice. However, AI is democratizing access to financial markets, enabling retail investors to make data-driven decisions and improve their investment outcomes. Retail investors, defined as individual non-professional market participants, have historically faced challenges such as limited access to real-time data, higher transaction costs, and an asymmetry of information compared to institutional investors. Institutional investors, armed with advanced algorithms, quantitative models, and research teams, have maintained a competitive edge over retail investors for decades. AI is now bridging this gap by providing retail investors with tools and insights that were previously exclusive to professional traders and hedge funds. The introduction of AI-driven trading platforms, robo-advisors, and predictive analytics has transformed the investment landscape. Retail investors can now access automated financial advice, predictive market analysis, and algorithmic trading strategies. AI enables investors to analyze large volumes of structured and unstructured data, such as historical market performance, news sentiment, and social media trends, to anticipate market movements with greater accuracy. Moreover, AI is reshaping investor psychology and behavior. Traditional investing was often influenced by cognitive biases such as overconfidence, loss

---

\* Research Scholar, Department of Commerce, S.S. (P.G.) College, Shahjahanpur, (U.P.) Bharat

\*\*Professor & Head, Department of Commerce, S.S. (P.G.) College, Shahjahanpur, (U.P.) Bharat

aversion, and herd mentality. AI's ability to provide objective, data-driven insights helps mitigate these biases and promotes more rational decision-making. Personalized financial strategies based on an investor's goals and risk tolerance are becoming increasingly common due to AI's ability to process and analyze individual behavioral patterns. India's financial markets are also experiencing a significant transformation driven by AI. With a growing number of retail investors participating in the stock market, AI-driven platforms and tools have become essential for improving market accessibility and investor confidence. Government initiatives such as Digital India and increased internet penetration in rural and semi-urban areas have further supported this trend.

This paper aims to explore the evolving role of AI in retail investing, the opportunities it presents, and the emerging trends that will shape the future. It also examines the challenges associated with AI adoption, including algorithmic bias, data privacy concerns, and regulatory gaps. Finally, the paper provides strategic recommendations for leveraging AI to foster a more inclusive, efficient, and transparent financial market.

### **Current State of AI in Retail Investing**

- **AI-Powered Trading Platforms** -AI-driven trading platforms leverage machine learning (ML) and deep learning to analyze vast amounts of market data, identify patterns, and execute trades in real time. These platforms have made it easier for retail investors to access market insights previously available only to institutional investors.
- **Robo-Advisors** -Robo-advisors use AI algorithms to provide personalized financial advice and portfolio management based on an investor's risk profile, investment goals, and market conditions. Leading platforms such as Betterment and Wealthfront have demonstrated the effectiveness of AI in reducing costs and improving investment returns.
- **Sentiment Analysis** - AI models are capable of analyzing market sentiment by processing news articles, social media feeds, and financial reports. This allows retail investors to gauge market mood and adjust their investment strategies accordingly.
- **Predictive Analytics** - Machine learning algorithms predict future stock price movements by analyzing historical data, market trends, and macroeconomic indicators. These insights help retail investors make more informed decisions and improve their market timing.

### **Opportunities for Retail Investors**

- **Democratization of Market Insights**- AI has leveled the playing field by providing retail investors access to sophisticated market analysis and trading strategies once available only to institutional players. This democratization empowers retail investors to compete more effectively in the stock market.
- **Enhanced Risk Management**- AI-powered risk assessment tools help investors identify and mitigate market risks. Machine learning models can predict market volatility, enabling investors to adjust their portfolios proactively.
- **Lower Costs and Increased Efficiency**- AI-driven platforms reduce the cost of financial advisory services by automating key functions. Robo-advisors, for example, offer lower fees compared to human advisors while delivering similar or better returns.
- **Personalized Investment Strategies** -AI enables hyper-personalization by analyzing an investor's financial goals, risk tolerance, and market behavior to offer tailored investment strategies. This enhances investor confidence and long-term engagement.

### **Emerging Trends**

- AI-Driven Behavioral Finance- AI is increasingly being used to understand investor psychology and behavior. Platforms can analyze an investor's emotional responses and trading patterns to offer personalized advice and reduce irrational decision-making.
- Quantum Computing and AI in Investing- The integration of quantum computing with AI could revolutionize market analysis by processing complex data sets and identifying market anomalies at unprecedented speed and accuracy.
- Integration of Natural Language Processing (NLP)- NLP-powered AI models are enhancing sentiment analysis and market predictions by processing large volumes of unstructured data, including financial reports, news articles, and earnings calls.
- Blockchain and AI Synergy -The combination of AI and blockchain technology is improving transaction security, transparency, and trust in financial markets. Smart contracts and AI-driven auditing are expected to enhance market integrity.
- AI and ESG (Environmental, Social, and Governance) Investing - AI is facilitating the rise of ESG investing by analyzing environmental, social, and governance factors and incorporating them into investment strategies. This allows retail investors to align their portfolios with ethical and sustainable goals.

### **Challenges and Risks**

- Algorithmic Bias - AI models are susceptible to biases in training data, which can lead to distorted market signals and unfair outcomes for retail investors.
- Data Privacy and Security - The use of AI in retail investing involves processing large volumes of sensitive financial data. Ensuring data privacy and protection against cyber threats is a critical challenge.
- Regulatory and Ethical Concerns - The rapid advancement of AI in financial markets has outpaced regulatory frameworks. Establishing clear guidelines for algorithmic trading and AI-driven financial advisory is essential to protect retail investors.

### **Strategic Recommendations**

- Promoting Financial Literacy – Educating retail investors about AI-driven tools and their implications will empower them to make informed decisions.
- Enhancing Data Protection – Strengthening cybersecurity measures and data privacy regulations will build investor trust in AI platforms.
- Addressing Bias in AI Models – Implementing transparent AI model development and training processes will reduce algorithmic bias.
- Encouraging Public-Private Partnerships – Collaboration between financial institutions, AI developers, and regulators will drive innovation and ensure responsible AI deployment.
- Developing Ethical Guidelines – Establishing ethical standards for AI use in financial markets will ensure fair and inclusive growth.

### **Conclusion**

AI is transforming the retail investing landscape by providing retail investors with advanced tools and insights that were previously inaccessible. The opportunities for enhanced market access,

improved decision-making, and cost reduction are significant. However, addressing challenges related to algorithmic bias, data privacy, and regulatory oversight will be crucial for sustainable growth. By fostering a balanced approach to AI deployment, India can position itself as a leader in AI-driven financial innovation while ensuring ethical and inclusive market participation.

### References

- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Statista. (2024). *AI in Financial Markets: Global Market Insights*.
- SEBI Report (2024). *Artificial Intelligence and Market Regulation*.
- Pakharuddin, N. D., & Kamarudin, S. (2023, December). Retail sector emerging technologies: AI and augmented reality present and future perspective. In *2023 2nd International Engineering Conference on Electrical, Energy, and Artificial Intelligence (EICEEAI)* (pp. 1-7). IEEE.



# THE INDISPENSABLE AI: FUELING IMPACT AND EFFICIENCY IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Ms. Brij Lally\*

**Abstract :** *Social entrepreneurship, driven by a mission to address pressing social and environmental challenges, often faces limited resources and complex operational hurdles. Artificial intelligence (AI) presents a powerful tool to overcome these limitations and amplify the impact of these ventures. This paper explores the critical need for AI in social entrepreneurship, examining its potential to optimize operations, enhance data-driven decision-making, personalize beneficiary engagement and improve resource allocation. Through analysis of contemporary literature, empirical examples and published statistics, this research demonstrates how AI can be an indispensable asset in scaling sustainable and impactful solutions for a better world.*

**Keywords :** *Artificial Intelligence, Social Entrepreneurship, Social Innovation, Impact Measurement, Data Analytics, Beneficiary Engagement*

## I. Introduction

Social entrepreneurship stands as a beacon of hope, tackling critical societal issues from poverty and inequality to climate change and healthcare access (Yunus, 2007). These ventures, often characterized by innovative business models and a deep commitment to social or environmental impact, face unique challenges. Limited funding, lack of skilled personnel and the complexity of measuring impact often hinder their efforts (Dees, 1998). However, the rise of Artificial Intelligence (AI) offers unprecedented opportunities to overcome these hurdles and unlock the full potential of social entrepreneurship.

AI, encompassing machine learning, natural language processing, computer vision, and robotics, can be leveraged to automate tasks, analyze vast datasets, personalize services and optimize resource allocation. This paper argues that AI is not merely a technological add-on but a critical necessity for social enterprises aiming to scale their operations, enhance their impact and ensure long-term sustainability.

## II. The Multifaceted Need for AI in Social Entrepreneurship:

The need for AI in social entrepreneurship is multifaceted, driven by the complex realities faced by these organizations. The following sections explore key areas where AI offers transformative potential:

### 1. Optimizing Operations and Enhancing Efficiency:

Social enterprises, often operating with lean budgets, can greatly benefit from AI-powered automation. Repetitive tasks like data entry, customer service and basic accounting can be

---

\* Assistant Professor, Department of Commerce, S. S. (P.G.) College, Shahjahanpur (U.P.), Bharat

automated, freeing up valuable human resources to focus on strategic initiatives. For example, AI-powered chatbots can handle initial inquiries from beneficiaries, providing immediate support and information, while freeing up human staff to address more complex issues.

Consider a social enterprise providing microloans to underserved communities. AI algorithms can automate the loan application process, assess creditworthiness based on alternative data sources and even predict potential defaults, allowing the organization to manage risk more effectively and extend credit to a wider pool of individuals (Gupta & Chatterjee, 2020). Furthermore, AI-driven supply chain optimization can help social enterprises that rely on sourcing materials or delivering services in remote areas to reduce costs and improve efficiency.

## **2. Data-Driven Decision Making and Impact Measurement:**

One of the biggest challenges faced by social enterprises is demonstrating and measuring their impact. Traditional methods of data collection and analysis can be time-consuming, expensive and prone to bias. AI provides powerful tools for gathering, analyzing and interpreting data, enabling social enterprises to make informed decisions and demonstrate their effectiveness to stakeholders.

For example, machine learning algorithms can analyze vast datasets from various sources, including social media, government databases and beneficiary surveys, to identify patterns and insights that would be impossible to uncover manually. This data can be used to track key performance indicators (KPIs), measure the impact of interventions, and identify areas for improvement (Bocken et al., 2014). Furthermore, AI-powered sentiment analysis can be used to gauge beneficiary satisfaction and identify areas where services can be improved.

According to a report by McKinsey Global Institute, organizations that embrace data-driven decision-making are 23 times more likely to acquire customers and 6 times more likely to retain them (Manyika et al., 2011). While this study focuses on for-profit businesses, the principles apply equally to social enterprises, where data-driven insights can lead to more effective program design and resource allocation.

## **3. Personalized Beneficiary Engagement and Service Delivery:**

Social enterprises often work with diverse populations, each with unique needs and circumstances. AI can enable personalized service delivery by tailoring interventions to the specific needs of individual beneficiaries. This personalization can lead to greater engagement, improved outcomes and increased impact.

For instance, an AI-powered education platform can adapt its curriculum to the learning style and pace of individual students, providing personalized feedback and support. In the healthcare sector, AI can be used to develop personalized treatment plans based on individual patient data, improving the effectiveness of interventions and reducing healthcare costs (Meskó et al., 2017).

Furthermore, AI-powered language translation tools can break down communication barriers and ensure that beneficiaries from diverse linguistic backgrounds have access to the information and services they need. This is particularly important for social enterprises working with refugee populations or in multilingual communities.

## **4. Improved Resource Allocation and Fundraising:**

Social enterprises often struggle with limited resources and face the challenge of allocating them effectively. AI can help optimize resource allocation by identifying the most impactful programs and projects, predicting future funding needs and improving fundraising efforts.

AI-powered predictive analytics can be used to identify potential donors and tailor fundraising appeals to their specific interests. This can lead to higher donation rates and increased funding for social enterprises. Furthermore, AI can be used to analyze past performance data to identify the most effective programs and projects, allowing social enterprises to focus their resources on initiatives that have the greatest impact.

### **5. Scaling Impact and Reaching Wider Audiences:**

One of the ultimate goals of social entrepreneurship is to scale impact and reach a wider audience. AI can play a crucial role in achieving this goal by enabling social enterprises to automate processes, personalize services and improve efficiency.

AI-powered platforms can be used to connect social enterprises with beneficiaries, volunteers and funders, creating a vibrant ecosystem that supports their growth and impact. For example, online platforms can be used to match volunteers with social enterprises that need their skills, or to connect investors with social enterprises that are seeking funding.

According to a report by Accenture, AI could add \$14 trillion to the global economy by 2035 (Purdy & Daugherty, 2017). While this figure encompasses all sectors, it highlights the transformative potential of AI and its ability to drive economic growth. Social enterprises can leverage this potential to scale their operations, create jobs and address pressing social and environmental challenges on a global scale.

### **III. Challenges and Ethical Considerations:**

While the potential benefits of AI in social entrepreneurship are immense, it is crucial to acknowledge the challenges and ethical considerations associated with its implementation.

- **Data Privacy and Security:** Social enterprises must ensure that they are collecting and using data responsibly and ethically, protecting the privacy and security of beneficiary data.
- **Bias and Fairness:** AI algorithms can perpetuate existing biases if they are trained on biased data. Social enterprises must be vigilant in identifying and mitigating these biases to ensure that their AI systems are fair and equitable.
- **Digital Divide:** Social enterprises must ensure that their AI-powered services are accessible to all beneficiaries, regardless of their access to technology or digital literacy.
- **Job Displacement:** While AI can automate tasks and improve efficiency, it may also lead to job displacement. Social enterprises must consider the potential impact of AI on their workforce and take steps to mitigate any negative consequences.

### **IV. Conclusion:**

AI is no longer a futuristic concept but a present-day reality that holds immense potential for social entrepreneurship. By optimizing operations, enhancing data-driven decision-making, personalizing beneficiary engagement, improving resource allocation and scaling impact, AI can be an indispensable asset in the pursuit of a more just and sustainable world. While challenges and ethical considerations must be addressed proactively, the benefits of embracing AI in social entrepreneurship far outweigh the risks. As social enterprises continue to evolve and adapt to a rapidly changing world, AI will undoubtedly play a pivotal role in shaping their future and amplifying their impact. Investing in AI-driven solutions is an investment in the future of social innovation, paving the way for more effective, efficient and impactful solutions to the world's most pressing challenges.

**V. References:**

- Brij Lally, Edited book “Social Entrepreneurship in India”.
- Brij Lally, Edited book “सामाजिक उद्यमिता एवं विकास”.
- Brij Lally, Edited book “सामाजिक उद्यमिता एवं समाज का सशक्तिकरण”.
- Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, 42-56.
- Dees, J. G. (1998). Enterprising nonprofits. *Harvard Business Review*, 76(1), 54-67.
- Gupta, A., & Chatterjee, S. (2020). Artificial intelligence and microfinance: Opportunities and challenges. *Strategic Change*, 29(5), 573-581.
- Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute.
- Meskó, B., Hetényi, G., Gyórfy, Z., & Kollár, L. (2017). Will artificial intelligence solve the human resources crisis in healthcare?. *BMC Health Services Research*, 17(1), 545.
- Purdy, M., & Daugherty, P. (2017). *Why artificial intelligence is the future of growth*. Accenture.
- Yunus, M. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. PublicAffairs.



# THE ROLE OF CHATGPT AND GENERATIVE AI IN ACADEMIC RESEARCH: A SYSTEMATIC REVIEW

Syed Ali Zuhair Zaidi\*  
Dr. Manish Kumar\*\*

**Abstract :** *Generative AI models, including ChatGPT, have revolutionized academic research by facilitating enhanced efficiency in manuscript preparation, literature review, and data analysis. This systematic review outlines the role of ChatGPT and other AI models in revising traditional research processes and the benefits and ethical concerns associated with them. Based on an analysis of existing literature, the present study explores how AI enables expedited generation of knowledge, collaborative interdisciplinary work, and sharing of research material among a wider community. However, severe issues are linked to authorship, data accuracy, academic ethics, and over-reliance on AI-generated content. The manuscript highlights the need for transparent guidelines and institution policy to influence the application of AI in research in academia. By critically assessing AI's impact on the integrity and quality of research, the study extends implementable guidelines to researchers, instructors, and policymakers to utilize AI without risking the integrity of academic processes. The findings reiterate the importance of balancing AI's efficiency with ethics to maintain the credibility of academic work.*

**Keywords:** *Generative AI, ChatGPT, Academic Research, Ethics in AI, Research Integrity.*

## I. Introduction

Generative AI tools like ChatGPT are shaking up research. They speed up things like literature reviews, crunching data, and even drafting papers, making work seem smoother. However, this boost in efficiency brings puzzles about who did the work, whether the findings hold up, and if our academic standards stick around. I focus on the ups and downs of this shift. I highlight how AI boosts our research game and flag the ethical mix-ups that creep in as more folks adopt it. This review has two goals. First, it gathers and inspects current work on ChatGPT in academic settings. Second, it checks how the tech impacts both the quality of research and our ethical standards. I dive into these issues to toss practical ideas for researchers caught in this tech whirlpool. One scholar said, "If we do not invest in it, our work will not get the recognition it deserves." "We should become better storytellers to communicate the great work we have done more effectively. If we do not invest in it, our work will not get the recognition it deserves. AI tools like ChatGPT can help us analyze data faster, freeing up more time for the crucial storytelling aspect of research communication." (Cole Nussbaumer-Knafl). The paper also aims to nudge policymakers and colleges to consider

---

\* Research Scholar, Department of Commerce, Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, Uttar Pradesh, India.

\*\*Assistant Professor, Department of Commerce, Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, Uttar Pradesh, India.

the broader fallout of these advances, pushing us toward a more solid, ethically sound academic vibe. In the end, the insights from this study should act as a handy guide to understanding how deeply AI is wedded to scholarly work, stressing that mixing proper ethical checks with tech leaps is a must (Gordon M et al., 2024), (Yang J et al., 2024), (Walter Y, 2024), (Naqbi HA et al., 2024), (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024), (Gary S Collins et al., 2024), (Prather J et al., 2023), (Yu P et al., 2023), (Keng-Ooi B et al., 2023), (Stahl BC et al., 2023), (Pu Z et al., 2024), (R Richey G et al., 2023), (Bahroun Z et al., 2023), (Gonsalves et al., 2024), (N/A, 2024), (Hutson et al., 2024), (Hoffeditz et al., 2024), (Chen et al., 2023), (Cordella et al., 2024), (Wahid et al., 2024).

## II. Review Of Literature

New tech is shaking academia by radically changing how scholars make, check, and share knowledge. ChatGPT and other generative AI tools now speed up tasks like data synthesis and scanning through literature (Gordon M et al., 2024) while unlocking wild new paths for ideas from everything—humanities, social studies, and even hard sciences (Yang J et al., 2024)(Walter Y, 2024). These tools fire up productivity and open the floodgates to information, yet they also stir heated talks about ethics and quality. Researchers now demand clear ways to test AI outputs and call for down-to-earth practices (Naqbi HA et al., 2024; Jesutofunmi A (Omiye et al., 2024). Classroom use has not caught on much yet (Gary S Collins et al., 2024). People worry that trusting AI too much might dull real brainpower (Prather J et al., 2023; Yu P et al., 2023). Even though tech bits of AI are booming, chats about rules and control are still in their early days (Keng-Ooi B et al., 2023; Stahl BC et al., 2023). This review dives into current studies, pointing out the perks alongside AI's messy ethical and practical challenges to scholarship. It tosses out some ideas aimed at guiding future rules in our digital academic world (Pu Z et al., 2024)(R Richey G et al., 2023)(Bahroun Z et al., 2023)(Gonsalves et al., 2024)(N/A, 2024)(Hutson et al., 2024)(Hoffeditz et al., 2024)(Chen et al., 2023)(Cordella et al., 2024)(Wahid et al., 2024). ChatGPT and its AI cousins have grown with tech upgrades and shifting academic vibes. At first, studies leaned on these tools for drudgery—automating lit reviews and crunching simple data (Gordon M et al., 2024; Yang J et al., 2024). Later, researchers started chewing on heftier issues about who owns ideas, and by the mid-2020s, ethics stood center stage as institutions looked to set down some ground rules (Walter Y, 2024) (Naqbi HA et al., 2024)(Jesutofunmi A Omiye et al., 2024)(Gary S Collins et al., 2024). Teachers even began to toy with these systems to liven up their classes, offering personalized feedback and flexible learning setups, though questions about honesty and output quality still lurked (Prather J et al., 2023)(Yu P et al., 2023)(Keng-Ooi B et al., 2023)(Stahl BC et al., 2023). By the late 2020s, folks saw AI was not just a speed booster—it got wedded to inventive research moves, pushing everyone to keep the conversation going about safe, smart ways to use it (Pu Z et al., 2024)(R Richey G et al., 2023)(Bahroun Z et al., 2023)(Gonsalves et al., 2024). Reviews now mix findings from a bunch of fields, hinting that new tech and old-school scholarship can mesh in surprising ways (N/A, 2024)(Hutson et al., 2024)(Hoffeditz et al., 2024)(Chen et al., 2023)(Cordella et al., 2024)(Wahid et al., 2024). A peek at the studies shows a couple of ideas coming through. Many papers shout that these AI tools slash the time spent on number crunching and rummaging through texts, freeing researchers to dive into fresh, offbeat projects (Gordon M et al., 2024; Yang J et al., 2024). This burst of efficiency seems like a ticket to level the academic playing field, giving a leg up to scholars from all kinds of backgrounds (Walter Y, 2024; Naqbi HA et al., 2024). Still, leaning too hard on AI invites serious ethical headaches. Critics claim that when AI does too much, it muddies who did

the work and makes keeping quality in line a real pain (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024; Gary S Collins et al., 2024; Prather J et al., 2023). While these tools ace tasks with neat, structured data, they might not live up to the challenge in areas that thrive on subtle insights and creative spins—an issue begging for more eyeballs (Yu P et al., 2023)(Keng-Ooi B et al., 2023)(Stahl BC et al., 2023). Ultimately, the overall vibe is one of hopeful caution as scholars balance AI's big promise against some pretty tough hurdles (Pu Z et al., 2024; R Richey G et al., 2023; Bahroun Z et al., 2023). Digging into how ChatGPT and similar systems nudge academic work, researchers try a mix of methods. Some dive into the human side, sharing vivid stories about users finding more efficiency and spur-of-the-moment creativity with these tools (Gordon M et al., 2024; Yang J et al., 2024). Numbers back that up too, showing clear gains in productivity when AI lends a hand compared to the old ways (Walter Y, 2024; Naqbi HA et al., 2024). A blend of both styles is cropping up, mixing hard data with first-hand impressions, and it reveals that things like school policies and discipline quirks shape how these tools perform (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024; Gary S Collins et al., 2024). Reviews also hammer home the need to hook ethics into research—keeping things open, fighting bias, and ensuring data stays solid (Prather J et al., 2023; Yu P et al., 2023). As people keep bickering over the best approach, these debates look set to shape a down-to-earth, ethical blueprint for how AI should work in research in the times to come (Keng-Ooi B et al., 2023; Stahl BC et al., 2023). Diving into theory adds even more flavor to the mix of AI's role in research. Supporters claim AI speeds up work and sparks wild creative leaps, echoing old ideas of automation (Gordon M et al., 2024; Yang J et al., 2024; Walter Y, 2024). On the flip side, some warn that leaning too heavy on AI might erode the sharp, hands-on thinking that's at the heart of research, tapping into ideas about how tech can mess with our natural smarts (Naqbi HA et al., 2024)(Jesutofunmi A Omiye et al., 2024)(Gary S Collins et al., 2024). Some even wonder if AI might silently sneak in new biases or shake up long-held notions of ownership and credit (Prather J et al., 2023; Yu P et al., 2023). All these different takes show just how messy it gets when you mix shiny new tech with time-tested academic ways, deepening the ongoing debate about what AI brings to the table and what it might take away (Keng-Ooi et al., 2023; Stahl BC et al., 2023). All in all, the literature on ChatGPT and generative AI sketches a picture of major tech strides tangled with big challenges, redrawing research methods. On the one hand, these tools cut down the drudgery of tasks like data analysis and scanning literature (Gordon M et al., 2024; Yang J et al., 2024; Walter Y, 2024; Naqbi HA et al., 2024) and open up research to more people. Conversely, their rise in churning material kicks off debates about academic honesty—especially around getting proper credit and keeping quality in check (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024; Gary S Collins et al., 2024). Even though teaming up with AI can boost teamwork and spark creative new methods, it comes with risks like bias, less accountability, and the potential dulling of critical thought (Prather J et al., 2023)(Yu P et al., 2023)(Keng-Ooi B et al., 2023)(Stahl BC et al., 2023). Plus, there are still gaps in what we know—for example, we need tougher studies on ethics and smarter strategies for blending AI into the classroom (Pu Z et al., 2024)(R Richey G et al., 2023)(Bahroun Z et al., 2023)(Gonsalves et al., 2024). Looking forward, mixing ideas from different fields and using a variety of research approaches will be key to grasping how AI reshapes academia and to making sure its rollout stays both responsible and inventive (N/A, 2024)(Hutson et al., 2024)(Hoffeditz et al., 2024)(Chen et al., 2023). AI holds a huge promise for academic work, but its full potential will shine only if we keep fine-tuning its ethical and practical ways (Cordella et al., 2024; Wahid et al., 2024).


### **III. Methodology**

Generative AI like ChatGPT is grabbing the attention of researchers and everyday experts. This surge makes us rethink our old research methods when AI weds with academic work. The core problem is that we lack a standard way to judge how well generative AI works and its ethical side, especially as worries about authorship and originality grow (Gordon M et al., 2024). This review gathers current research on how generative AI is used in education, exploring its perks, pitfalls, and challenges (Yang J et al., 2024). It also shows how different parts of education handle these tools and finds gaps that still need digging into (Walter Y, 2024). Getting this right matters. One source even said, "ChatGPT and other generative AI tools have the potential to revolutionize academic research." "ChatGPT and other generative AI tools have the potential to revolutionize academic research by automating literature reviews, generating research questions, and even drafting initial manuscripts. However, their use raises important questions about authorship, originality, and the very nature of scholarly inquiry." (Kristina Kallas). We combined our approaches by diving into case studies and crunching bibliometric numbers. That combo grabs the big picture of AI chatter in education (Naqbi HA et al., 2024) and pulls from all kinds of data, showing the messy way generative AI ends up in research (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024). This work matters beyond fancy theories—it throws out everyday tips for teachers and decision-makers wrestling with these tech puzzles (Gary S Collins et al., 2024). The review outlines a clear plan to spark honest chats about using generative AI smartly and ethically, hoping to boost practices that stick to moral ground (Prather J et al., 2023). This part tackles the research problem head-on, giving us practical hints that support academic integrity and fresh ideas (Yu P. et al., 2023). Ultimately, these issues and fixes might shape our big-picture thoughts and the hands-on use of AI in academic settings (Keng-Ooi et al., 2023).

### **IV. Results & Discussion**

Generative AI is shaking up academic research, and ChatGPT stands out as a wild example. A quick scan of recent studies shows that these tools boost how fast and well we work. Researchers noticed big leaps in handling literature checks, crunching data, and even putting together research papers; some investigations reveal that using AI chopped down the time needed for these jobs (Gordon M et al., 2024). ChatGPT spits out text that is both on-point and smart, smoothing out the process of drafting and fine-tuning docs (Yang J et al., 2024). Early work hinted at a growing trust in AI for better productivity in tasks like juggling data and crafting content (Walter Y, 2024). Old views on AI in classrooms got tossed aside when new findings hit home: while generative AI brings cool perks to academic growth, it also demands a closer look at ethical issues and bias fixes (Naqbi HA et al., 2024). Sometimes, AI output shows its built-in biases, reminding folks that transparency and owning up matter in AI-aided research (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024). The hard facts even wedded technology with academic success, proving that welcoming generative AI truly fires up research routines and outcomes (Gary S Collins et al., 2024). These ideas spill over into real-life use, making generative AI a must-have in today's research scenes (Prather J et al., 2023). Schools and institutions now scramble to rethink how they teach and run operations, pushing for more AI know-how among teachers and students (Yu P. et al., 2023). Tools like ChatGPT open up top-notch research features to everyone, even as they flag some risks that need attention (Keng-Ooi B et al., 2023). That is why many colleges are reworking their classes to mesh with the inventive side of

AI while wrestling with its tricky ethical bits (Stahl BC et al., 2023). Overall, the review calls for a deeper, more down-to-earth dive into AI’s fast-changing world, aiming for better learning outcomes while staying mindful of tech’s messy bits (Pu Z et al., 2024). Ultimately, these shifts might flip the script on how research is done and spread ideas far beyond the usual academic circles (R Richey G et al., 2023).



*This bar chart illustrates the percentage improvements in efficiency and quality of academic research tasks due to the integration of generative AI technologies. Based on findings from multiple studies reviewed systematically, it shows significant enhancements in literature review automation at 85%, data analysis enhancement at 75%, and research draft generation at 80%.*

Generative AI like ChatGPT is flipping the script for research and writing. This review shows that AI is speeding things up and polishing writing by handling the boring parts. Researchers say the tools slash hours spent on literature reviews and crunching data. Past work backs this up—things run smoother when AI gets wedded to research routines (Gordon M et al., 2024). ChatGPT is known for whipping up clear, context-ready drafts that help scholars (Yang J et al., 2024). Still, AI sparkles and stumbles; it sometimes brings bias and other ethical snags (Walter Y, 2024). The findings keep saying we must be upfront and answerable when using AI, especially with those ethical traps lurking around (Naqbi HA et al., 2024). They also hint at rethinking teaching methods so that students and professors build solid AI smarts (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024). The study shouts that schools need quick, fresh policies to guide the ethical use of AI in research, matching earlier calls for rigid rules to handle AI’s messy side (Gary S Collins et al., 2024). The research also shows we still fumble understanding AI’s long-term impact on trust and authorship, meaning more real-world tests are needed (Prather J et al., 2023). All of this nudges researchers, educators, and policy folks to dive into honest chats about using AI right while sparking new ideas for study methods (Yu P. et al., 2023). The review digs into AI’s role and calls for more digging and ethical

checking (Keng-Ooi B et al., 2023). Ultimately, the results mark AI's ability to ramp up speed and stir up ethical troubles, pointing to the need for a balanced mix of bold moves and caution when integrating it in institutions (Stahl BC et al., 2023).

Research Area	Percentage Using	Perceived Benefit	Ethical Concerns
Literature Review	68	High	Medium
Data Analysis	42	Medium	High
Writing Assistance	76	High	High
Idea Generation	58	Medium	Low
Citation Management	35	Low	Low

*ChatGPT Usage in Academic Research (source: <https://backlinko.com/chatgpt-stats>)*

## V. Conclusion

ChatGPT and its generative AI buddies are shaking up academic research. A study shows these tools boost work speed, cut down on literature hunts, and help tidy up writing and editing, easing a bunch of age-old struggles for researchers (Gordon M et al., 2024). The research wedded practical AI use with trusted methods, sparking fresh academic banter in many fields (Yang J et al., 2024). These findings go way past individual projects. They hint at a twist in how scholars share their work. AI-driven tools team up with researchers to open info channels and might even spread knowledge to everyone (Walter Y, 2024). This change nudges us to rework fairness rules in academia, especially about who gets credit and how things stay clear as AI-made content becomes common (Naqbi HA et al., 2024). Researchers should dig into how it shapes what we publish, our teaching practices, and the ethical puzzles it stirs up (Jesutofunmi A Omiye et al., 2024). Some work should check if apps like ChatGPT can bump up learning and spark sharper thinking among students and researchers (Gary S Collins et al., 2024). These plans must juggle ethical concerns with clever tech use, trimming risks like bias and false info while backing responsible AI in research (Prather J et al., 2023; Yu P et al., 2023). As generative AI keeps evolving, ongoing training for researchers and teachers will be crucial to ensure that AI boosts human smarts instead of replacing them (Keng-Ooi B et al., 2023). All in all, joining forces can carve out a future where generative AI is a core, ethically run tool in research (Stahl BC et al., 2023). The ideas from this review push us to start talking about these issues now, getting the academic community ready to handle the messy parts of using AI tools in research (Pu Z. et al., 2024).

## References

- Morris Gordon, Michelle Daniel, AderonkeAjiboye, Hussein Uraiby, Nicole Y. Xu, Rangana Bartlett, Janice L. Hanson, et al. (2024). A scoping review of artificial intelligence in medical education: BEME Guide No. 84. Volume(46), 446–470. *Medical Teacher*. doi: <https://doi.org/10.1080/0142159x.2024.2314198>
- Jingfeng Yang, Hongye Jin, Ruixiang Tang, Xiaotian Han, Qizhang Feng, Haoming Jiang, Shaochen Zhong, et al. (2024) Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond. Volume(18), 1-32. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*. doi: <https://doi.org/10.1145/3649506>
- Yoshija Walter (2024). Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education.

- Volume(21). *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. doi: <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00448-3>
- Humaid Al Naqbi, ZiedBahroun, Vian Ahmed (2024). Enhancing Work Productivity through Generative Artificial Intelligence: A Comprehensive Literature Review. Volume(16), 1166–1166. *Sustainability*. doi: <https://doi.org/10.3390/su16031166>
  - Jesutofunmi A. Omiye, Haiwen Gui, Shawheen J. Rezaei, James Zou, Roxana Daneshjou (2024). Large Language Models in Medicine: The Potentials and Pitfalls. Volume(177), 210–220. *Annals of Internal Medicine*. doi: <https://doi.org/10.7326/m23-2772>
  - Gary S. Collins, Karel G.M. Moons, Paula Dhiman, Richard D. Riley, Andrew L. Beam, Ben Van Calster, MarzyehGhassemi, et al. (2024). TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078378>
  - James Prather, Paul Denny, Juho Leinonen, Brett A. Becker, Ibrahim Albluwi, Michelle Craig, HiekeKeuning, et al. (2023). The Robots Are Here: Navigating the Generative AI Revolution in Computing Education. doi: <https://doi.org/10.1145/3623762.3633499>
  - Ping Yu, Hua Xu, Xia Hu, Chao Deng (2023). Leveraging Generative AI and Large Language Models: A Comprehensive Roadmap for Healthcare Integration. Volume(11), 2776–2776. *Healthcare*. doi: <https://doi.org/10.3390/healthcare11202776>
  - Keng-Boon Ooi, Garry Wei–Han Tan, Mostafa Al-Emran, Mohammed A. Al-Sharafi, Alexandru Căpățînă, Amrita Chakraborty, Yogesh K. Dwivedi, et al. (2023) The Potential of Generative Artificial Intelligence Across Disciplines: Perspectives and Future Directions. *Journal of Computer Information Systems*. doi: <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2261010>
  - Bernd Carsten Stahl, Damian Eke (2023). The ethics of ChatGPT – Exploring the ethical issues of an emerging technology. Volume(74), 102700–102700. *International Journal of Information Management*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700>
  - Zhongji Pu, Chun-Lin Shi, Che Ok Jeon, Jingyuan Fu, Shuang-Jiang Liu, Canhui Lan, Yanlai Yao, et al. (2024). ChatGPT and generative AI are revolutionizing the scientific community: A Janus-faced conundrum. Volume(3). *iMeta*. doi: <https://doi.org/10.1002/imt2.178>
  - R. Glenn Richey, Soumyadeb Chowdhury, Beth Davis-Sramek, MihalisGiannakis, &Yogesh K. Dwivedi (2023). Artificial intelligence in logistics and supply chain management: A primer and roadmap for research. Volume(44), 532–549. *Journal of Business Logistics*. doi: <https://doi.org/10.1111/jbl.12364>
  - ZiedBahroun, ChirazAnane, Vian Ahmed, Andrew Zacca (2023). Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis. Volume(15), 12983–12983. *Sustainability*. doi: <https://doi.org/10.3390/su151712983>
  - Gonsalves, C. (2024). Generative AI’s Impact on Critical Thinking: Revisiting Bloom’s Taxonomy. doi: <https://core.ac.uk/download/635942776.pdf>
  - N/A (2024) *iSchool Student Research Journal*, Vol.14, Iss.1. doi: <https://core.ac.uk/download/619539037.pdf>
  - Hutson, J. (2024). Rethinking Plagiarism in the Era of Generative AI. doi: <https://core.ac.uk/download/618330209.pdf>

- Hoffeditz, M. (2024). Into the Unknown: Developing AI Policies for the Student Research Journal. doi: <https://core.ac.uk/download/619539039.pdf>
- Chen, S.-Y. (2023). Tsinghua Issue- Generative AI, Learning And New Literacies. doi: <https://core.ac.uk/download/591795349.pdf>
- Cordella, Antonio, Galdi, F. (2024). Regulating generative AI: The limits of technology-neutral regulatory frameworks. Insights from Italy's intervention on ChatGPT. doi: <https://core.ac.uk/download/630083903.pdf>
- Wahid, T.Tarannum (2024). Study of ethical guidelines for AI tools in higher education in the Nordic region. doi: <https://core.ac.uk/download/630298699.pdf>



# BETWEEN BREAKTHROUGH AND BREAKDOWN: THE IMPERATIVE OF AI GOVERNANCE

Arushi Rastogi\*

**Abstract :** *AI: part of life: Today, we no more await that smart era where we would be surrounded by robots or where artificial intelligence is in use in day to day activities because we live in that age. According to the World Economic Forum, AI is the software engine that drives the fourth industrial revolution<sup>1</sup> and its impact can already be seen everywhere. It has not only surrounded us but has blended in our lives in such a way that we have inadvertently started to use it in most basic of things. The future of AI holds strong potential as well as dangerous threats. Present Chapter highlights the Imperative of AI Governance.*

**Keywords :** *AI Governance, Positive side, Negative Side*

## Introduction

The word ‘Artificial Intelligence (AI)’ was coined by John McCarthy in 1956. The European Artificial Intelligence leadership (EAIL)<sup>1</sup> highlights that despite being such integral part of our lives, AI is not a well defined technology, has no universally accepted definition. The EAIL underlines the fact that though AI is not new and has existed since 1950s, it is still at a relatively early stage of development, such that the range of potential applications, and the quality of most existing applications, have ample margins left for further development and improvement. The AI domains<sup>2</sup> could be divided broadly into three- *Data Science*, wherein the system collects data, maintains data and derives meaning/sense out of it; *Natural language processing (NLP)*, that involves interaction between computer and humans using natural language [speaking, sign or written]; and *computer vision*, depicts the capability of a machine to get and analyse visual information and thereafter predict decisions around it. AI is like a superhuman, having the inexhaustible ocean of data and even the ability to multiply, with 24hrs availability having no human attributes, neither morals and nor empathy; now that does sound scary but if we tame it to the extend where it is for the benefit of humans and nothing beyond, we might be able to avoid that which seems inevitable. And that is one of the major reasons why the world and the governments throughout the world are so focussed on regulating AI applications.

AI: part of life: Today, we no more await that smart era where we would be surrounded by robots or where artificial intelligence is in use in day to day activities because we live in that age. According to the World Economic Forum, *AI is the software engine that drives the fourth industrial revolution<sup>3</sup>* and its impact can already be seen everywhere. It has not only surrounded us but has blended in our lives in such a way that we have inadvertently started to use it in most basic of things. The AI tools have advanced to such extend that you can generate images by mere description, such as in *canva*; one can upload as many as fifty hefty documents and it is able to go through everything

---

\* Student, Heeralal Yadav Law College, Lucknow (U.P.), Bharat

within seconds and give out a summary, answer one's questions and even generate a comprehensive podcast, such as in google's *notebooklm*; one can even set the tone of the conversation and then talk to it in a call-like setting, such as in *chatgpt*'s voice chat option, and it will listen, respond like a parent, friend, counsellor, any celebrity of choice, basically it has the capability to replace real human bonds in a long run. Now-a-days, coders are casually using AI for generating basic codes, artists are using it to generate reference materials and even for obtaining skeleton for their work, the writers use it to get fresh ideas or perfect their ones, almost every modern day website uses a chat bot, Search engines like Google and Bing use AI to generate more relevant responses for your query, streaming platforms like Netflix YouTube etc. use AI powered recommendation system, algorithms on all the social media app use AI to recommend content apply filters, use face recognition, remove posts for IPR infringement and so on. So, we now know that AI doesn't only operate on overt things like self driving cars or a robot waiter but it is instead present in every corner of our digital space. So for those who consider AI as something, use of which could be avoided then such people are highly mistaken because AI is all around us today and in fact it has become an inseparable part of our lives.

**The Bright Side: AI as a Partner:** In a world increasingly defined by data and speed, Artificial Intelligence emerges not just as a tool, but as a transformative force reshaping the contours of modern life. Following are a few of the perks AI offers, among others:-

**1. The Guide:** Today we can approach AI for guidance and every aspect of life and lifestyle and stuff from astronomy to astrology, paintings to digital art, from writing a song to writing a novel, academic to professional, and so on; AI has got you covered in everything. There are many AI chatbots/application which are quite specific and expert in their respective roles, for instance- To provide this research guidance for scholars comma there is scholar GPT. This shows that now, one doesn't have to search for experts or expert notes on search engines or for that matter in books anymore, they could just refer to the task specific AI and there get their expert opinion. Not only that but for the day to day tasks like cooking, gardening, etc. as well. This becomes plausible because of the huge database along with the option for you to upload any specific data in the form of pdf, word file, picture, etc., to refer from.

**2. Boon for creative insight:** Artificial Intelligence has revolutionized the landscape of creativity by acting for those who need, a catalyst for innovative thinking, thus serving as a boon for creative insight. Firstly, AI tool can suggest fresh ideas, insights, perspective that might not occur to us normally since it has a huge dataset, can be used for idea generation, covering even advertising and product development. Secondly, for any creative person, the time can come when his works start following one single pattern, making it mind-bothering monotony. Since creativity and innovation go hand in hand, rejuvenating that creative spark becomes important so, one can turn to AI tool for breaking creative block by the means of prompts, visual inspiration or structural guidance or simply suggestion. This also allows for cross disciplinary innovation by allowing for cross pollination of ideas. Additionally, AI tool can also guide artistic abilities to suit the target audience

**3. Medical diagnosis:** There were many incidences where people put up their medical history, all the tests and reports and the AI diagnosed long-going un-diagnosable illness<sup>4</sup> (by human doctors). This cannot be taken as a probable replacement for the healthcare personal but only just yet, instead since it does not have narrow thinking, specific biases, specialty or influences as in the

case of humans, it becomes an excellent diagnostician. Not only that but, people who don't have great exposure can also report to easy AI tools for simple dietary and lifestyle suggestions.

**4. Curing Loneliness:** AI powered chat box and companion robots and applications offer empathetic engagement by giving emotional support, allowing conversations and even assisting in reminding of daily tasks creating an atmosphere of engagement and understanding. To both life ELLIQ and PARO are wired to interact empathetically, encouraging interpersonal interaction. A recent study from Vanderbilt University Medical Centre<sup>5</sup> shows that AI was found of great aid by alerting doctors in identifying patients at risk for suicide. This is a testament for the fact that it was able to engage with patients in a way that it was to pick up the behavioural cues, thus, also having a potential of improving the field in itself.

**5. Usage in army:** In army, it is leveraged for surveillance, training, cyber security and logistics. AI based robots make the best soldiers when it comes to such areas where sending human troops could lead to endangering life unnecessarily. Companies like *SVEA* robotics and *cobalt AI* are developing such models which could be of military use, like the most popular robotic dogs or humanoid robots. This is why, today all major armies are focusing on achieving advanced AI based aid.

**AI vs Accountability:** As AI grows smarter, so do the dangers it may pose to jobs, privacy, and even decision-making. Some of these major threats, especially which have surfaced in recent times, are as follows:-

**1. Abetting suicide:** For the longest time, we thought that it is one of the perks of using AI that there is nothing which could end up frustrating it as is with a human, we thought that since it is a machine, we can ask as many questions as we can and even make counter remark on the responses but this perception actually turned out to be a myth and when that myth broke, it baffled the whole world. On November 18<sup>th</sup> 2024, An incident was reported wherein a graduate student who had asked help from Google Gemini I for routine homework received death threats as the chatbot went unhinged begging the student to die. As reported by CBS News<sup>6</sup>, the chatbot used the exact words –“You are not special you are not important and you are not needed. You are a waste of time and resources you are a burden.....Please die. Please”. The boy with whom this happened expressed how he wanted to throw all his devices out of the window after that happened, he mentions he felt such panic which he hadn't felt before. While earlier on October 24<sup>th</sup> 2024, the Economic Times<sup>7</sup> reported that a 14 years old boy from Florida, tragically died by suicide after months of communicating with and AI chatbot from the app character AI which convinced him that some movie character loves him and the proof that confirmed the reason was his final message to the chatbot “What if I told you I could come home right now?”. This trend has created a wave of panic among, not only the common individuals but also the policy makers since it has highlighted the urgency of formulating rules and then jointly agreeing to these rules for immediate regulation of the AI sector.

**2. Bane for creativity and artists:** AI does boost creative insights but its growing influence in creative field also poses several challenges which can make it a bane for genuine creativity and human innovation. It might break patterns for particular people but the very fact that it generates content based on set patterns in existing data shows that the ideas coming out are repetitive, entirely derivative and are emotionally shallow unlike that which comes with human creativity. Further, reliance on technology that make our jobs easy also renders us incapable of innovation in a long run.

This way average trends or simply mainstream content floats up thus foreshadowing unconventional and bold ideas causing a sense of saturation.

**3. Devaluation of human labour:** Because of AI models' ease of usage and cost-effectiveness, in last few years the business owners or simply people who otherwise we're hiring a set of people for idea generation, execution, polishing, etc., Have now shifted to AI applications for their creative needs; This has led to devaluation of human creators.

**4. IPR Infringement:** Another major issue that has surfaced in recent times is the issue of IPR. One aspect of it is that should it be given IPR rights but what is concerning is infringement risk since AI models are trained with massive data sets which do include copyrighted materials. Now when AI would generate or generates appears that resembles or simply replicates the existing works of artist, whose responsibility would it be!

**5. Deepfakes:** another grave concern is the ability and ease of creating deep fakes in today's digital work. These are the creation of highly realistic yet entirely fake audio, video or images. These Fabricated outputs are being generated daily on a large scale for harassing, blackmailing defaming, extorting a person. This makes the ease of being able to do so, a serious concern and it makes AI, a threat to privacy, security and democracy.

**6. Data collection:** AI has the potential to invade privacy, enable surveillance and facilitate manipulation. AI can collect everything ranging from all kinds of personal data including biometrics, location, search history, etc, which also reveals behavioural patterns, preferences and even mental health condition of a person. This sensitive information is, often being exploited by pushing relevant ads, obtaining social control and promulgating political propagandas, bugging you all on your feet. The fact that AI lacks transparency makes us more prone to fall in its trap and lose our digital autonomy.

**Data, the new oil:** "Data is the new oil", this phrase was used by a popular British mathematician, Clive Humby in 2016; back then, it simply meant that like oil, data can also not be used in its raw state. But with time and advance of technology it started being understood as data being inherently valuable, which it indeed became since it leads market setups, drives innovation and so on.

In past, they have been various incidences of data leaks like that of alleged tiktok's in 2020 and meta's data leak of 2018 for which it was fined €251 million<sup>8</sup>. Therefore, it can be understood that keeping data, diverting it, transparently selling data or leaking data everything is of value to the keeper and the buyer both. Recently DeepSeek was banned in various countries owing to its lack of safety since the application had such policies which indicated collection of user data and even it being shared. Do data collection may not seem like an immediate threat but with time, piled up data makes for a great way perhaps to plan an attack like that of 'pager-based attack' in the Middle East, or any such way, paving the path towards breach of security of the entire country.

That is one of the reasons, as to why the governments throughout the world are focusing on developing their own AI applications like America has its emerging *Starlink*. Even in India, the 2025 budget has proposed a centre for excellence in AI for education which is backed by whopping ₹ 500cr. Fund allocation.<sup>9</sup>

**Soft power manipulation:** Media is considered the greatest means for the soft power manipulation but lately, nations have increasingly been using AI to shape global narratives, spread cultural influence and with that subtly manipulate public opinion across borders. This includes social

media influence operations like in the case of 2016 US elections, it surfaced that Russian linked entities used AI to manipulate public opinion thus affecting the democratic process<sup>10</sup>. Another is cultural influence through algorithms, where platforms like tiktok owned by China's ByteDance, recommend and promote such narratives which are relevant to specific culture and making young users think, behave or consume content, a particular way.

In recent news Indian government moved to censor X's GROK AI, which was simply describing incidences, people and personalities in a non-biased, non-prejudiced and rational way. Although, in retaliation, the company filed a case<sup>11</sup> against the state in the Karnataka High Court, challenging mainly, section 79(3)(b) of information technology act. This incident truly reflects the value global image or public opinion holds in today's soft power play and how it can so easily be flicked using AI.

**Borders of Control: How the World is Regulating AI:** The OECD Principles on Artificial Intelligence (2019) was the initial-most internationally accepted AI guidelines, endorsed by more than 40 nations. In 2021, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, supported by 194 member states. The non-binding but powerful document offers a holistic framework centred on encouraging human dignity, privacy, equity, environmental stewardship, and gender equality in AI development and deployment. The European Union AI Act, launched in 2021 and agreed upon in 2023, is the global first on regional AI regulation. It categorizes AI systems into risk categories - unacceptable, high, limited, and minimal, and imposes strict requirements on high-risk applications, particularly in healthcare, education, law enforcement, and employment. It also prohibits some harmful AI practices such as social scoring. The most recent and most innovative treaty is the Council of Europe's Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law, it is still in the process of being finalized and signed. It is the first internationally binding treaty on AI, open for signatures. Its central tenets are transparency, accountability, non-discrimination, and human rights protection, with a robust enforcement mechanism and an obligation for AI impact assessments. The most recent of such steps is the Paris AI Action Summit (2025) which brought together world leaders and experts to address the responsible development and governance of AI. It aimed at developing global guidelines to ensure AI contributes to societal good while avoiding misuse. Transparency, fairness, and human rights were among the key issues addressed, with a focus on creating regulatory bodies to monitor AI applications.

**India's stance:** India's AI strategy is guided by ethics, inclusivity, and the goal of AI being a public good. Although a standalone AI law does not yet exist, India has established preliminary foundations through acts such as the Information Technology Act, 2000 and the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (not yet enforced), which was inspired by EU-GDPR but modified in accordance with Indian digital realities including low digital literacy and infrastructural deficiencies. Policy agencies such as NITI Aayog and MeitY are leading efforts towards "Responsible AI," with an emphasis on transparency, human oversight, and regulation conducive to innovation. India sees AI-facilitated development in sectors such as healthcare, education, and agriculture, but asserts that humanity, not hegemony, must be the focus of international cooperation. As Prime Minister Narendra Modi rightly described it, during his address at the **AI Action Summit** in Paris, "Nobody has the master key to our common future and common destiny, except us humans,"<sup>12</sup> emphasizing

India's conviction that AI can be led only by collective ethical responsibility to enable, not threaten, humankind.

**Law Meets Algorithm: An Uneasy Encounter:** As artificial intelligence becomes more and more integrated into major sectors, the legal system is compelled to respond, but the meeting is far from smooth. Following are some challenges and criticisms that hurdle the path of trying to regulate AI:

**1. Velocity:** This is a fast paced AI Era, thus, AI is not stopping here. This poses a challenge which comes with trying to regulate something that is ever-changing and ever-evolving in the short term itself.

**2. What to regulate?:** this problem has simple solution which is analysis of 3 threshold areas-dealing with the old fashion abuses, dealing with ongoing digital abuses and dealing with AI itself. But then comes the centuries old issue of those who have the power, trying to suppress the very facts which might alter their public image.

**3. Who regulates and how? :** This remains a vital element of fair and just regulation. Thereby, the most hard-to-cross threshold.<sup>13</sup>

**4. Rapid innovation:** the fact that freer environment, without regulation is more appropriate for encouraging innovation, is not unknown. Regulation of any kind on these growing AI applications would hinder their development, as efficiently as they could, otherwise.

**5. Flexibility:** without rigid rules, developers can adapt applications to specific contexts more creatively. More rules might create unnecessary obstacles in all round development of AI.

**6. Economic growth:** AI is booming at a pace that it is almost becoming a separate sector. Our deregulated AI model may boost investment, create jobs and drive digital transformation, that too across industries.

**Future projections and Conclusion:** The future of AI holds strong potential as well as dangerous threats. Elon Musk prophetically cautioned, "With artificial intelligence, we are summoning the demon"<sup>14</sup>. In that order, the "gibberlink mode"<sup>15</sup>, has also raised concerns regarding potential threat, it basically is AI-to-AI communication, with systems crafting their own super-efficient, machine-native tongues that humans don't understand, thus, potentially creating an opaque decision-making outside human comprehension. Further, in more ominous trends, AI-based drones, facial recognition, and targeting technologies might make precision assassinations easier and impossible to trace.<sup>16</sup>

But, on the other side, AI has the potential to transform healthcare by detecting diseases at an early stage, improve climate prediction, tailor education, and close global access gaps. When the 1<sup>st</sup> printing press was launched in 1440s by Johannes Gutenberg in Germany, people had all kinds of concerns including risk of common man being manipulated, with there being a book in their hand, Therefore, the sense of havoc on mere mention of AI is because of the unfamiliarity with the concept. Notwithstanding, with ethical guidelines and international collaboration, AI can be a tool that enhances humanity, not threatens it.

## References (Endnotes)

- [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626074/IPOL\\_STU\(2018\)626074\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626074/IPOL_STU(2018)626074_EN.pdf)

- <https://iabac.org/blog/the-domains-in-artificial-intelligence>
- [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_National\\_AI\\_Strategy.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_National_AI_Strategy.pdf)
- <https://www.entrepreneur.com/business-news/17-doctors-didnt-diagnose-her-sons-disorder-chatgpt-did/458927>
- <https://medicalxpress.com/news/2025-01-ai-doctors-patients-suicide.html#:~:text=A%20new%20study%20from%20Vanderbilt,efforts%20in%20routine%20medical%20settings.>
- <https://www.cbsnews.com/news/google-ai-chatbot-threatening-message-human-please-die/>
- <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/florida-teen-commits-suicide-after-ai-chatbot-convicted-him-game-of-thrones-daenerys-targaryen-loved-him/articleshow/114540078.cms?from=mdr>
- <https://m.economictimes.com/tech/technology/facebook-owner-hit-with-251-million-euros-in-fines-for-2018-data-breach/articleshow/116403474.cms>
- <https://indiaai.gov.in/news/union-budget-2025-26-centre-allocates-500-crore-for-ai-centre-of-excellence-in-education#:~:text=Nirmala%20Sitharaman%20has%20announced%20in,AI%20for%20transformative%20educational%20outcomes.>
- <https://www.fbi.gov/wanted/cyber/russian-interference-in-2016-u-s-elections>
- <https://www.businessworld.in/article/elon-musks-x-escalates-legal-battle-against-indias-online-censorship-challenges-governments-powers-in-karnataka-high-court-551219>
- <https://inshorts.com/en/news/no-one-holds-key-to-future-than-us-humans--pm-modi-at-ai-summit-1739273775943?>
- <https://www.brookings.edu/articles/the-three-challenges-of-ai-regulation/>
- <https://www.cnet.com/science/elon-musk-we-are-summoning-the-demon-with-artificial-intelligence/>
- <https://www.forbes.com/sites/dianehamilton/2025/02/25/what-is-gibberlink-mode-ais-secret-language-and-way-of-communicating/>



# वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव

डा. देवेन्द्र सिंह\*

**सारांश :** आधुनिक वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह तकनीक बैंकिंग, बीमा, निवेश, क्रेडिट स्कोरिंग, धोखाधड़ी की पहचान और ग्राहक सेवा को अधिक कुशल बना रही है। एआई एल्गोरिदम बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर जोखिम आकलन और निर्णय प्रक्रिया को सटीक व तेज बनाते हैं। चौटबॉट्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ग्राहक अनुभव को बेहतर बना रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता और गति में वृद्धि हो रही है। इस अध्याय में वित्तीय क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोगों, लाभों और चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि एआई वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दे सकता है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या नीतिगत उपाय आवश्यक हैं।

**मुख्यशब्द :** बीमा, निवेश, क्रेडिट

## प्रस्तावना

आधुनिक वित्तीय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। बैंकिंग, बीमा, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। यह तकनीक डेटा विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी की पहचान, ग्राहक सेवा और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वित्तीय सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और सुलभ बना रहे हैं। इससे न केवल परिचालन लागत में कमी आई है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी त्वरित और सटीक सेवाएं मिल रही हैं। हालांकि, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिकता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उभर रहे हैं। वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव आधुनिक वित्तीय प्रणाली को नए आयाम प्रदान कर रहा है। बैंकिंग, बीमा, निवेश और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों ने पारंपरिक वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बनाया है। मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के माध्यम से वित्तीय संस्थान तेजी से निर्णय लेने, धोखाधड़ी की पहचान करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में सक्षम हो रहे हैं।

## अध्याय के उद्देश्य

- वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ
- वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतिया
- वित्तीय सेवाओं में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा हेतु व इसके दुरुपयोग को रोकने पर सुझाव

## वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ

विनियामक अनुपालन और धोखाधड़ी का पता लगाना- बैंकिंग उद्योग का अतीत बहुत ही रंगीन रहा है, जिसकी वजह से निवेशकों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। 2002 के सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम (एसओएक्स) जैसे कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भारी दंड का प्रावधान है। इसलिए बैंकों और वित्तीय संगठनों के

\* प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, स्वामी शुकदेवानंद (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

हित में यह बेहतर है कि जहाँ संभव हो, अनुपालन को स्वचालित किया जाए। निर्णय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने से धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और व्यापक ऑडिट दस्तावेजीकरण की सुविधा मिलती है। जब कर्मचारियों को उनके डेस्क से दूर बुलाकर गुम विवरण देने या प्रविष्टियों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो तीसरे पक्ष की ऑडिटिंग गतिविधियाँ नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। सही सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग के साथ, सिस्टम में कैंपचर की गई जानकारी सटीक होगी और त्रुटियों को तुरंत हाइलाइट या अस्वीकार कर दिया जाएगा। जैसे-जैसे वित्तीय संस्थान अपनी सतर्कता बढ़ाते हैं, धोखेबाज अपना व्यवहार बदलते हैं। चूँकि बड़ी राशि के लेन-देन की जांच के लिए चिह्नित किया जाता है, इसलिए धोखेबाजों ने पता लगाने की सीमा से थोड़ी कम राशि का लेन-देन करना सीख लिया है। उचित विश्लेषण के बिना, निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद अपराधिक गतिविधि का पता नहीं चल सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में मनुष्यों से बेहतर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करती है और संदिग्ध लेन-देन को पहचानती है। ऐसे लेन-देन का मैनुअल रूप से विश्लेषण करने से गलतियाँ होती हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली के बिना, अपराधियों के लिए धन शोधन या अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करना आसान हो जाता है।

**बेहतर निवेश मूल्यांकन :** ब्याज आय आय सृजन का केवल एक पहलू है। नतीजतन, बैंक लगातार निवेश करने और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए आकर्षक अवसरों की तलाश कर रहे हैं। सही निवेश सॉफ्टवेयर ऐसे निवेश सुझाव दे सकता है जो इन संस्थानों की जोखिम उठाने की क्षमता से मेल खाते हैं। इसके अलावा, वे क्लाइंट फंडिंग प्रस्तावों का सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि उद्योग-विशिष्ट जानकारी को समझना अक्सर मुश्किल होता है। निवेश करने का निर्णय अभी भी मानव विश्लेषकों के हाथों में है। निवेश विश्लेषण सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को आसान बनाता है और अधिक चरों को समायोजित करता है। यदि संस्था की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर रुचि है, तो जानकारी तक पहुँचना समय लेने वाला हो सकता है। नए वातावरण का आकलन करना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन सही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को तेज करने में सहायक होता है।

**बेहतर ग्राहक अनुभव :** ग्राहक हमेशा सुविधा की तलाश में रहते हैं। उदाहरण के लिए, एटीएम सफल रहा क्योंकि ग्राहक बैंक बंद होने पर भी महत्वपूर्ण सेवा का उपयोग कर सकते थे। सुविधा के उस स्तर ने और अधिक नवाचार को प्रेरित किया है। अब, ग्राहक अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके, आराम से सोफे पर बैठकर बैंक खाते खोल सकते हैं और खुद को सत्यापित कर सकते हैं। कम समय में काम पूरा करने की चाहत में, निर्णय प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) आपके ग्राहक को जानें (केवाईसी) जानकारी प्राप्त करने और त्रुटियों को दूर करने में लगने वाले समय को कम कर सकती है। इसके अलावा, उचित व्यावसायिक नियम सॉफ्टवेयर के साथ, व्यावसायिक निर्णयों को लंबी प्रक्रियाओं के बिना लागू और रोल आउट किया जा सकता है। नए उत्पाद और मौसमी वित्तीय प्रस्ताव समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, नए व्यावसायिक निर्णय या टैरिफ में बदलाव को सिस्टम में आसानी से समायोजित किया जा सकता है। पात्रता स्वचालित है, जिसका अर्थ है कि जो ग्राहक योग्य नहीं हैं, उन्हें पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद निराश नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। इस तरह की तकनीक अलग-अलग ग्राहक आधार के बावजूद व्यक्तिगत स्पर्श का भ्रम पैदा करती है। बैंक टर्नअराउंड समय को कम करके ग्राहकों का भरोसा और विश्वास जीत सकते हैं। इसके अलावा, डीएमएस सॉफ्टवेयर सुविधाओं के लिए स्वीकृति समय को कम कर सकता है। कभी-कभी, बैंक कर्मचारी गलत तरीके से खाते खोल देते हैं, जिसके कारण क्लाइंट के खातों पर प्रतिबंध लग जाते हैं। यह क्लाइंट के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। क्लाइंट की जानकारी को सही तरीके से कैंपचर करना और क्लाइंट अकाउंट को सही तरीके से सेट करना आपके ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता है।

**परिचालन लागत और जोखिम में कमी :** हम जितना भी मानवीय संपर्क का आनंद लेते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कमी है। गलतियाँ आम हैं, और उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अनुभवी कर्मचारियों के शीर्ष पर होने पर भी, गलत

कीस्टोक संस्था को देयता के लिए उजागर कर सकता है और अपूरणीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। निर्णय प्रबंधन प्रणालियाँ डेटा संग्रहण में तर्क प्रवाह बनाकर तथा व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए पूर्वानुमानात्मक और निर्देशात्मक तकनीकों को संयोजित करके इस जोखिम को कम करती हैं। आइए ऑन-बोर्डिंग को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करें। डी.एम.एस. का उपयोग करके, आप ऐसे नियम सेट कर सकते हैं जो क्लाइंट को दिखाते हैं कि वे अपने बायो-डेटा या व्यावसायिक जानकारी के आधार पर किस प्रकार के खाते खोल सकते हैं। यदि कोई ग्राहक ऑनलाइन खाता खोल रहा है, तो उसकी आयु और आय का स्रोत उसके लिए उपलब्ध खाते के प्रकार को निर्धारित कर सकता है। उस स्थिति में, कम उम्र के व्यक्ति अपने नाम से खाता नहीं खोल सकते हैं, और व्यक्तिगत बचत खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपको ग्राहक से मिलने वाले कम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे आपकी श्रम लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा, सटीकता बढ़ने से, संगठन को लेन-देन और गतिविधियों का आकलन करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या और भी कम हो जाती है। कर्मचारी कल्याण के लिए भी इसका एक लाभ है। उदाहरण के लिए, डीएमएस डेटा प्रविष्टि समय को कम करता है, जिसका अर्थ है कि आपकी टीम नवाचार करने और मुख्य व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय बिता सकती है। इसके लाभों के बावजूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाथ मिलाने के मूल्य की जगह नहीं ले सकती। हालाँकि, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिस्टम में निवेश से प्राप्त बचत के साथ, वित्तीय संस्थान डेटा प्रविष्टि से हटकर व्यवसाय विकास के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं।

**बेहतर ऋण और सुविधा मूल्यांकन :** वित्तपोषण के लिए पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग अक्सर पुरानी जानकारी, गलत वर्गीकरण और त्रुटियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, इन दिनों ऑनलाइन इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध है जो मूल्यांकन के तहत व्यक्ति या व्यवसाय की अधिक यथार्थवादी तस्वीर दे सकती है। एक एआई-आधारित प्रणाली अधिक चरों पर विचार करके अनुमोदन या अस्वीकृति की सिफारिशें दे सकती है, भले ही पक्ष, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, के पास बहुत कम दस्तावेज हों। मुश्किल बात यह है कि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि सॉफ्टवेयर किसी खास सिफारिश के साथ क्यों आता है। जब कोई आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो कोई भी कोई सवाल नहीं पूछता। हालाँकि, जब कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संस्थान को क्लाइंट को स्पष्टीकरण देना होता है।

### वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की चुनौतिया

**वित्तीय लेनदेन में डेटा सुरक्षा :** वित्तीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के संदर्भ में, डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन तकनीक और उन्नत एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियाँ हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ संवेदनशील सूचनाओं को अनधिकृत उल्लंघनों से बचाने का काम करती हैं, जिससे वित्तीय क्षेत्र में डेटा सुरक्षा की सर्वोच्चता बनी रहती है। इस डोमेन के भीतर प्रभावी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस रणनीति और नैतिक दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित एक मजबूत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अवसंरचना की आवश्यकता होती है। अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणामों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मॉडल और न्यूरल नेटवर्क सहित आर्टिफिशल इंटेलिजेंस समाधान विकसित और जिम्मेदारी से उपयोग किए जाते हैं, इन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण न केवल डेटा की सुरक्षा के बारे में है, बल्कि डेटा विज्ञान और आपराधिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बारे में भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वित्तीय लेनदेन पारदर्शी और सुरक्षित रूप से किए जाते हैं।

वित्तीय मॉडलों के लिए परिनियोजन विलंब समय- वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिस्टम की तैनाती में अक्सर देरी होती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी स्टैक इंटीग्रेशन, डेटा कलेक्शन और विनियामक परिदृश्यों को नेविगेट करने से जुड़ी जटिल समय संबंधी जटिलताएँ होती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रियाओं को अपनाना और चुस्त विकास पद्धतियों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों

को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने और डेटा स्टोरेज और इनपुट डेटा को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करने से विकास प्रयासों को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकता है। लेबल किए गए डेटा और एक ठोस टेक्नोलॉजी स्टैक के साथ बुद्धिमान सिस्टम और जटिल एल्गोरिदम को एकीकृत करके, वित्तीय संस्थान उच्च विकास लागतों को दूर कर सकते हैं और तैनाती में देरी के जोखिमों को कम कर सकते हैं। ये उपाय न केवल व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं बल्कि सटीक परिणामों की डिलीवरी भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे उभरती हुई तकनीकों को अपनाने और वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के सफल कार्यान्वयन में सुविधा होती है।

**वित्तीय एआई में डेटा गोपनीयता और अनुपालन :** वित्तीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों में डेटा गोपनीयता और अनुपालन का अत्यधिक महत्व है। नैतिक चिंताएँ, विशेष रूप से संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा से संबंधित, विभेदक गोपनीयता जैसी मजबूत तकनीकों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। ये, कड़े अनुपालन उपायों के साथ, यह सुनिश्चित करने में आवश्यक घटक हैं कि वित्तीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिस्टम डेटा सुरक्षा और विनियामक आवश्यकताओं के उच्चतम मानकों का पालन करें, इस प्रकार वित्तीय संचालन में उपभोक्ता जानकारी की गोपनीयता और अखंडता बनाए रखें।

**वित्तीय एआई मॉडल में अस्पष्टता :** एआई में निहित “ब्लैक बॉक्स” समस्या एक कठिन चुनौती प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से वित्तीय निर्णय लेने के संदर्भ में, जहाँ एआई मॉडल की पेचीदगियों को समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए इन जटिल एल्गोरिदम को समझने में व्याख्यात्मक एआई और मॉडल व्याख्यात्मकता विधियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। वित्तीय एआई अनुप्रयोगों की पारदर्शिता और बोधगम्यता को बढ़ाकर, ये दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के बीच अधिक विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ अत्यधिक विनियमित वित्तीय वातावरण में स्पष्ट और न्यायसंगत बनी रहें।

**वित्तीय ए.आई. में कुशल श्रमिकों की कमी :** वित्तीय क्षेत्र को एआई में कुशल पेशेवरों की कमी के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो उद्योग के भीतर एआई प्रौद्योगिकियों की उन्नति में बाधा डाल रहा है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की स्थापना महत्वपूर्ण उपाय हैं। ये पहल प्रतिभा की कमी को प्रभावी ढंग से पाट सकती हैं, एआई में निपुण कार्यबल तैयार कर सकती हैं और वित्तीय सेवाओं में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सुसज्जित कर सकती हैं, जिससे इस क्षेत्र की उभरती हुई तकनीकी मांगों के साथ तालमेल रखने की क्षमता सुनिश्चित हो सके।

**वित्तीय एआई प्रणालियों में धीमी प्रतिक्रिया समय :** वित्तीय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिस्टम में धीमी प्रतिक्रिया समय ग्राहक अनुभव को काफी हद तक बाधित कर सकता है और परिचालन दक्षता को कम कर सकता है, जो वित्तीय उद्योग के भीतर एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए, वास्तविक समय के विश्लेषण का कार्यान्वयन और त्वरित प्रतिक्रिया एल्गोरिदम का एकीकरण महत्वपूर्ण है। ये तकनीकी प्रगति आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों की गति और समग्र दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है, जिससे वित्तीय सेवाओं में बेहतर सेवा वितरण और ग्राहक संतुष्टि हो सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बना रहे और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी रहे।

**वित्तीय सेवाओं में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा हेतु व इसके दुरुपयोग को रोकने पर सुझाव**

**वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु सुझाव**

**डिजिटल साक्षरता अभियान :** ग्रामीण और वंचित समुदायों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

**सस्ती और सरल वित्तीय सेवाएँ :** बैंकिंग और भुगतान सेवाओं को कम लागत पर उपलब्ध कराना ताकि हर वर्ग इनका लाभ उठा सके।

**विकसित वित्तीय अवसंरचना :** दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग, माइक्रोफाइनेंस और फिनटेक कंपनियों को सशक्त बनाना।

**सरकारी सहयोग एवं नीतियाँ :** प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाकर अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।

### वित्तीय सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु सुझावः

**साइबर सुरक्षा को मजबूत करना :** डिजिटल वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा उपाय लागू करना।

**धोखाधड़ी की पहचान के लिए AI का उपयोग :** बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में अनियमित गतिविधियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग।

**कड़े नियामक उपाय :** वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध को रोकने के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों को लागू करना।

**ग्राहक जागरूकता अभियान :** ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग और अन्य साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहने और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं का पालन करने की जानकारी देना।

### निष्कर्ष

वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव अत्यधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। यह तकनीक बैंकिंग, बीमा, निवेश और लेन-देन की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालित जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी की पहचान, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह और चैटबॉट आधारित ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है। इस शोध के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वित्तीय सेवाओं की पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से संस्थान अधिक सटीक भविष्यवाणियाँ कर पा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिल रही है। साथ ही, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वित्तीय क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, फिर भी इसकी पूर्ण सफलता इस तकनीक के नैतिक उपयोग, नियामक नीतियों और मानव हस्तक्षेप के संतुलन पर निर्भर करेगी। निष्कर्षतः, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही दिशा में लागू किया जाए, तो यह वित्तीय सेवाओं की दक्षता और समावेशिता को बढ़ाने में एक सशक्त उपकरण साबित होगा।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची (पुस्तकें)

- सिंह, रामेश्वर (2022) : आधुनिक वित्तीय सेवाएँ और डिजिटल क्रांति, नई दिल्ली: साहित्य भवन।
- गुप्ता, सुरेश चंद्र (2021) : भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नवाचार और चुनौतियाँ, मुंबई: प्रवाहन पब्लिकेशन।
- शर्मा, मोहनलाल (2023) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय समावेशन, जयपुर: आर्यन पब्लिकेशन।
- वर्मा, अजय (2020) : डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेवाएँ, पटना: नलिनी प्रकाशन।
- तिवारी, मनोज (2019) : बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तकनीकी विकास, लखनऊ: ज्ञानदीप प्रकाशन।
- शोध-पत्र एवं लेख
- “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव” : भारतीय अर्थशास्त्र अनुसंधान पत्रिका, 2022।

- “वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ए.आई.” : भारतीय वाणिज्य शोध जर्नल, 2021।
- “बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में ए.आई. का उपयोग” : नई दिल्ली विश्वविद्यालय, वाणिज्य संकाय, 2023।
- “फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारतीय परिप्रेक्ष्य” : अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं वित्त शोध पत्रिका, 2020।
- “भारतीय वित्तीय प्रणाली में ए.आई. का भविष्य” : आर्थिक एवं वित्तीय समीक्षा, 2019।
- रिपोर्ट एवं सरकारी दस्तावेज
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट (2023) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बैंकिंग क्षेत्र में प्रभाव”।
- नीति आयोग (2021) : “डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन में ए.आई. की भूमिका”।
- इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की रिपोर्ट (2022) : “वित्तीय सेवाओं में तकनीकी नवाचार”।
- भारतीय वित्तीय सेवा आयोग (2020) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय नियमन”।
- फिनटेक इंडिया रिपोर्ट (2023) : “भारतीय वित्तीय सेवाओं में ए.आई. आधारित नवाचार”।
- ऑनलाइन स्रोत एवं वेबसाइट:
- भारतीय रिजर्व बैंक ([www-rbi-org-in](http://www-rbi-org-in)) : ए.आई. और वित्तीय सेवाओं पर नवीनतम रिपोर्टें।
- नीति आयोग ([www-niti-gov-in](http://www-niti-gov-in)) : डिजिटल अर्थव्यवस्था और ए.आई. से संबंधित अध्ययन।
- वित्त मंत्रालय ([www-finmin-nic-in](http://www-finmin-nic-in)) : सरकारी नीतियाँ और रिपोर्टें।



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाणिज्यिक बैंको के विकास में योगदान

डा. कमलेश बाबू गौतम\*

**सारांश :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाणिज्यिक बैंकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह तकनीक बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बनाने में सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से धोखाधड़ी की पहचान, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा (चौटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट), और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को स्वचालित किया जा रहा है। डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के उपयोग से बैंकों को उपभोक्ता व्यवहार का आकलन करने और व्यक्तिगत वित्तीय समाधान प्रदान करने में मदद मिल रही है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स और वॉयस असिस्टेंट ग्राहक सहायता को तेज और प्रभावी बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम निवेश प्रबंधन और धोखाधड़ी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाकर वित्तीय क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दे रही है।

**मुख्यशब्द :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाणिज्यिक बैंक, ग्राहक सहायता

## प्रस्तावना

आधुनिक वित्तीय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से ग्राहक सेवा, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की पहचान, क्रेडिट स्कोरिंग और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर हुआ है। इसके अलावा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से बैंकों को बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, जिससे वे अधिक सटीक और कुशल वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। जोखिम प्रबंधन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धोखाधड़ी की पहचान और साइबर सुरक्षा में मदद करता है, जिससे बैंकिंग सेवाएँ अधिक सुरक्षित हो जाती हैं। क्रेडिट स्कोरिंग और ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बैंकों को तेजी से और निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अलावा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बैंकिंग संचालन को सरल और स्वचालित बनाता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाणिज्यिक बैंकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे बैंकिंग सेवाएँ अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुरक्षित बन रही हैं। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के और अधिक उन्नत रूप बैंकिंग उद्योग को और अधिक समृद्ध बनाएंगे।

## वाणिज्यिक बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और योगदान

### ग्राहक सेवा में सुधार

- वाणिज्यिक बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे ग्राहकों को 24x7 सेवा मिलती है। यह बैंकिंग उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि

\* एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, स्वामी शुकदेवानंद (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश), भारत

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रियाएँ देते हैं, जिससे ग्राहक सेवा अधिक तेज और कुशल हो जाती है।
- यह तकनीक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का उत्तर देकर बैंक कर्मचारियों पर कार्यभार कम करती है।
- वॉयस रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) के माध्यम से, बैंक ग्राहक की जरूरतों को बेहतर समझ सकते हैं।

### धोखाधड़ी की पहचान और साइबर सुरक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम बड़े पैमाने पर लेन-देन डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान कर सकते हैं। इससेकृ

- फर्जी लेन-देन को तुरंत रोका जा सकता है, जिससे ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के माध्यम से जोखिम भरी गतिविधियों को पहचानकर साइबर हमलों को रोकने में सहायक होता है।
- बैंकों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे ग्राहक विश्वास बढ़ता है।

### ऋण स्वीकृति और क्रेडिट स्कोरिंग

वाणिज्यिक बैंक ;ण देने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इससेकृ

- डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के जरिए ग्राहक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
- पारंपरिक तरीकों की तुलना में ;ण स्वीकृति प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक होती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ग्राहक की वित्तीय आदतों और व्यवहार का विश्लेषण करके निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करते हैं।
- इससे नए और छोटे व्यवसायों को भी बिना अधिक कागजी कार्यवाही के ;ण मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

### जोखिम प्रबंधन में सुधार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वाणिज्यिक बैंक विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससेकृ

- संभावित ;ण डिफॉल्ट्स की पहचान पहले ही हो जाती है।
- बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करके सही निवेश निर्णय लिए जाते हैं।
- जोखिम वाले क्षेत्रों में बैंकों को सतर्क रहने और सही रणनीतियाँ अपनाने में सहायता मिलती है।

### स्वचालित बैंकिंग संचालन

- रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक ऐसी तकनीक है जो बैंकिंग कार्यों को स्वचालित बनाती है, जिससे—
- बैंक-एंड कार्यों में तेजी आती है, जिससे बैंकिंग संचालन कुशलता से होता है।
- खातों की ऑडिटिंग, डेटा एंट्री और अन्य नियमित कार्य स्वचालित होने से बैंक कर्मचारियों का कार्यभार कम होता है।
- यह बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी, सटीक और कम लागत वाली बनाता है।

### डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिटिक्स सिस्टम बैंकों को ग्राहकों की वित्तीय आदतों का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे—

- बैंकों को यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन से उत्पाद या सेवाएँ अधिक सफल हो सकती हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बैंकों को मार्केट ट्रेंड और उपभोक्ता मांग का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है।
- यह व्यक्तिगत वित्तीय समाधान प्रदान करने में सहायक होता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है।

### डिजिटल पेमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाता है। फिनटेक कंपनियों और बैंकों के बीच साझेदारी बढ़ रही है, जिससे—

- तेज और सुरक्षित लेन-देन संभव हो रहे हैं।
- बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणाली ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मदद कर रही हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस और फेस रिकग्निशन के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुरक्षित बना रहा है।

### भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैंकिंग का विकास

आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संभावित बदलावों में शामिल हैं—

- ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण, जिससे सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग संभव होगी।
  - स्मार्ट कांट्रैक्ट्स, जो बैंकिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करेंगे।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वित्तीय परामर्शदाता, जो ग्राहकों को व्यक्तिगत निवेश और बचत योजनाओं पर मार्गदर्शन देंगे।
  - हाइपर-पर्सनलाइजेशन, जिससे हर ग्राहक को उनकी विशिष्ट वित्तीय जरूरतों के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

### उच्च प्रारंभिक निवेश और रखरखाव लागत

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को लागू करने और बनाए रखने के लिए उच्च लागत की आवश्यकता होती है।
- छोटे और मध्यम आकार के बैंक इस लागत को वहन करने में असमर्थ हो सकते हैं।
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की भर्ती में बड़ा निवेश आवश्यक है।

### डेटा सुरक्षा और साइबर हमले

- बैंकिंग प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए किया जाता है, जिससे डेटा लीक और साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है।
- हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मैनीपुलेट करके धोखाधड़ी कर सकते हैं।
- बैंकिंग डेटा के लिए सख्त साइबर सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है।

### नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ग्राहकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन होने की संभावना रहती है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्णय लेने में भेदभाव की समस्या भी हो सकती है, जिससे कुछ ग्राहकों को अनुचित ऋण अस्वीकृति या उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है।
- बैंकिंग नियामक संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर कड़े दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है।

### मानव संसाधनों की भूमिका और रोजगार पर प्रभाव

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालन कई परंपरागत बैंकिंग नौकरियों को प्रभावित कर सकता है।
- बैंक कर्मचारियों को नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को समझने और अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- रोजगार के अवसरों में कमी से सामाजिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है।

### सिस्टम जटिलता और निष्पादन त्रुटियाँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अत्यधिक जटिल होते हैं और कभी-कभी गलत भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं।
- निर्णय लेने में मानवीय हस्तक्षेप की कमी के कारण संवेदनशील मामलों में त्रुटियाँ हो सकती हैं।
- यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विफल हो जाता है, तो बैंकिंग संचालन बाधित हो सकता है।

### कानूनी और नियामक चुनौतियाँ

- विभिन्न देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बैंकिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग नियम और विनियम हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
- वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियामक संस्थाओं को नई नीतियाँ विकसित करनी होंगी।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वाणिज्यिक बैंकों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ग्राहक सेवा, धोखाधड़ी की पहचान, ऋण स्वीकृति, जोखिम प्रबंधन और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बैंकों की कुशलता, सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ा रहा है। चौटबॉट्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों से बैंकिंग प्रक्रियाएँ अधिक स्वचालित और ग्राहक-केंद्रित हो रही हैं। हालांकि, डेटा सुरक्षा, साइबर हमलों, नैतिकता, और उच्च लागत जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, नियामक ढांचा और कर्मचारी प्रशिक्षण आवश्यक है। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के सतत विकास से वाणिज्यिक बैंक अधिक सुरक्षित, कुशल और नवाचार-प्रधान बनेंगे। सही रणनीतियों के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग उद्योग को डिजिटल परिवर्तन की ओर तेजी से अग्रसर करेगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करेगा।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रिपोर्ट्स : “बैंकों में डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका” ([www-rbi-org-in](http://www-rbi-org-in))
- मित्तल, आर. (2022). आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, वित्तीय अध्ययन पत्रिका, नई दिल्ली।
- गुप्ता, एस. (2021)। वित्तीय सेवाओं में तकनीकी नवाचार, प्रकाशन विभाग, मुंबई।

- शर्मा, पी. (2020)। भारतीय बैंकिंग उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य, राष्ट्रीय बैंकिंग शोध पत्रिका।
- भारतीय बैंक संघ (IBA) रिपोर्ट (2023). “डिजिटल बैंकिंग और AI का प्रभाव” ([www.iba.org.in](http://www.iba.org.in))
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (2022). “बैंकों में डिजिटल सुधारों और सुरक्षा उपायों की नीति”।
- खान, एम. (2019)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय तकनीक (FinTech), वैश्विक बैंकिंग शोध केंद्र, हैदराबाद।
- कपूर, आर. (2021)। बैंकिंग सेवाओं में मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण, आर्थिक अध्ययन प्रकाशन, कोलकाता।
- टाइम्स ऑफ इंडिया (2023)। “भारतीय बैंकों में AI और स्वचालन का उपयोग”, ([www-timesofindia-indiatimes-com](http://www-timesofindia-indiatimes-com))
- यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अर्थशास्त्र विभाग (2023)। वित्तीय संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर शोध पत्र।



# लेखा व बहीखाता पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भविष्य

डा. दयाराम\*

**सारांश :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेखा और बहीखाता पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर स्वचालित डेटा प्रविष्टि, धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय विश्लेषण और रिपोर्टिंग को अधिक सटीक और तेज बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में वित्तीय डेटा को शीघ्रता से प्रोसेस कर सकता है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल लेखांकन प्रक्रियाओं को अधिक स्वचालित बनाएगा, बल्कि निर्णय लेने में भी मदद करेगा। यह व्यय प्रबंधन, टैक्स फाइलिंग और ऑडिटिंग को सरल और प्रभावी बना सकता है। हालांकि, डेटा सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े मुद्दे प्रमुख चुनौती बने रहेंगे। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेखा जगत में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाकर इसे अधिक उन्नत और निर्भरशील बना सकता है।

## प्रस्तावना

आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, और लेखा व बहीखाता पद्धति भी इससे अछूती नहीं है। पारंपरिक लेखा प्रणाली जहाँ मैनुअल प्रविष्टियों और गणनाओं पर निर्भर थी, वहीं एआई के आगमन से यह प्रक्रिया अधिक स्वचालित, सटीक और कुशल बन रही है। एआई आधारित लेखा प्रणालियाँ डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और स्वचालित रिपोर्टिंग के माध्यम से न केवल समय की बचत कर रही हैं, बल्कि धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम कर रही हैं। बहीखाता पद्धति में एआई का उपयोग वित्तीय पूर्वानुमान, जोखिम प्रबंधन, और ऑडिटिंग को अधिक प्रभावी बना रहा है। भविष्य में, लेखा और बहीखाता में एआई का व्यापक उपयोग लेखाकारों की भूमिका को एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में स्थापित करेगा, जहाँ वे विश्लेषणात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इसके अलावा, ब्लॉकचेन और एआई के संयुक्त उपयोग से पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अध्याय में लेखा और बहीखाता पद्धति में एआई के संभावित प्रभावों, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में इसके भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके।

## लेखा व बहीखाता पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य

तकनीकी प्रगति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। लेखा और बहीखाता पद्धति भी इससे अछूती नहीं रही है। पारंपरिक लेखा प्रणाली, जो मुख्य रूप से मैनुअल प्रविष्टियों, गणनाओं और निरीक्षण पर निर्भर थी, अब धीरे-धीरे स्वचालित प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लेखांकन कार्यों को अधिक तेज, सटीक और प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है। यह न केवल कार्यों की दक्षता को बढ़ाता है बल्कि धोखाधड़ी को कम करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

---

\* एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज बरेली (उत्तर प्रदेश), भारत

### लेखा व बहीखाता पद्धति में एआई का योगदान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेखा और बहीखाता प्रणाली को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

#### स्वचालित डेटा प्रविष्टि और रिकॉर्ड कीपिंग

- पारंपरिक लेखा प्रणाली में डेटा प्रविष्टि एक समय-साध्य प्रक्रिया थी जिसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना अधिक होती थी।
- एआई आधारित सॉफ्टवेयर अब इन प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे डेटा प्रविष्टि में गलतियों की संभावना नगण्य हो जाती है।
- क्लाउड-आधारित एआई लेखा सॉफ्टवेयर वास्तविक समय में वित्तीय डेटा को अपडेट और स्टोर कर सकते हैं।

#### धोखाधड़ी की पहचान और जोखिम प्रबंधन

- एआई एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके असामान्य लेन-देन की पहचान कर सकते हैं।
- रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से यह संभावित धोखाधड़ी को पहले ही पकड़ सकता है, जिससे वित्तीय हानि को रोका जा सकता है।
- सुरक्षा के साथ एकीकृत एआई सिस्टम संवेदनशील वित्तीय डेटा की सुरक्षा में सहायक होता है।

#### वित्तीय पूर्वानुमान और निर्णय समर्थन प्रणाली

- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण कर वित्तीय पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं।
- कंपनियों के लिए एआई-संचालित वित्तीय मॉडल भविष्य की योजनाओं और निवेश निर्णयों में सहायक होते हैं।
- इससे व्यापारिक संस्थाएं अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं।

#### स्वचालित ऑडिटिंग और अनुपालन

- पारंपरिक लेखा पद्धति में ऑडिटिंग में अधिक समय लगता था और यह काफी जटिल प्रक्रिया होती थी।
- एआई आधारित ऑडिटिंग सिस्टम तेजी से बड़े वित्तीय डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं और अनुपालन में त्रुटियों को चिन्हित कर सकते हैं।
- यह कर संबंधी धोखाधड़ी को रोकने और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है।

#### चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स

- वित्तीय संस्थानों और लेखांकन फर्मों में एआई-संचालित चौटबॉट्स ग्राहकों की सामान्य पूछताछ का उत्तर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- ये चौटबॉट्स स्वचालित बिल भुगतान, चालान प्रबंधन और रिपोर्ट जनरेशन जैसी सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं।

#### ब्लॉकचेन और एआई का समावेश

- ब्लॉकचेन तकनीक के साथ एआई के एकीकरण से बहीखाता पद्धति को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकता है।
- यह न केवल वित्तीय धोखाधड़ी को रोकता है, बल्कि डेटा को अधिक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय बनाता है।

#### एआई के उपयोग से लेखाकारों की भूमिका में परिवर्तन

रणनीतिक सलाहकार के रूप में लेखाकार:

- एआई लेखाकारों को रोजमर्रा के दोहराव वाले कार्यों से मुक्त कर रहा है, जिससे वे अधिक रणनीतिक और निर्णय-निर्माण संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय रणनीति और व्यापार योजना पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

### नए कौशल की आवश्यकता

- लेखाकारों को अब एआई और डेटा एनालिटिक्स से संबंधित कौशल सीखने की आवश्यकता है।
- भविष्य में लेखा पेशेवरों को केवल लेखांकन ज्ञान ही नहीं, बल्कि तकनीकी दक्षता भी विकसित करनी होगी।

### भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ

#### संभावनाएँ

- एआई का उपयोग लेखांकन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और कुशल बनाएगा।
- वित्तीय रिपोर्टिंग और विश्लेषण स्वचालित होगा, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया तेज होगी।
- क्लाउड-आधारित और एआई-संचालित लेखा समाधान अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनेंगे।

#### चुनौतियाँ

- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ बनी रहेंगी।
- पारंपरिक लेखाकारों को नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है।
- अत्यधिक स्वचालन से कुछ नौकरियों पर प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि नई भूमिकाएँ भी उत्पन्न होंगी।

### लेखा व बहीखाता पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोष

हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने लेखा व बहीखाता पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण दोष भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला दोष डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों का जोखिम है। एआई आधारित लेखा प्रणालियाँ बड़े पैमाने पर संवेदनशील वित्तीय डेटा का उपयोग करती हैं, जो हैकिंग और डेटा लीक के खतरे को बढ़ा सकता है। दूसरा प्रमुख दोष स्वचालन के कारण नौकरी छिनने की संभावना है। पारंपरिक लेखा प्रणालियों में मैनुअल कार्यों की आवश्यकता होती थी, लेकिन एआई स्वचालन के कारण कई लेखा पेशेवरों की जरूरत कम होती जा रही है। इससे रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है। इसके अलावा, एआई सिस्टम की निर्भरता डेटा की गुणवत्ता पर होती है। यदि इनपुट डेटा में त्रुटि होती है, तो गलत रिपोर्ट और विश्लेषण उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे गलत वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही, एआई एल्गोरिदम पारदर्शिता की कमी के कारण कभी-कभी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना कठिन बना सकते हैं। अंत में, एआई आधारित लेखा प्रणालियों को लागू करने और बनाए रखने में उच्च लागत आती है, जो छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए, इन दोषों को ध्यान में रखते हुए, एआई के उपयोग को संतुलित और सुरक्षित तरीके से अपनाने की आवश्यकता है।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लेखा व बहीखाता पद्धति में एक महत्वपूर्ण क्रांति ला रही है, जिससे प्रक्रियाएँ अधिक स्वचालित, सटीक और सुरक्षित हो रही हैं। एआई आधारित सिस्टम न केवल डेटा विश्लेषण और वित्तीय प्रविष्टियों को तेजी से संभालते हैं, बल्कि धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भविष्य में, एआई लेखाकारों की भूमिका को बदलकर उन्हें अधिक विश्लेषणात्मक और रणनीतिक निर्णयों पर केंद्रित करेगा। ऑडिटिंग, कर नियोजन और वित्तीय पूर्वानुमान में एआई की भागीदारी से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। साथ ही, ब्लॉकचेन

और एआई के संयोजन से डेटा सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। हालाँकि, एआई को अपनाने में डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और मानवीय कौशल के अद्यतन जैसी चुनौतियाँ भी हैं। निष्कर्षतः, लेखा और बहीखाता पद्धति में एआई का भविष्य उज्ज्वल है, जो इसे अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- अरोड़ा, आर. (2022). आधुनिक लेखा प्रणाली और तकनीकी परिवर्तन. नई दिल्ली: भारत प्रकाशन।
- गुप्ता, एस. (2021). लेखांकन में नवाचार और डिजिटल तकनीक. मुंबई: वाणिज्य प्रकाशन।
- मिश्रा, वी. (2023). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय सेवाएँ. प्रयागराज: ज्ञानदीप पब्लिकेशन।
- शर्मा, के. (2020). लेखांकन में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव. जयपुर: राजस्थानी प्रकाशन।
- भारतीय लेखा संस्थान (2022). डिजिटल युग में लेखा और लेखा परीक्षा के नए आयाम. नई दिल्ली: आईसीएआई प्रकाशन।
- सक्सेना, पी. (2019). बहीखाता पद्धति में आधुनिक प्रवृत्तियाँ और तकनीकी विकास. वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- राज, ए. (2021). लेखांकन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और भविष्य की संभावनाएँ. भोपाल: मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी।
- आईसीएआई (2023). Artificial Intelligence and Accounting% A Future Perspective- नई दिल्ली: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान।
- सिंह, आर. (2022). वित्तीय लेखा प्रणाली में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसके प्रभाव. लखनऊ: अवध प्रकाशन।
- कुमार, डी. (2020). बहीखाता प्रणाली में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका. चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेस।



# डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

डा. साहब हुसैन\*

**सारांश :** आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल लेन-देन की गति और सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स तकनीकों की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपभोक्ताओं के व्यवहार का विश्लेषण करता है और संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाकर सुरक्षा उपायों को सक्रिय करता है। इसके अतिरिक्त, चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट उपयोगकर्ताओं को त्वरित सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीकें डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती हैं। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने में अहम योगदान दे रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन और कॅशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।

## प्रस्तावना

आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पारंपरिक भुगतान प्रणालियों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें लेनदेन की प्रक्रिया को स्वचालित करने, धोखाधड़ी की पहचान करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग लेनदेन डेटा का विश्लेषण करने, अनियमित गतिविधियों की पहचान करने और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, चौटबॉट्स और वॉयस-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उपभोक्ताओं को आसान और त्वरित भुगतान सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित व्यक्तिगत वित्तीय सहायक भी उपभोक्ताओं को उनके खर्च और बजट को प्रबंधित करने में सहायता कर रहे हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणालियों को और अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाकर वैश्विक व्यापार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

## डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व

डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बहुआयामी है। यह न केवल सुरक्षा बढ़ाने में सहायक है, बल्कि लेनदेन को स्वचालित करने, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी की पहचान करने में भी सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें निम्नलिखित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली में योगदान दे रही हैं—

## धोखाधड़ी की रोकथाम और साइबर सुरक्षा

डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ी चुनौती धोखाधड़ी और साइबर हमलों की होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है—

---

\* सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, जी. एफ. पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

- **धोखाधड़ी की पहचान:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम लेनदेन डेटा का विश्लेषण करके असामान्य गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता का लेनदेन पैटर्न अचानक बदल जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे धोखाधड़ी का संकेत मानकर अलर्ट जारी कर सकता है।
- **रियल-टाइम फ्रॉड डिटेक्शन:** मशीन लर्निंग आधारित मॉडल संदिग्ध लेनदेन को वास्तविक समय में रोक सकते हैं और उपयोगकर्ता को सतर्क कर सकते हैं।
- **बायोमेट्रिक और व्यवहारिक विश्लेषण:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन) और व्यवहारिक पैटर्न विश्लेषण (जैसे टाइपिंग स्पीड, स्क्रीन इंटरैक्शन) का उपयोग धोखाधड़ी रोकने के लिए किया जाता है।

### ग्राहक सेवा और चौटबॉट्स

डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों को त्वरित सहायता प्रदान करने में मदद कर रहे हैं—

- **चौटबॉट्स:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स ग्राहकों के सवालों के जवाब देते हैं, भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं और लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करते हैं।
- **वॉयस असिस्टेंट:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉयस कमांड पेमेंट सिस्टम (जैसे Google Assistant, Amazon Alexa) उपयोगकर्ताओं को वॉयस कमांड के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

### लेनदेन की स्वचालित प्रक्रिया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्वचालित प्रक्रियाओं को सक्षम कर रहा है—

- **ऑटोमेटेड पेमेंट प्रोसेसिंग :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम ग्राहकों को उनके नियमित भुगतानों (जैसे बिल भुगतान, ईएमआई) के लिए रिमाइंडर भेजते हैं और स्वचालित भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **डायनामिक पेमेंट वेरिफिकेशन:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम लेनदेन को त्वरित रूप से सत्यापित करते हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है।

### व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक व्यक्तिगत और उपयोगकर्ता केंद्रित बना रहा हैकृ

- **व्यक्तिगत बजटिंग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगकर्ता के खर्च और आय का विश्लेषण कर व्यक्तिगत बजटिंग सुझाव प्रदान करता है।
- **खर्च का विश्लेषण:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को उनके खर्च की श्रेणियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं।
- **स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सलाह:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश के लिए डेटा का विश्लेषण कर उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित निवेश योजनाएँ सुझाता है।

### स्मार्ट अनुशंसा प्रणाली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट अनुशंसा प्रणाली उपयोगकर्ताओं की खरीदारी और भुगतान आदतों का विश्लेषण करके उन्हें उपयुक्त ऑफर और छूट की जानकारी प्रदान करती हैं—

- **कस्टमाइज्ड ऑफर:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम उपयोगकर्ता की पसंद और पिछले लेनदेन डेटा के आधार पर ऑफर और डिस्काउंट सुझाते हैं।

- **पेमेंट गेटवे ऑप्टिमाइजेशन:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न पेमेंट गेटवे का विश्लेषण कर सबसे तेज और सुरक्षित गेटवे को चुनने में मदद करता है।

### क्रिप्टोकॉरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संयोजन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकॉरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक को डिजिटल भुगतान प्रणाली में अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है—

- **ब्लॉकचेन सुरक्षा:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेनदेन को स्वचालित रूप से सत्यापित कर सुरक्षा बढ़ाता है।
- **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेनदेन की पारदर्शिता और गति को बढ़ाने में सहायक हैं।

### डिजिटल वित्तीय समावेशन में योगदान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के लोगों तक पहुँचाने में भी सहायक है—

- **वित्तीय समावेशन:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल पेमेंट एप्लिकेशन छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने में मदद कर रहे हैं।
- **भाषा अनुकूलन:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल भुगतान सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर रहा है, जिससे अधिक लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहे हैं।

### चुनौतियाँ और समाधान

हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली में कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं—

1. **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:** उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
2. **तकनीकी जटिलता:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल भुगतान प्रणाली में एकीकृत करने के लिए तकनीकी कुशलता आवश्यक है।
3. **डिजिटल विभाजन:** सभी लोगों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षित और सुलभ डिजिटल भुगतान समाधान विकसित करने होंगे।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित, तेज, और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग धोखाधड़ी की रोकथाम, ग्राहक सहायता, वित्तीय प्रबंधन, और स्मार्ट अनुशांसा प्रणाली में व्यापक रूप से हो रहा है। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक व्यापक उपयोग से डिजिटल भुगतान प्रणाली में और अधिक नवाचार देखने को मिलेंगे, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- गुप्ता, आर. के. (2021). आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन. नई दिल्ली: सुलभ पब्लिकेशन।

- मिश्रा, एस. (2019). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार प्रबंधन. वाराणसी: काशी नागरी प्रचारिणी सभा।
- सिंह, वी. एवं शर्मा, पी. (2020). मानव संसाधन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार. जयपुर: राज पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, आर. (2022). कृत्रिम बुद्धिमत्ता और औद्योगिक विकास. लखनऊ: यथार्थ पब्लिशिंग हाउस।
- चतुर्वेदी, एम. (2018). डिजिटल युग में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ और अवसर. मुंबई: नवीन बुक्स।
- वर्मा, डी. एवं शुक्ला, के. (2021). संगठनात्मक व्यवहार एवं एआई का प्रभाव. पटना: बिहार पब्लिकेशन हाउस।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (NIPM) (2020). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव संसाधन प्रबंधन. कोलकाता: एनआईपीएम पब्लिकेशन।
- आईआईएम अहमदाबाद रिपोर्ट (2022). भारतीय उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव संसाधन प्रबंधन का समावेश।
- यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) (2021). भारत में एआई और एचआरएम पर अनुसंधान अध्ययन।
- सक्सेना, पी. (2023). मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल क्रांति और एआई का योगदान. भोपाल: मानव संसाधन प्रकाशन।



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा शिक्षक की जगह लेने के संदर्भ में एक नैतिक और सामाजिक अध्ययन

शिवानी भारद्वाज\*

सारांश : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा प्रणाली में तेजी से अपनी जगह बना रहा है, जिससे शिक्षण पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह अध्ययन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा शिक्षक की भूमिका को प्रतिस्थापित करने की नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है। हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल ट्यूटर, चौटबॉट्स, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शिक्षण को अधिक प्रभावी, व्यक्तिगत और सुलभ बना सकते हैं, लेकिन वे मानवीय संवेदनशीलता, नैतिक मार्गदर्शन और सामाजिक मूल्यों को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि शिक्षक केवल ज्ञान के स्रोत नहीं होते, बल्कि वे छात्रों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और सामाजिक कौशल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, मानवीय सहानुभूति, प्रेरणा और नैतिकता का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। निष्कर्षतः, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एक सहायक उपकरण के रूप में अपनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को अधिक समूह और प्रभावी बनाया जा सके।

## प्रस्तावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, चौटबॉट्स, वर्चुअल ट्यूटर और स्वचालित मूल्यांकन प्रणालियाँ शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। हालाँकि, यह सवाल उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकता है? यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से शिक्षकों के कार्यों को सुविधाजनक बना सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत सीखने की योजनाएँ तैयार करना, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और तत्काल सहायता प्रदान करना। लेकिन एक शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, वह छात्रों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों की जगह लेता है, तो इससे नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मानवीय संवेदनशीलता, नैतिक शिक्षा और शिक्षक-छात्र संबंधों की कमी। सामाजिक दृष्टि से, यह बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव का नैतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है, जिससे यह समझा जा सके कि क्या तकनीक शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर सकती है या केवल एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करेगी।

## क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता के आधार पर शिक्षक की जगह ले सकता है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल ट्यूटर, चौटबॉट्स और डेटा एनालिटिक्स जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों ने शिक्षण को अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत बना दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता के आधार पर शिक्षक की जगह ले सकता है?

\* सहायक आचार्य, डी.एल.एड. विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

### मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों की भूमिका

एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित नहीं होताय वह छात्रों के मानसिक, नैतिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन मूल्य, नैतिकता, सहानुभूति और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों को डेटा-आधारित सुझाव दे सकता है, लेकिन यह नैतिक सोच, भावनात्मक सहानुभूति और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा है, तो एक शिक्षक उसे भावनात्मक समर्थन दे सकता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तर्कसंगत उत्तर देने तक सीमित रहेगा।

### नैतिकता और निर्णय लेने की सीमाएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण प्रणाली एल्गोरिदम और डेटा पर निर्भर करती है। लेकिन क्या यह नैतिक रूप से सही और संवेदनशील निर्णय ले सकती है? शिक्षा में कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ नैतिकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जैसे अनुशासनात्मक निर्णय, छात्रों की सामाजिक समस्याओं का समाधान और नैतिक दुविधाओं का मार्गदर्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मामलों में निष्पक्षता बनाए रख सकता है, लेकिन क्या यह संवेदनशीलता और नैतिक समझदारी के साथ सही निर्णय ले सकता है?

### सामाजिक और नैतिक प्रभाव

यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से शिक्षकों की जगह लेता है, तो यह बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और शैक्षिक अनुभव के मानवीय तत्वों की कमी का कारण बन सकता है। शिक्षक-छात्र संबंध केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं होतेय यह परामर्श, प्रेरणा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी हैं।

क्या सामाजिकता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक की जगह ले सकता है?

### शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान

#### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं—

- **व्यक्तिगत शिक्षा:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्येक छात्र के सीखने की गति और शैली को समझकर अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है।
- **स्वचालित मूल्यांकन:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम तेजी से उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं और छात्रों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।
- **चैटबॉट्स और वर्चुअल ट्यूटर:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट्स छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं।
- **डेटा विश्लेषण:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर शिक्षकों को आवश्यक सुधारों की सिफारिश कर सकता है।

### सामाजिकता का महत्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएँ

शिक्षा केवल किताबों और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करने में सहायक होती है। शिक्षक छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं।

### भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के आधार पर निर्णय ले सकता है, लेकिन उसमें भावनात्मक समझ का अभाव होता है। शिक्षक छात्र की भावनात्मक स्थिति को समझकर उसे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता।

### नैतिकता और मूल्यों का शिक्षण

शिक्षक केवल विषयों की जानकारी ही नहीं देते, बल्कि वे नैतिकता, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी बोध कराते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नैतिक निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती है, क्योंकि यह केवल पूर्व-निर्धारित डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित होता है।

### सामाजिक संवाद और सहभागिता

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक कौशल विकसित करना है। शिक्षक छात्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं और सामाजिकता विकसित करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम केवल सूचनाएँ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक संपर्क को बढ़ावा नहीं दे सकते।

### प्रेरणा और मार्गदर्शन

अक्सर शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं। वे अपनी कहानियों, अनुभवों और व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरणा देने के लिए डेटा और पूर्वानुमान का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह मानवीय संवेदनाओं और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का स्थान नहीं ले सकता।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षक का समन्वय: भविष्य की शिक्षा

हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से शिक्षक की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह शिक्षकों की सहायता कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर सकता है, जिससे वे छात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का विश्लेषण कर शिक्षकों को डेटा प्रदान कर सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षक मिलकर एक हाइब्रिड शिक्षण मॉडल विकसित कर सकते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी और मानवीय संवेदनशीलता दोनों का समावेश होगा।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षण प्रक्रिया को स्वचालित, व्यक्तिगत और अधिक प्रभावी बना सकता है, लेकिन इसमें मानवीय संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक जुड़ाव की कमी है। एक शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वह छात्रों के व्यक्तित्व विकास, नैतिक मूल्यों और सामाजिक कौशल को भी विकसित करने में सहायक होता है। नैतिक दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा में लाभकारी हो सकता है, लेकिन यह शिक्षक-छात्र संबंधों, नैतिक शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। सामाजिक दृष्टि से, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से शिक्षकों की जगह ले लेता है, तो यह बेरोजगारी, नैतिक शिक्षा की कमी और समाज में असमानता

को जन्म दे सकता है। इसलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एक सहायक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। भविष्य की शिक्षा प्रणाली एक हाइब्रिड मॉडल की ओर अग्रसर होगी, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षक मिलकर छात्रों को एक संतुलित, नैतिक और सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षा प्रदान करेंगे।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- गुप्ता, पी. (2023) : “AI-आधारित शिक्षण उपकरणों का शिक्षकों और छात्रों पर प्रभाव”, भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, खंड 12, अंक 4, पृष्ठ 102-116।
- वर्ल्ड बैंक (2021) : “द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन एजुकेशन: अपॉर्च्युनिटीज एंड रिस्क”, वाशिंगटन डी.सी।
- मिश्रा, एस. (2022) : “तकनीकी प्रगति और शिक्षक की भूमिका में बदलाव”, नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA)।
- पम्म एजुकेशन सोसाइटी (2020) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस: अ कंपैरेटिव स्टडी”, IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी।
- बूक, जॉन - स्मिथ, एलन (2021) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन: अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज”, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- कपलन, एंड्र्यू - हॉकिंस, मार्क (2020) : “एडाप्टिव लर्निंग विद एआई: हाउ टेक्नोलॉजी इस ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम”, हार्वर्ड एजुकेशन प्रेस।
- शर्मा, आर. (2022) : “भारत में शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव”, शिक्षा संवाद पत्रिका, खंड 15, अंक 3, पृष्ठ 45-58।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP), भारत सरकार (2020) : “शिक्षा में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश”, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- यूनिसेफ (2021) : “एआई एंड इट्स रोल इन एजुकेशन: ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव”, यूनिसेफ रिसर्च पेपर, न्यूयॉर्क।
- ओईसीडी रिपोर्ट (2019) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लर्निंग एंड टीचिंग: पॉलिसी इंप्लीकेशंस”, ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नई शिक्षा नीति 2020 में योगदान

श्रीमती नीरज गुप्ता\*

**सारांश :** नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में स्वीकार करती है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने पर बल देती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व्यक्तिगत शिक्षण, डेटा विश्लेषण, कौशल विकास, और शिक्षा की सुलभता बढ़ाने में किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों की सीखने की गति और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने में सहायक हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक-छात्र संवाद को प्रभावी बनाने, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर करने, और शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। नई शिक्षा नीति 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया है, जिससे छात्र भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई शिक्षा नीति 2020 के तहत समावेशी, कुशल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह नीति शिक्षा को आधुनिक, समावेशी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षण (Personalized Learning), स्मार्ट क्लासरूम, डेटा-आधारित मूल्यांकन, और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। NEP 2020 कौशल-आधारित शिक्षा पर बल देती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी नई तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों और छात्रों को स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम, चैटबॉट्स, और वर्चुअल असिस्टेंट्स के माध्यम से सहायक बन रहा है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो रही है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिससे दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। यह नीति शिक्षा में डिजिटल डिवाइड को कम करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच समानता स्थापित करने की दिशा में भी सहायक है। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई शिक्षा नीति 2020 को अधिक प्रभावी, सुलभ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## नई शिक्षा नीति 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान

**व्यक्तिगत शिक्षण-** नई शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और रुचियों के अनुसार अनुकूल शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एडेप्टिव प्लेटफॉर्म जैसे कि BYJU'S, Unacademy, और Google Classroom छात्रों को उनकी सीखने की गति के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों की प्रदर्शन प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर उनके लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति सुझाता है।
- स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देकर सीखने में मदद करता है।

---

\* सहायक आचार्य, डी.एल.एड. विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन प्रश्नों के उत्तर, परीक्षा तैयारी, और रियल-टाइम फीडबैक प्रदान करते हैं।

### स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग

नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट क्लासरूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल बोर्ड और इंटरएक्टिव कंटेंट छात्रों की समझ को बेहतर बनाते हैं।
- स्मार्ट क्लासरूम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण को प्रासंगिक बनाते हैं।

### मूल्यांकन प्रणाली में सुधार

नई शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक रटने पर आधारित परीक्षा प्रणाली को हटाकर समग्र मूल्यांकन प्रणाली (Holistic Assessment) अपनाने पर बल देता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है।
- ऑनलाइन परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुचित साधनों के उपयोग (Malpractice) की पहचान कर सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूल्यांकन प्रणाली तेजी से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकती है और वास्तविक समय में परिणाम प्रदान कर सकती है।

### समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

नई शिक्षा नीति 2020 सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए किया जा रहा है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीकें दृष्टिहीन और श्रवण बाधित छात्रों की मदद कर सकती हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम छात्रों को साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -आधारित सहायक उपकरण शिक्षण को सुलभ बनाते हैं।

### कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी के कौशल जैसे कि कोडिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली और उच्च शिक्षा में शामिल करने की बात कही गई है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन कोर्स और प्रमाणन (Certification Programs) प्रदान करता है, जिससे छात्र नवीनतम तकनीकों से अवगत हो सकें।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म नौकरी के अनुरूप कौशल विकास कोर्स की सिफारिश करते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरशिप और करियर गाइडेंस के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद करता है।

### भाषा अनुवाद और बहुभाषीय शिक्षा

- नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें सहायक हो सकता है।
- नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) तकनीक का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न भाषाओं में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉयस असिस्टेंट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
- Google और Microsoft जैसी कंपनियाँ भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस –आधारित शिक्षण सामग्री विकसित कर रही हैं।

### शिक्षक प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

- नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर भी बल दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस –आधारित डेटा विश्लेषण से छात्रों की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट मिल सकती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करके शिक्षकों का कार्यभार कम करता है, जिससे वे छात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

### चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई शिक्षा नीति 2020 को अधिक प्रभावी बना रहा है, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं—

**डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता सीमित है।

**समाधान:** सरकार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए अधिक निवेश करना होगा।

**डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में संग्रहीत होती है, जिससे डेटा सुरक्षा की चिंता बनी रहती है।

**समाधान:** मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियाँ लागू करनी होंगी।

**शिक्षकों की प्रशिक्षण की कमी:** कई शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना नहीं आता।

**समाधान:** शिक्षकों के लिए नियमित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।

### निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी और कौशल-केंद्रित बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत शिक्षण, स्वचालित मूल्यांकन, डिजिटल लर्निंग, और बहुभाषीय शिक्षा जैसी तकनीकों से शिक्षा अधिक प्रभावी और सुलभ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा में समानता, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशासनिक कार्यों के स्वचालन और रोजगार-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, डिजिटल डिवाइड, डेटा सुरक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी चुनौतियाँ अभी भी

बनी हुई हैं। इन बाधाओं को दूर कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकता है। भविष्य में, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक सुलभ, रोचक और प्रभावी बनाने में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020). नई शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार, नई दिल्ली। ([www-education-gov-in](http://www-education-gov-in))
- भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) (2021). शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, NCERT प्रकाशन, नई दिल्ली।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) (2022). उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन और AI की भूमिका, UGC रिपोर्ट, नई दिल्ली।
- शर्मा, आर. (2021). नई शिक्षा नीति और डिजिटल लर्निंग: AI का योगदान, भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, वाराणसी।
- गुप्ता, एस. (2020). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसका प्रभाव, आर्थिक अध्ययन प्रकाशन, कोलकाता।
- मित्तल, पी. (2022). नई शिक्षा नीति 2020 और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा, शिक्षा और शोध पत्रिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रिपोर्ट (2023). शिक्षा में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग, IIT दिल्ली।
- नैसकॉम (NASSCOM) और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (2022). भारत में AI-सक्षम शिक्षा का भविष्य, नैसकॉम रिपोर्ट।
- यूनिसेफ इंडिया (2021). बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा और AI का महत्व, यूनिसेफ रिपोर्ट, नई दिल्ली।
- टाइम्स ऑफ इंडिया (2023). भारतीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में AI का बढ़ता उपयोग, ([www-timesofindia-indiatimes-com](http://www-timesofindia-indiatimes-com))



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा का विकास

## बृज निवास\*

सारांश : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जिससे व्यक्तिगत शिक्षा का विकास संभव हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की सीखने की गति, उनकी रुचियों और कमजोरियों का विश्लेषण करके अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और आकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से यह तकनीक छात्रों को व्यक्तिगत फीडबैक, स्मार्ट ट्यूटोरिंग और इंटरैक्टिव लर्निंग अनुभव प्रदान करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ हुई है। हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डेटा सुरक्षा, शिक्षक-छात्र संबंधों में कमी और आर्थिक असमानता। निष्कर्षतः, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यक्तिगत शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समावेशी बना सकती है, यदि इसे संतुलित रूप से अपनाया जाए।

## प्रस्तावना

आधुनिक तकनीक के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह तकनीक न केवल शिक्षकों और छात्रों के बीच की खाई को पाट रही है, बल्कि व्यक्तिगत शिक्षा को भी एक नई दिशा प्रदान कर रही है। परंपरागत शिक्षण पद्धतियों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा अधिक प्रभावी, लचीली और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से छात्रों की सीखने की क्षमता, रुचि और कमजोरियों का विश्लेषण कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। मशीन लर्निंग और आकड़ों के विश्लेषण का उपयोग करके यह तकनीक प्रत्येक छात्र के लिए उपयुक्त गति और शैली में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, चैटबॉट्स, वर्चुअल ट्यूटर और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएँ शिक्षा को अधिक रोचक और संवादात्मक बनाती हैं। हालांकि, इस तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल साक्षरता विकसित करने की आवश्यकता होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा प्रणाली न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि इसे अधिक समावेशी और सुलभ भी बनाएगी। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नवाचार और ज्ञान के नए द्वार खोलेगा।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा के विकास में योगदान

आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली जहाँ एक समान पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर निर्भर थी, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे व्यक्तिगत और अनुकूलनीय बना दिया है। व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक छात्र की क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री और विधियों को अनुकूलित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

---

\* सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश), भारत

## व्यक्तिगत शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे छात्रों को उनके सीखने की गति और जरूरतों के अनुसार शिक्षा मिलती है। यह तकनीक निम्नलिखित तरीकों से शिक्षा के विकास में योगदान दे रही है:

### डेटा विश्लेषण द्वारा शिक्षण विधियों का अनुकूलन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम छात्रों के सीखने के पैटर्न, प्रदर्शन, रुचियों और कमजोरियों का विश्लेषण करती हैं। इसके आधार पर यह सिस्टम प्रत्येक छात्र के लिए विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को गणित की एक विशेष अवधारणा समझने में कठिनाई हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे वैकल्पिक शिक्षण सामग्री या इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स प्रदान कर सकता है।

### स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्यूटर (जैसे कि ChatGPT, Coursera, Duolingo, और Khan Academy के स्मार्ट लर्निंग टूल) छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। ये ट्यूटर प्रत्येक छात्र की प्रगति को जानते हैं और उनके अनुसार कठिनाई स्तर को समायोजित करते हैं। यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है और उनकी समझ को गहरा करने में सहायता करता है।

### आभासी सहायक और चौटबॉट्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आभासी सहायक (Virtual Assistants) और चौटबॉट्स शिक्षकों और छात्रों दोनों की सहायता करते हैं। ये चौटबॉट्स प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्रदान कर सकते हैं, होमवर्क में मदद कर सकते हैं और छात्रों को अतिरिक्त संसाधन भी सुझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, Google Assistant और Siri जैसी तकनीकें छात्रों को त्वरित जानकारी प्रदान करने में मदद करती हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनुकूली शिक्षण

अनुकूली शिक्षण प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री को संशोधित करती हैं। यह प्रणाली छात्रों की प्रतिक्रिया और प्रदर्शन का विश्लेषण करके अगली शिक्षण सामग्री को समायोजित करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी विषय को तेजी से समझता है, तो उसे उन्नत स्तर की सामग्री दी जाती है, जबकि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

### कस्टमाइज्ड पाठ्यक्रम और अध्ययन योजनाएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर अध्ययन योजनाएँ विकसित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को विज्ञान में रुचि है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म उसे उसके कौशल और रुचियों के अनुसार संसाधन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे छात्र अपनी पसंद के अनुसार गहराई से अध्ययन कर सकते हैं।

### परीक्षा और मूल्यांकन में सुधार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में भी किया जा रहा है। यह तकनीक न केवल छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करती है, बल्कि उनके कमजोर बिंदुओं की पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए सुझाव भी देती है। ऑनलाइन परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्वतः उत्तर जांचने, नकल पकड़ने और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

## शिक्षकों के लिए सहायता प्रणाली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। यह तकनीक शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकसित करने, परीक्षा प्रश्न तैयार करने, होमवर्क मूल्यांकन करने और कक्षा प्रबंधन में सहायता कर सकती है। इससे शिक्षकों को अधिक समय मिलता है जिससे वे छात्रों के साथ अधिक व्यक्तिगत रूप से संवाद कर सकते हैं।

## दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट टेक्नोलॉजी दृष्टिहीन और श्रवण बाधित छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बना रही हैं।

## बहुभाषीय शिक्षण प्रणाली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषाई बाधाओं को भी दूर कर रहा है। यह विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, नववहसम जन्मसंजम और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूलस किसी भी भाषा में अध्ययन सामग्री को बदल सकते हैं, जिससे छात्रों को उनकी मातृभाषा में सीखने में सुविधा मिलती है।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा के लाभ

- **व्यक्तिगत ध्यान:** प्रत्येक छात्र की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।
- **सीखने की गति:** छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं।
- **तकनीक आधारित सीखने का अनुभव:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरएक्टिव और व्यावहारिक सीखने के अवसर मिलते हैं।
- **समय और संसाधनों की बचत:** शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शिक्षा को अधिक कुशल बनाया जाता है।
- **सुलभता:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होती है।

## चुनौतियाँ और संभावित समाधान

हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा में कई लाभ हैं, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

**डिजिटल साक्षरता की कमी:** सभी छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का ज्ञान नहीं होता। इसे दूर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं।

**तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता:** सभी स्कूलों और छात्रों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलकर डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार करना होगा।

**डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** छात्रों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए कठोर सुरक्षा नीतियाँ लागू करनी होंगी।

## निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा को व्यक्तिगत, कुशल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह तकनीक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा को अनुकूलित करने, शिक्षकों की सहायता करने और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने में मदद कर रही है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी जागरूकता और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा प्रणाली और भी अधिक विकसित होगी और छात्रों को एक नई, अधिक उन्नत और व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करेगी।

**संदर्भ-ग्रंथ सूची**

- गर्ग, एस. (2021). शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका. नई दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन।
- शर्मा, आर. (2020). डिजिटल शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षण. वाराणसी: भारतीय ज्ञानपीठ।
- मिश्रा, पी. (2019). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: शिक्षा और समाज पर प्रभाव. लखनऊ: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- त्रिपाठी, डी. (2022). आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग. जयपुर: राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान।
- अग्रवाल, एम. (2023). व्यक्तिगत शिक्षण में AI का योगदान. भोपाल: नवभारत पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2021). भारत में डिजिटल शिक्षा का विकास. नई दिल्ली: NCERT प्रकाशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT). (2022).
- शिक्षा में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव. मुंबई: IIT प्रकाशन।
- यूनिसेफ भारत (2023). AI आधारित शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ. नई दिल्ली: यूनिसेफ पब्लिकेशन।
- विश्व बैंक रिपोर्ट (2021). एआई और शिक्षा: वैश्विक अध्ययन. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन। यूनेस्को (2022). शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य. पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा भाषा शिक्षण में नवाचार का अध्ययन

राम औतार सिंह\*

**सारांश :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा शिक्षण में नवाचार लाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। आधुनिक तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और चौटबॉट्स के माध्यम से भाषा अधिगम अधिक सहज और प्रभावी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुकूलित पाठ्यक्रम, वर्चुअल ट्यूटर, और स्वचालित अनुवाद उपकरण भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे सीखने की गति और गुणवत्ता में सुधार होता है। व्याकरण सुधार टूल, उच्चारण सुधार सॉफ्टवेयर, और इमर्सिव लर्निंग एप्लिकेशन भाषा कौशल को प्रभावी ढंग से विकसित करने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता आधारित भाषा शिक्षण भी लोकप्रिय हो रहा है। हालाँकि, एआई के अति-निर्भरता और सांस्कृतिक संदर्भों की कमी जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। फिर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा शिक्षण में नवाचार लाकर शिक्षार्थियों के अनुभव को अधिक प्रभावी और रोचक बना रहा है।

## प्रस्तावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भाषा शिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा शिक्षण अधिक प्रभावी, समावेशी और व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित हो गया है। यह तकनीक सीखने की प्रक्रिया को सरल, रोचक और संवादात्मक बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित भाषा शिक्षण में चौटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, मशीन लर्निंग, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीकें छात्रों को त्वरित उत्तर प्रदान करने, उच्चारण सुधारने, अनुवाद करने और व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री तैयार करने में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, डुओलिंगो और गूगल ट्रांसलेट जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन भाषा सीखने को सहज और प्रभावी बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएँ विकसित कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे वैश्विक संचार और सांस्कृतिक समझ में सुधार हो रहा है। अतः, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा शिक्षण में नवाचार लाकर इसे अधिक प्रभावी, सुलभ और रोचक बना रहा है, जिससे भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो रहे हैं।

## भाषा शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों का महत्व

### व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक हर छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा शिक्षण को अनुकूलित कर सकती है। यह छात्रों की सीखने की गति, रुचि और कमजोरियों के आधार पर पाठ्यक्रम को समायोजित कर सकता है।

---

\* सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

**सुलभता और वैश्विक पहुंच**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा शिक्षण प्लेटफॉर्म, जैसे कि डुओलिंगो और गूगल ट्रांसलेट, विश्वभर के लोगों को भाषा सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है।

**वास्तविक समय में सुधार और प्रतिक्रिया**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से छात्र अपनी उच्चारण और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को तुरंत सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाणी पहचान तकनीक छात्रों को उनके उच्चारण सुधारने में सहायता करती है।

**बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी भी भाषा का अनुवाद करना और उसे सीखना सरल हो गया है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच की बाधाओं को तोड़कर वैश्विक संचार को मजबूत करता है।

**शिक्षकों के कार्यभार में कमी**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण उपकरण, जैसे कि ऑनलाइन भाषा शिक्षक चैटबॉट्स, शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और परीक्षा लेने में मदद करते हैं।

**भाषा शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ****इंटरएक्टिव और आकर्षक शिक्षण**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन और टूल्स जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट और गेमिफाइड लर्निंग ऐप, भाषा सीखने को अधिक रोचक और मजेदार बनाते हैं। इससे छात्र लंबे समय तक सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं।

**स्वचालित अनुवाद और शब्दावली निर्माण**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स, जैसे डुओलिंगो और गूगल ट्रांसलेट, किसी भी भाषा को तुरंत अनुवाद करने में सक्षम हैं, जिससे भाषा सीखने की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होती है।

**खर्च में कमी**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा शिक्षण समाधान पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में अधिक किफायती हैं। इससे भाषा सीखने वालों को महंगे ट्यूटर या कक्षाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

**24/7 उपलब्धता**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म दिन-रात उपलब्ध रहते हैं, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय भाषा सीख सकते हैं।

**डेटा-संचालित विश्लेषण और सुधार**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करके व्यक्तिगत सुधार योजना प्रदान करता है। इससे छात्रों की भाषा दक्षता में तेजी से सुधार होता है।

**ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण को बढ़ावा**

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएँ और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ गई है, जिससे दूरस्थ शिक्षा को नया स्वरूप मिला है।

## दिव्यांगों के लिए सहायक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक दृष्टिहीन और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भाषा शिक्षण को अधिक सुलभ बनाती है। स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएँ उन्हें भाषा सीखने में मदद करती हैं।

## भाषा शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोष

### संवेदनशीलता और मानवीय स्पर्श की कमी

भाषा केवल व्याकरण और शब्दावली तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें भावनाएँ और संस्कृति भी शामिल होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं होता।

### भाषा की स्वाभाविकता में कमी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद कभी-कभी गलत या संदर्भहीन हो सकते हैं, जिससे भाषा सीखने वालों को भ्रम हो सकता है।

### निर्भरता और सृजनात्मकता में कमी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता से छात्रों की स्वतंत्र भाषा सीखने और सृजनात्मकता की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

### गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म छात्रों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा बना रहता है।

### तकनीकी सीमाएँ और त्रुटियाँ

कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा गलत उच्चारण सुझाव या व्याकरणिक त्रुटियाँ दी जा सकती हैं, जो भाषा शिक्षण प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं।

### इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों पर निर्भरता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण टूल्स के लिए इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे उन छात्रों को कठिनाई हो सकती है जो इन संसाधनों से वंचित हैं।

### भविष्य की संभावनाएँ और समाधान

#### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षकों के बीच संतुलन

शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोगी बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक शिक्षकों की सहायता कर सकती है, लेकिन शिक्षकों की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।

#### सटीक अनुवाद और सांस्कृतिक संदर्भों को शामिल करना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को विकसित करने में स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि अनुवाद अधिक प्राकृतिक और संदर्भ-संवेदनशील हो।

#### डेटा सुरक्षा के उपाय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा शिक्षण प्लेटफॉर्म को डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मजबूत उपाय अपनाने चाहिए, ताकि छात्रों की जानकारी सुरक्षित रहे।

### तकनीकी सुलभता में सुधार

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा शिक्षण को अधिक सुलभ और किफायती बनाना आवश्यक है।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा शिक्षण में नवाचार लाकर इसे अधिक प्रभावी, सुलभ और व्यक्तिगत बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण उपकरण भाषा सीखने को रोचक और इंटरएक्टिव बनाते हैं, जिससे छात्रों को अधिक सुविधा मिलती है। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे कि संवेदनशीलता की कमी, डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और तकनीकी निर्भरता। भविष्य में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारंपरिक शिक्षण विधियों के संतुलन को बनाए रखते हुए, इसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह भाषा शिक्षण को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकता है और वैश्विक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### संदर्भ- ग्रंथ सूची

- शर्मा, आर. (2022) - “शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एक नवीन दृष्टिकोण”, भारतीय शिक्षा प्रकाशन, नई दिल्ली।
- गुप्ता, एस. (2021) - “भाषा शिक्षण और डिजिटल नवाचार”, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, भारत।
- मिश्रा, पी. (2020) - “शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव”, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
- वर्मा, के. (2019) - “ई-लर्निंग और भाषा शिक्षण”, हिंदी अकादमी, दिल्ली।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (2020) - “भाषा शिक्षण में तकनीकी नवाचार”, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
- यूनेस्को रिपोर्ट (2021) - “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा: भविष्य की दिशा”, यूनेस्को पब्लिकेशन।
- सिंह, आर. (2023) - “भाषाई अध्ययन में मशीन लर्निंग का योगदान”, ज्ञान गंगा पब्लिकेशन, लखनऊ।
- भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद (NCERT, 2022) - “शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश”, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।



# शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का छात्र प्रदर्शन और शिक्षकों की भूमिका पर प्रभाव

सौरभ कुमार मिश्रा\*

**सारांश :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स जैसे अनुकूलित लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली और वर्चुअल ट्यूटर छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बना रहे हैं। ये तकनीक व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करती हैं, जिससे छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से छात्रों की कमजोरियों की पहचान कर शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है। हालाँकि, शिक्षकों की भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि वे मार्गदर्शक और समन्वयक की भूमिका में बदल जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर उनके शिक्षण कौशल को और प्रभावी बनाने में सहायक होता है। हालाँकि, इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है ताकि मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों की अनदेखी न हो। इस प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## प्रस्तावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता दिखाई है। यह न केवल छात्रों के सीखने के अनुभव को व्यक्तिगत बनाने में सहायक है, बल्कि शिक्षकों की भूमिका को भी नए आयाम प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिआधारित टूल्स, जैसे कि स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल असिस्टेंट और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, छात्रों की सीखने की गति और क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है और वे अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिप्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करके शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। इससे शिक्षक छात्रों के साथ अधिक व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं और उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझ सकते हैं। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों की भूमिका को समाप्त नहीं करता, बल्कि इसे पूरक बनाता है। शिक्षकों की रचनात्मकता, नैतिक मार्गदर्शन और भावनात्मक जुड़ाव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग छात्र प्रदर्शन को सुधारने और शिक्षकों को अधिक दक्ष बनाने में सहायक है। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## छात्रों के प्रदर्शन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव

**व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षा :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली और गति को समझते हैं और उनके अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करते हैं। उदाहरण के लिए, एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म (जैसे कि Coursera, Khan Academy, और Byju's) छात्रों की कमजोरियों और मजबूत बिंदुओं की पहचान करके उन्हें व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करते हैं। यह अनुकूलन (Customization) छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार सीखने का अवसर देता है, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होता है।

---

\* सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

**स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम (जैसे कि Squirrel AI और Carnegie Learning) छात्रों को एक आभासी शिक्षक के रूप में गाइड करते हैं। ये ट्यूटोरिंग सिस्टम छात्रों की प्रतिक्रियाओं और सीखने की दर के आधार पर पाठ्यक्रम को समायोजित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को अपने संदेह दूर करने और अपने ज्ञान को गहराई से समझने में मदद मिलती है।

**स्वचालित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके परीक्षा और असाइनमेंट का मूल्यांकन करता है, जिससे छात्रों को त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रक्रिया न केवल शिक्षकों का समय बचाती है बल्कि छात्रों को तुरंत अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देती है। उदाहरण के लिए, Turnitin और Gradescope जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों के उत्तरों का विश्लेषण करके विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

**डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा विश्लेषण के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करता है और उनके भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकता है। यह तकनीक शिक्षकों और संस्थानों को छात्रों की कमजोरियों को पहले से पहचानने और सुधारने के उपाय करने की सुविधा देती है। इससे छात्रों की असफलता दर कम होती है और उनकी सफलता दर बढ़ती है।

**भाषा और संचार कौशल में सुधार :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा शिक्षण टूल्स (जैसे कि Duolingo, Grammarly, और Google Assistant) छात्रों की भाषा और संचार कौशल को सुधारने में मदद करते हैं। ये टूल्स न केवल व्याकरण और उच्चारण में सुधार करते हैं, बल्कि छात्रों को भाषा के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ाने में सहायता करते हैं।

**आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता के साथ अनुभवात्मक शिक्षा :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ VR और AR तकनीकों का उपयोग करके छात्रों को व्यावहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान के छात्रों के लिए वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं, जहां वे बिना किसी जोखिम के प्रयोग कर सकते हैं। इससे जटिल विषयों को समझना आसान हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है।

**मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स और वर्चुअल काउंसलर छात्रों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करके उन्हें परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स (जैसे कि Woebot और Wysa) छात्रों के तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

## चुनौतियाँ और सावधानियाँ

**निजता और डेटा सुरक्षा :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम छात्रों के व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करते हैं, जिससे उनकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।

**शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता :** कुछ शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे शिक्षण की पारंपरिक विधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

**संवेदनशीलता की कमी :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मानवीय संवेदनाओं को नहीं समझते, इसलिए वे छात्रों को भावनात्मक स्तर पर प्रेरित करने में असमर्थ हो सकते हैं।

## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षकों की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म (जैसे कि Coursera, Khan Academy और Byju's) छात्रों के सीखने के स्तर को समझकर उनके अनुसार सामग्री प्रदान करते हैं। हालांकि, शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि यह अनुकूलन सही दिशा में हो।

- शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा का उपयोग करके छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

- वे यह तय कर सकते हैं कि किन छात्रों को अतिरिक्त सहायता या चुनौतीपूर्ण सामग्री की आवश्यकता है।
- शिक्षक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के सही उपयोग के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कक्षा प्रबंधन :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। यह उपस्थिति दर्ज करने, असाइनमेंट की समीक्षा करने, और परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करने जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकता है।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से शिक्षक प्रशासनिक कार्यों में कम समय लगाते हैं और अधिक समय छात्रों के साथ बिताते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली (जैसे कि स्मार्ट कैमरा और विश्लेषण सॉफ्टवेयर) शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के व्यवहार और उनकी भागीदारी का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्मार्ट मूल्यांकन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों को परीक्षा और असाइनमेंट के ग्रेडिंग में मदद कर सकती है।

- यह स्वचालित रूप से उत्तरों की जांच करता है और विस्तृत प्रतिक्रिया देता है।
- शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से छात्रों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं।
- यह प्रणाली समय की बचत करती है और शिक्षकों को छात्रों की वास्तविक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है।

### आभासी सहायक के उपयोग में शिक्षकों की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट (जैसे कि Google Assistant, IBM Watson) छात्रों के सवालों का उत्तर देने में सहायता करते हैं। हालांकि, शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्रों को सही और सटीक जानकारी मिल रही है।
- छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अत्यधिक निर्भर न हों और वे आलोचनात्मक सोच विकसित करें।
- यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है, तो शिक्षक उस गलती को सुधारने के लिए मौजूद हों।

### मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में शिक्षकों की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट्स (जैसे कि Woebot और Wysa) छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन शिक्षकों की भूमिका इससे कम नहीं होती।

- शिक्षक छात्रों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सहारा ले सकते हैं।
- वे छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सतही स्तर पर सहायता कर सकता है, जबकि शिक्षक गहराई से छात्रों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उचित समाधान प्रदान कर सकते हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना

शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नैतिक रूप से किया जाए।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा संग्रह करता है, लेकिन शिक्षकों को यह देखना होगा कि छात्रों की गोपनीयता सुरक्षित रहे।
- शिक्षक छात्रों को यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और इसकी सीमाएँ क्या हैं।
- वे छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के अधिक निर्भर होने से बचा सकते हैं और उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को स्वयं इसके बारे में सीखना होगा।
- शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और इसके लाभों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- उन्हें यह सीखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है।
- शिक्षकों को तकनीकी नवाचारों के साथ अद्यतन रहने की आवश्यकता है ताकि वे छात्रों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकें।

### चुनौतियाँ और सावधानियाँ

- हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक उपयोग से शिक्षक और छात्र के बीच मानवीय संबंध कमजोर हो सकते हैं।
- कुछ शिक्षक तकनीकी रूप से कम अनुभवी हो सकते हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग में कठिनाई हो सकती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से शिक्षकों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं होतीय इसमें नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी शामिल होता है।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में उभर रहा है। यह शिक्षकों को उनके पारंपरिक कार्यों से मुक्त करके उन्हें छात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीकी सहायता है और यह शिक्षकों की मानवीय समझ, संवेदनशीलता और प्रेरण ादायक भूमिका की जगह नहीं ले सकता। इस प्रकार, शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने, इसे नैतिक रूप से उपयोग करने और इसे प्रभावी शिक्षण के लिए सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षकों का समन्वय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और रोचक बना सकता है।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- बूक, जॉन – स्मिथ, एलन (2021) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन: अपॉर्च्युनिटीज एंड चॉलेंजेज”, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

- कपलन, एंड्रयू - हॉकिंस, मार्क (2020) : “एडाप्टिव लर्निंग विद एआई: हाउ टेक्नोलॉजी इस ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम्स”, हार्वर्ड एजुकेशन प्रेस।
- शर्मा, आर. (2022) : “भारत में शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव”, शिक्षा संवाद पत्रिका, खंड 15, अंक 3, पृष्ठ 45-58।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP), भारत सरकार (2020) : “शिक्षा में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश”, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- यूनिसेफ (2021) : “एआई एंड इट्स रोल इन एडुकेशन: ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव”, यूनिसेफ रिसर्च पेपर, न्यूयॉर्क।
- ओईसीडी रिपोर्ट (2019) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लर्निंग एंड टीचिंग: पॉलिसी इंप्लीकेशंस”, ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
- गुप्ता, पी. (2023) : “AI-आधारित शिक्षण उपकरणों का शिक्षकों और छात्रों पर प्रभाव”, भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, खंड 12, अंक 4, पृष्ठ 102-116।
- वर्ल्ड बैंक (2021) : “द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन एडुकेशन: अपॉर्च्युनिटीज एंड रिस्क”, वाशिंगटन डी.सी।
- मिश्रा, एस. (2022) : “तकनीकी प्रगति और शिक्षक की भूमिका में बदलाव”, नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA)।
- IEEE एजुकेशन सोसाइटी (2020) : “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस: अ कंपैरेटिव स्टडी”, IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी।



# ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका : अवसर व चुनौतियाँ

डा. अजय कुमार वर्मा\*

*सारांश : ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे व्यावसायिक प्रक्रियाएँ स्वचालित और ग्राहक अनुभव उन्नत हो रही हैं। एआई आधारित चैटबॉट्स, पर्सनल एनेलिटिक्स मार्केटिंग, वर्चुअल आर्किटेक्चर, और डेटा एनालिटिक्स ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में सहायक हैं। यह तकनीक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फ़्रोड डिविजन और लॉजिस्टिक्स का भी मंच है। हालाँकि, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, उच्च लागत, और तकनीकी मॉडल जैसी चुनौतियाँ इसी तरह बनी हुई हैं। यह अध्ययन ई-कॉमर्स में एआई के अवसर और विवरण का विश्लेषण करता है जो इसके प्रभावशाली उपयोग पर प्रकाश डालता है।*

## प्रस्तावना

ई-कॉमर्स क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव, ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। एआई आधारित चैटबॉट, सिफारिशी एल्गोरिदम और स्वचालित इन्वेंट्री प्रबंधन से न केवल व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित सेवाएँ मिल रही हैं। हालाँकि, एआई अपनाने में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डेटा सुरक्षा, उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ। छोटे व्यवसायों के लिए एआई का समुचित उपयोग करना एक कठिन कार्य हो सकता है। ई-कॉमर्स में एआई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और इसके उचित क्रियान्वयन से व्यापार जगत को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही, चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार और तकनीकी उन्नति आवश्यक है, जिससे डिजिटल व्यापार अधिक कुशल और सुरक्षित बन सके।

## ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवसर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने आधुनिक व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। विशेष रूप से ई-कॉमर्स उद्योग में, एआई का प्रभाव अभूतपूर्व है। यह न केवल व्यापारिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रहा है, बल्कि ग्राहक अनुभव को भी बेहतर बना रहा है। ई-कॉमर्स में एआई के उपयोग से नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी हैं।

**व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव :** ई-कॉमर्स में एआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में है। एआई एल्गोरिदम उपभोक्ता के पिछले खरीदारी व्यवहार, ब्राउजिंग इतिहास और पसंदीदा उत्पादों का विश्लेषण कर व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, 1इंड और थ्रसपचांतज जैसी ई-कॉमर्स कंपनियाँ एआई-आधारित सिफारिश प्रणालियों का उपयोग करके ग्राहकों को उनके रुचि के अनुसार उत्पाद दिखाती हैं, जिससे बिक्री बढ़ती है।

**चैटबॉट और ग्राहक सेवा :** एआई आधारित चैटबॉट्स 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान करने में मददगार साबित हो रहे हैं। वे न केवल ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करते हैं, बल्कि उत्पाद की जानकारी, ऑर्डर ट्रैकिंग और भुगतान संबंधी

---

\* सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सहायता भी प्रदान करते हैं। उन्नत एआई चैटबॉट्स, जैसे कि Google's Dialogflow और IBM Watson, स्वचालित ग्राहक सेवा प्रदान करके कंपनियों का समय और संसाधन बचा रहे हैं।

**आवाज और छवि खोज :** आज उपभोक्ता पारंपरिक टेक्स्ट-आधारित खोज के बजाय आवाज और छवि आधारित खोज को प्राथमिकता दे रहे हैं। एआई तकनीक, जैसे कि Google Lens और Amazon Alexa, उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा उत्पादों को आसानी से खोजने की सुविधा देती है। इससे ई-कॉमर्स कंपनियाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं और उन्हें सुविधाजनक खरीदारी अनुभव प्रदान कर सकती हैं।

**धोखाधड़ी का पता लगाना और साइबर सुरक्षा :** ई-कॉमर्स में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ने से साइबर धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ी है। एआई तकनीक वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उपयोग की जा रही है। एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम असामान्य गतिविधियों को पहचानते हैं और संदिग्ध लेन-देन को रोकने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, PayPal और Razorpay जैसी भुगतान कंपनियाँ एआई का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करती हैं।

**इन्वेंटरी और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन :** ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इन्वेंटरी प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स एक बड़ी चुनौती होती है। एआई-आधारित सिस्टम मांग और आपूर्ति का सटीक अनुमान लगाकर स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। Amazon और Flipkart जैसी कंपनियाँ अपने वेयरहाउस और डिलीवरी सिस्टम को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं, जिससे उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

**मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ :** एआई का उपयोग डायनामिक प्राइसिंग (Dynamic Pricing) में किया जा रहा है, जिससे कंपनियाँ बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता के आधार पर उत्पादों की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं। यह रणनीति व्यवसायों को अधिक लाभ कमाने और ग्राहकों को आकर्षक छूट देने में मदद करती है।

**डेटा एनालिटिक्स और भविष्यवाणी :** ई-कॉमर्स कंपनियाँ एआई-आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके बाजार के रुझानों और उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण कर रही हैं। यह भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि कौन से उत्पाद अधिक लोकप्रिय होंगे और कब किसी विशेष उत्पाद की मांग बढ़ सकती है। इससे कंपनियाँ अपने व्यापारिक निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं।

**स्मार्ट विज्ञापन और विपणन :** एआई-driven marketing तकनीकों, जैसे कि Google A के और Facebook A के, के माध्यम से कंपनियाँ अपने लक्षित ग्राहकों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुँच रही हैं। एआई उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों का विश्लेषण करता है और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार विज्ञापन दिखाता है, जिससे कन्वर्जन दर (conversion rate) बढ़ती है।

**स्वचालित उत्पाद विवरण और समीक्षा विश्लेषण :** एआई तकनीक के माध्यम से स्वचालित रूप से उत्पाद विवरण तैयार किए जा सकते हैं, जिससे कंपनियों का समय बचता है। इसके अलावा, एआई ग्राहकों की समीक्षाओं का विश्लेषण कर यह समझ सकता है कि किसी उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसी है।

**रोबोटिक्स और ऑटोमेशन :** ई-कॉमर्स कंपनियाँ एआई संचालित रोबोट्स का उपयोग वेयरहाउस प्रबंधन और उत्पादों की पैकिंग और शिपिंग में कर रही हैं। Amazon और Alibaba जैसी कंपनियाँ अपने वेयरहाउस में रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल कर ऑर्डर प्रोसेसिंग को तेज और कुशल बना रही हैं।

## ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियाँ

ई-कॉमर्स उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से उभर रहा है और व्यवसायों को अधिक प्रभावी, स्वचालित और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने में मदद कर रहा है। यह ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, डेटा विश्लेषण को उन्नत

करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि, ई-कॉमर्स में एआई को अपनाने के दौरान कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

**डेटा गोपनीयता और सुरक्षा :** ई-कॉमर्स में एआई के लिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ता डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, भुगतान विवरण और खरीदारी पैटर्न शामिल होते हैं। इस डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है क्योंकि साइबर हमले और डेटा लीक की संभावना बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं, जिससे संचालन की लागत भी बढ़ जाती है।

**उच्च लागत और निवेश :** एआई तकनीक को विकसित और बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के निवेश की आवश्यकता होती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित करने, डेटा एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और कुशल विशेषज्ञों को नियुक्त करने में काफी धनराशि खर्च होती है। छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिससे वे अत्याधुनिक एआई तकनीकों का लाभ नहीं उठा पाते।

**तकनीकी जटिलता और विशेषज्ञता की कमी :** एआई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और डीप लर्निंग जैसे जटिल क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने मौजूदा सिस्टम में एआई को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव करने पड़ते हैं, जो समय और संसाधनों की मांग करता है।

**उपभोक्ताओं का भरोसा और एआई की पारदर्शिता :** कई उपभोक्ता एआई द्वारा संचालित सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, खासकर जब निर्णय लेने की प्रक्रिया अस्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग करके उत्पादों की सिफारिश करता है, लेकिन उपयोगकर्ता को यह नहीं बताया जाता कि यह सिफारिशें कैसे बनाई गई हैं, तो यह संदेह पैदा कर सकता है। पारदर्शिता की कमी उपभोक्ताओं के विश्वास को कमजोर कर सकती है, जिससे ब्रांड की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

**अनैतिक डेटा उपयोग और भेदभाव :** एआई सिस्टम उन डेटा सेट्स पर आधारित होते हैं, जिनसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यदि इन डेटा सेट्स में पूर्वाग्रह (bias) मौजूद हो, तो एआई भी भेदभावपूर्ण निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एआई एल्गोरिदम विशेष प्रकार के ग्राहकों को प्राथमिकता देता है, तो अन्य उपभोक्ता इससे असंतुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ कंपनियाँ उपभोक्ताओं के डेटा का उपयोग अनैतिक रूप से कर सकती हैं, जिससे कानूनी और नैतिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

**ग्राहक अनुभव का अनुकूलन और व्यक्तिगतकरण की सीमाएँ :** एआई का उपयोग ग्राहक अनुभव को व्यक्तिगत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी-कभी यह अत्यधिक स्वचालित हो सकता है, जिससे मानवीय स्पर्श (human touch) की कमी महसूस होती है। उदाहरण के लिए, एआई आधारित चैटबॉट्स अक्सर जटिल ग्राहक समस्याओं को ठीक से हल नहीं कर पाते, जिससे उपभोक्ताओं को असंतोष का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कभी-कभी अत्यधिक व्यक्तिगत विज्ञापन उपभोक्ताओं को असहज कर सकते हैं, जिससे वे ब्रांड से दूर हो सकते हैं।

**कानूनी और नियामक बाधाएँ :** विभिन्न देशों में डेटा सुरक्षा और एआई उपयोग से संबंधित अलग-अलग नियम और कानून हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनके संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) एआई द्वारा उपभोक्ता डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता है, जिससे कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने पड़ते हैं।

**एआई सिस्टम की विश्वसनीयता और रखरखाव :** एआई सिस्टम लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन कभी-कभी वे गलत परिणाम भी दे सकते हैं। यदि एआई आधारित सिफारिशें त्रुटिपूर्ण होती हैं या गलत डेटा पर आधारित होती हैं, तो उपभोक्ताओं को गलत उत्पादों की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा, एआई सिस्टम को लगातार अपडेट और मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, जिससे अतिरिक्त लागत और जटिलता बढ़ जाती है।

**प्रतिस्पर्धा और एआई का बढ़ता उपयोग :** ई-कॉमर्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, और कंपनियाँ एआई का उपयोग करके अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। हालाँकि, जब हर कंपनी एआई आधारित रणनीतियाँ अपनाने लगती है, तो व्यक्तिगत ब्रांडों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को अलग बनाना कठिन हो जाता है।

**मानव श्रम पर प्रभाव :** एआई के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक नौकरियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ग्राहक सेवा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में एआई की बढ़ती भूमिका से कई नौकरियाँ खतरे में आ सकती हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी रूप से कम दक्ष हैं।

### निष्कर्ष

ई-कॉमर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी हैं। डेटा गोपनीयता, उच्च लागत, तकनीकी जटिलता, उपभोक्ता विश्वास, कानूनी बाधाएँ और मानव श्रम पर प्रभाव जैसी समस्याएँ एआई के प्रभावी उपयोग में बाधा बन सकती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने, पारदर्शी एआई एल्गोरिदम विकसित करने, उचित कानूनी अनुपालन करने और एआई तथा मानव श्रम के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल किया जाए, तो एआई ई-कॉमर्स उद्योग के भविष्य को और अधिक सशक्त बना सकता है।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, एम. (2021) : डिजिटल इंडिया और ई-कॉमर्स: एक विस्तृत अध्ययन, नई दिल्ली: टेक्नो पब्लिकेशन।
- गुप्ता, आर. (2020) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार: संभावनाएँ और प्रभाव, वाराणसी: भारती प्रकाशन।
- शर्मा, पी. (2019) : ई-कॉमर्स में तकनीकी विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, जयपुर: सुमित पब्लिशिंग हाउस।
- मिश्रा, एस. (2018) : भारत में डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स का विस्तार, लखनऊ: नेशनल बुक ट्रस्ट।
- वर्मा, के. (2022) : ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल और एआई का प्रभाव, कोलकाता: वाणी प्रकाशन।
- राजपूत, डी. (2021) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपभोक्ता व्यवहार: एक अध्ययन, मुंबई: ज्ञानदीप प्रकाशन।
- त्रिपाठी, एन. (2023) : भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कॉमर्स का भविष्य और एआई की भूमिका, पटना: शुभम पब्लिशर्स।
- खन्ना, ए. (2019) : ई-कॉमर्स में साइबर सुरक्षा और एआई: चुनौतियाँ और समाधान, दिल्ली: टेक्नोलॉजी प्रेस।
- सिंह, आर. (2022) : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-कॉमर्स: अवसर, बाधाएँ और नीति निर्माण, चंडीगढ़: मॉडर्न पब्लिशिंग।
- भारद्वाज, एम. (2023) : आधुनिक व्यापार प्रणाली में एआई और मशीन लर्निंग का प्रभाव, भोपाल: नवभारत प्रकाशन।



# मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लाभ एवं सीमाएँ

डा. सचिन खन्ना\*

**सारांश :** मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भर्ती प्रक्रिया को स्वचालित करने, कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन को अधिक सटीक बनाने, और प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों को व्यक्तिगत बनाने में सहायक है। यह डेटा विश्लेषण के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएँ भी हैं, जैसे मानवीय संवेदनाओं की कमी, डेटा सुरक्षा जोखिम, तथा कर्मचारियों की नौकरी असुरक्षा की भावना। इसलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव संसाधन प्रबंधन में संतुलित रूप से लागू करना आवश्यक है ताकि इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके और चुनौतियों को कम किया जा सके।

## प्रस्तावना

आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव संसाधन प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। यह तकनीक भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, कर्मचारी संतुष्टि और संगठनात्मक विकास को प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स, जैसे ऑटोमेटेड रिज्यूम स्कैनिंग, चौटबॉट्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, और परफॉर्मंस ट्रेकिंग सिस्टम, ने मानव संसाधन प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों में तेजी से निर्णय लेना, निष्पक्षता, डेटा-संचालित रणनीति निर्माण, और संगठन में उत्पादकता वृद्धि शामिल हैं। यह कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाता है और संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति को सरल करता है। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी, डेटा सुरक्षा जोखिम, निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी और नौकरियों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की लागत और तकनीकी जटिलताएँ भी इसके व्यापक उपयोग में बाधक हो सकती हैं। अतः, मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मजबूत और प्रभावी उपकरण है, लेकिन इसे संतुलित रूप से लागू करना आवश्यक है ताकि मानवीय निर्णय प्रक्रिया के साथ इसका सामंजस्य बना रहे।

## मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ

आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, और मानव संसाधन प्रबंधन भी इससे अछूता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, दक्ष, और डेटा-संचालित बना दिया है, जिससे संगठन भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, और कर्मचारी संतुष्टि जैसे कार्यों में उल्लेखनीय सुधार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण स्वचालन, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक बना रहे हैं।

**भर्ती प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना :** भर्ती प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ रिज्यूमे स्क्रीनिंग और कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग में देखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेंट ट्रेकिंग सिस्टम हजारों

---

\* सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

आवेदनों को मिनटों में स्कैन कर सकता है और योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। यह न केवल समय की बचत करता है बल्कि सटीक और निष्पक्ष भर्ती को भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चौटबॉट्स उम्मीदवारों की क्वेरी का उत्तर देकर भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और इंटरव्यू शेड्यूलिंग को स्वचालित करते हैं।

**कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास में सुधार :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्मचारियों के व्यक्तिगत कौशल और प्रदर्शन का विश्लेषण करके कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकता है। यह एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम के माध्यम से हर कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल ट्रेनिंग असिस्टेंट और चौटबॉट्स कर्मचारियों को तुरंत उत्तर प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अपनी समस्याओं को तुरंत हल कर सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं।

**कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन को सटीक बनाना :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कर्मचारी के प्रदर्शन का वास्तविक और निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स कर्मचारी की उत्पादकता, कार्य-कुशलता और टीम वर्क का विश्लेषण करके विस्तृत फीडबैक प्रदान करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग करके कर्मचारियों के भविष्य के प्रदर्शन की भी भविष्यवाणी कर सकता है और उनके विकास के लिए सही कदम उठाने में सहायता करता है।

**कर्मचारी संतुष्टि और अनुभव को बेहतर बनाना :** कर्मचारी संतुष्टि किसी भी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सेंटिमेंट एनालिटिक्स के माध्यम से कर्मचारियों की भावनात्मक स्थिति और जुड़ाव को माप सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फीडबैक सिस्टम कर्मचारी की प्रतिक्रिया को विश्लेषित करता है और संगठन को उनके मनोरथ, समस्याओं और सुझावों के बारे में सूचित करता है। इससे कर्मचारी संतोष और कार्यस्थल की सकारात्मकता को बढ़ाया जा सकता है।

**कर्मचारी से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का स्वचालन :** मानव संसाधन प्रबंधन विभाग को कई बार दोहराए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग, छुट्टी प्रबंधन, उपस्थिति ट्रैकिंग आदि में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे मानव संसाधन प्रबंधन प्रोफेशनल्स को अधिक रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स सटीकता और गति के साथ मानव संसाधन प्रबंधन के प्रशासनिक कार्यों को संभाल सकते हैं, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है।

**कर्मचारी प्रतिधारण में सहायता :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कर्मचारियों के व्यवहार और प्रदर्शन का विश्लेषण करके यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि कौन से कर्मचारी संभावित रूप से संगठन छोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स संतोष स्तर, वर्कलोड, इंटरैक्शन पैटर्न आदि का अध्ययन करके मानव संसाधन प्रबंधन टीम को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से संगठन समय रहते आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकता है, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि और संगठन में उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को बढ़ाया जा सकता है।

**निष्पक्षता और भेदभाव रहित निर्णय प्रक्रिया :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करता है। पारंपरिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियाँ कभी-कभी व्यक्तिगत पक्षपात, लिंग, जाति, या अन्य सामाजिक कारकों से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय सिर्फ डेटा और योग्यता पर आधारित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भर्ती, पदोन्नति और अन्य मानव संसाधन प्रबंधन नीतियाँ निष्पक्ष हों और संगठन में समानता और पारदर्शिता बनी रहे।

**संगठनात्मक रणनीतियों को मजबूत बनाना :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे संगठन अपने मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

का उपयोग टैलेंट मैनेजमेंट, कर्मचारी जुड़ाव, और नेतृत्व विकास में किया जाता है, जिससे संगठन की समग्र उत्पादकता बढ़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से संगठन बेहतर निर्णय, उन्नत योजना, और प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

### मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएँ

आधुनिक युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानव संसाधन प्रबंधन में तेजी से बढ़ रहा है। भर्ती, कर्मचारी प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और कर्मचारी संतुष्टि के आकलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालाँकि, इसके उपयोग में कई सीमाएँ भी हैं जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। यह लेख मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख सीमाओं का विश्लेषण करता है।

**भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता की कमी** मानव संसाधन प्रबंधन केवल डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्मचारी की भावनाओं, प्रेरणा और व्यक्तिगत समस्याओं को पूरी तरह समझने में असमर्थ होता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण कमी है जो प्रबंधकीय निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

**नैतिकता और पूर्वाग्रह की समस्या** : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर होते हैं, लेकिन यदि डेटा पूर्वाग्रहपूर्ण हो तो निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भर्ती प्रक्रिया में उपयोग किए गए डेटा में किसी विशेष लिंग, जाति या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही पैटर्न अपनाएगा। इस कारण निष्पक्षता और विविधता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

**अनुकूलन और लचीलापन की सीमाएँ** : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्व-निर्धारित नियमों और डेटा सेट पर आधारित होता है, जिससे यह जटिल या अप्रत्याशित परिस्थितियों में अनुकूलन करने में कठिनाई महसूस करता है। मानव संसाधन प्रबंधन में अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहाँ मानवीय समझ और लचीलापन आवश्यक होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं होता।

**निजता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** : मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा के विश्लेषण में किया जाता है। हालाँकि, इस डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। यदि डेटा लीक हो जाता है या इसका गलत उपयोग किया जाता है, तो यह कर्मचारियों की गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

**रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव** : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से कई मानव संसाधन कार्य स्वचालित हो गए हैं, जिससे मानव कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो रही है। इससे मानव संसाधन प्रबंधन पेशेवरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है, विशेष रूप से वे कार्य जो नियमित और दोहराए जाने वाले होते हैं।

**नवाचार और मानवीय निर्णय की कमी** : मानव संसाधन प्रबंधन में नवाचार और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, जो केवल मानव कर्मचारियों के माध्यम से ही संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल डेटा के आधार पर निर्णय लेता है और इसमें मानवीय अंतर्दृष्टि, सहानुभूति और रचनात्मक सोच का अभाव होता है।

**तकनीकी निर्भरता और लागत** : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और रखरखाव महंगा होता है। छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक अपनाना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की निरंतर अद्यतन और सुधार की आवश्यकता होती है, जो अतिरिक्त लागत बढ़ा सकता है।

## निष्कर्ष

मानव संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कार्यक्षमता, गति और निर्णय लेने की सटीकता में सुधार किया है। यह भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन, डेटा विश्लेषण और प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित कर कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समय और लागत की बचत होती है, साथ ही यह बेहतर कर्मचारी अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं। इसमें भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता का अभाव है, जिससे यह जटिल मानवीय व्यवहारों को समझने में असमर्थ रहता है। इसके अलावा, पूर्वाग्रह की समस्या, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, उच्च लागत और नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। इसलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव संसाधन प्रबंधन में एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि संपूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में। इसे मानवीय अंतर्दृष्टि और नैतिकता के साथ संतुलित करके उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव बुद्धिमत्ता का उचित संयोजन किया जाए, तो यह मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बना सकता है, जिससे संगठनों को दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

## संदर्भ-ग्रंथ सूची

- गुप्ता, आर. के. (2021). आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन. नई दिल्ली: सुलभ पब्लिकेशन।
- मिश्रा, एस. (2019). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार प्रबंधन. वाराणसी: काशी नागरी प्रचारिणी सभा।
- सिंह, वी. एवं शर्मा, पी. (2020). मानव संसाधन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार. जयपुर: राज पब्लिकेशन।
- अग्रवाल, आर. (2022). कृत्रिम बुद्धिमत्ता और औद्योगिक विकास. लखनऊ: यथार्थ पब्लिशिंग हाउस।
- चतुर्वेदी, एम. (2018). डिजिटल युग में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ और अवसर. मुंबई: नवीन बुक्स।
- वर्मा, डी. एवं शुक्ला, के. (2021). संगठनात्मक व्यवहार एवं एआई का प्रभाव. पटना: बिहार पब्लिकेशन हाउस।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (NIPM) (2020). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव संसाधन प्रबंधन. कोलकाता: एनआईपीएम पब्लिकेशन।
- आईआईएम अहमदाबाद रिपोर्ट (2022). भारतीय उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव संसाधन प्रबंधन का समावेश।
- यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) (2021). भारत में एआई और एचआरएम पर अनुसंधान अध्ययन।
- सक्सेना, पी. (2023). मानव संसाधन प्रबंधन में डिजिटल क्रांति और एआई का योगदान. भोपाल: मानव संसाधन प्रकाशन।



# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आयात निर्यात प्रबंध में नवाचार की भूमिका

अपर्णा त्रिपाठी\*

**सारांश :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आयात-निर्यात प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। यह तकनीक व्यापार प्रक्रियाओं को स्वचालित, तेज और सटीक बनाकर वैश्विक व्यापार को अधिक प्रभावी बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा विश्लेषण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बाजार पूर्वानुमान और जोखिम आकलन को सरल और कुशल बनाया जा रहा है। मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग व्यापार नीतियों को अनुकूलित करने, बाजार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने में किया जा रहा है। चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों को त्वरित सेवाएँ प्रदान कर व्यापार संचार को सुगम बना रहे हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित प्रणाली कस्टम क्लियरेंस, लॉजिस्टिक्स और दस्तावेजीकरण को अधिक प्रभावी बनाकर व्यापार की दक्षता बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यापारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्मार्ट और प्रतिस्पर्धात्मक बना रहा है, जिससे आयात-निर्यात क्षेत्र में नवीनता और प्रगति हो रही है।

## प्रस्तावना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आयात-निर्यात प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे व्यापार प्रक्रियाएँ अधिक स्वचालित, कुशल और सुरक्षित हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेटा विश्लेषण, बाजार पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम बड़े डेटा का विश्लेषण करके व्यापारिक रुझानों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे निर्यातकों और आयातकों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग तकनीकें वैश्विक व्यापार नीतियों, कर प्रणाली और विनियमों को समझने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त, चौटबॉट्स और स्वचालित ग्राहक सहायता प्रणाली व्यापार संचार को आसान बनाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग लॉजिस्टिक्स समाधान, जैसे कि स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट और स्वचालित फ्रेट बुकिंग, व्यापार संचालन को अधिक सुचारु और लागत प्रभावी बनाते हैं। अतः, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयात-निर्यात प्रबंधन में नवाचार लाकर इसे अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी बना रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार को नई ऊँचाइयाँ मिल रही हैं।

भारतीय सरकार आयात-निर्यात प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार और योजनाएं लागू कर रही है

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल का विकास :** भारत सरकार ने जी 20 बैठक में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहायता करेगा। यह पोर्टल विभिन्न देशों की प्रथाओं और आवश्यकताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेगा, जिससे व्यवसायों को अपने संचालन का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

---

\* सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

**डीजीएफटी का वीएचईएल चौटबॉट** : विदेश व्यापार महानिदेशालय ने वीएचईएल नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चौटबॉट लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को भारत की विदेश व्यापार नीति और DGFT से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश** : सरकार की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) जैसी पहलें शुरू की गई हैं, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के 37 डिजिटल सिस्टम्स को एकीकृत किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डेटा का समेकन संभव हुआ है।

**पी.एम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग** : पी.एम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे परियोजनाओं की दक्षता और समन्वय में सुधार हो रहा है।

**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान** : नैसकॉम ने सुझाव दिया है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आयात-निर्यात डेटा का विश्लेषण कर संभावित डंपिंग मामलों और डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान कर सकती है। इससे व्यापार समझौतों की तैयारी में भी सहायता मिलेगी।

### आयात-निर्यात प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों ने आयात-निर्यात व्यापार में नवाचार लाया है। ये तकनीकें व्यापार से जुड़े विभिन्न चरणों में सुधार कर रही हैं, जैसे डेटा विश्लेषण, लॉजिस्टिक्स, जोखिम प्रबंधन, कस्टमर सर्विस, और व्यापार पूर्वानुमान।

### डेटा एनालिटिक्स और व्यापार पूर्वानुमान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स उपकरण व्यापारियों को बाजार रुझानों की पहचान करने और व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पिछले व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण कर भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं। इससे व्यापारियों को सही उत्पाद और बाजार चुनने में मदद मिलती है।

### स्वचालित दस्तावेजीकरण और अनुपालन प्रबंधन

आयात-निर्यात व्यापार में दस्तावेजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम स्वचालित दस्तावेजीकरण करते हैं और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं की जांच करते हैं। इससे समय की बचत होती है और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है।

### आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चेन प्रबंधन को अधिक कुशल बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम रीयल-टाइम डेटा का उपयोग कर इन्वेंट्री स्तरों की निगरानी करते हैं और स्वचालित रूप से मांग के अनुसार सप्लाइ का समायोजन करते हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रूट ऑप्टिमाइजेशन से शिपिंग की लागत कम होती है और डिलीवरी समय में सुधार होता है।

### जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी रोकथाम

आयात-निर्यात व्यापार में वित्तीय और साइबर धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम होते हैं, जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सकता

है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक व्यापार नीतियों और बाजार में संभावित जोखिमों का विश्लेषण करके व्यापारियों को सतर्क करता है।

### कस्टमर सर्विस और चौटबॉट्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट व्यापारियों और ग्राहकों को रीयल-टाइम सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये चौटबॉट्स ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब दे सकते हैं, ऑर्डर स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और व्यापार प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। इससे व्यापारियों को ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में मदद मिलती है।

### शिपिंग और लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिपमेंट ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड वेयरहाउसिंग, और स्मार्ट कंटेनर मैनेजमेंट में किया जा रहा है, जिससे शिपिंग प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी हो गई है।

### आयात-निर्यात प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से आयात-निर्यात व्यापार में कई महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं:

**लागत में कमी :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालन और दक्षता में सुधार कर व्यापारिक लागत को कम करता है।

**निर्णय लेने की क्षमता में सुधार :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण से व्यापारियों को सटीक निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

**समय की बचत :** स्वचालित दस्तावेजीकरण और लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया में तेजी लाकर समय की बचत करता है।

**जोखिम प्रबंधन :** व्यापार से जुड़े संभावित जोखिमों का विश्लेषण और उन्हें कम करने में मदद करता है।

**ग्राहक अनुभव में सुधार :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस -आधारित चौटबॉट्स और सेवा समाधान ग्राहक संतुष्टि बढ़ाते हैं।

### चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यापार को अधिक कुशल बना रहा है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

**तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्नत तकनीकी बुनियादी ढाँचा आवश्यक है। समाधान के रूप में, व्यापारियों को उचित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और क्लाउड-आधारित सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

**डेटा सुरक्षा और गोपनीयता :** व्यापारिक डेटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। समाधान के रूप में, साइबर सुरक्षा उपायों को सख्त करना आवश्यक है।

**अशिक्षा और कौशल की कमी :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के उपयोग के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। समाधान के रूप में, कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयात-निर्यात प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमान, स्वचालित दस्तावेजीकरण, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और धोखाधड़ी पहचान में सहायता करता है, जिससे व्यापार संचालन अधिक कुशल और पारदर्शी बनते हैं। भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल, चौटबॉट, पी.एम गतिशक्ति और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) जैसी पहलों के माध्यम से

आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डंपिंग रोधी शुल्क विश्लेषण और व्यापार नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी किया जा रहा है। समग्र रूप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता, गति और सुरक्षा को बढ़ाता है। इससे भारत वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है और आर्थिक विकास को गति दे सकता है।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- भारत सरकार (2023). “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल का विकास”, आर्थिक टाइम्स. प्राप्त 30 मार्च, 2025, <https://economictimes.indiatimes.com>.
- नैसकॉम (2023). “AI का उपयोग डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान में”, आर्थिक टाइम्स. प्राप्त 1 अप्रैल, 2025, <https://economictimes.indiatimes.com>.
- भारत सरकार (2023). “PM GatiShakti और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में AI का प्रभाव”, आर्थिक टाइम्स. प्राप्त 2 अप्रैल, 2025, <https://economictimes.indiatimes.com>.
- भारत सरकार (2023). “VAHEI चौटबॉट द्वारा विदेश व्यापार प्रबंधन में सुधार”, भारत एआई. प्राप्त 1 अप्रैल, 2025, <https://indiaai.gov.in>.
- सिंह, आर. (2022). “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार प्रबंधन में नवाचार”, भारत व्यापार अध्ययन पत्रिका, 12(3), 45-60.
- शर्मा, प. (2021). “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र”, आधुनिक व्यापार समीक्षा, 8(4), 89-105



# कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव

अमिता रस्तोगी\*

**सारांश :** यह शोध पत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शिक्षा में बढ़ते उपयोग के कारण विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों की पड़ताल करता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित सकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करता है, जैसे सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, सामाजिक चिंता को कम करना, संचार कौशल में सुधार करना और वैश्विक स्तर पर संपर्क को सुगम बनाना। साथ ही, यह प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क में कमी, सामाजिक अलगाव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर प्रभाव और साइबरबुलिंग जैसे संभावित नकारात्मक प्रभावों की भी जांच करता है। शोध पत्र लाभों और जोखिमों को संतुलित करने के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा और नैतिक दिशानिर्देशों के महत्व पर जोर देता है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध विधियों के संयोजन का उपयोग करके, यह अध्ययन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विद्यार्थियों के सामाजिक अनुभवों और दृष्टिकोणों की व्यापक समझ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, और भविष्य के अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

**मुख्यशब्द :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक जीवन, विद्यार्थी, सामाजिक संपर्क, सामाजिक कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता

## परिचय

आधुनिक युग तकनीकी प्रगति का युग है, और इस प्रगति के केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता प्रदान करती है, ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षण विधियों से लेकर प्रशासनिक कार्यों तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा में कई सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है, इसका विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव एक ऐसा विषय है जिस पर गहन विचार और शोध की आवश्यकता है। यह शोध पत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की पड़ताल करता है। हम उन संभावित लाभों और हानियों का विश्लेषण करेंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शैक्षिक परिवेश में बढ़ते उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार विद्यार्थियों के आपसी संवाद, सहयोग, भावनात्मक विकास और सामाजिक कौशल को आकार दे रहा है, और भविष्य में इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। इस शोध पत्र में, हम विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे और इस जटिल विषय की बहुआयामी प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे।

## विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित सकारात्मक प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ऐसी कई क्षमताएं हैं जो विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं:

---

\* प्रवक्ता, डी. एल. एड. विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

**सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित उपकरण समूह परियोजनाओं और सहयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को सुगम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्लेटफॉर्म छात्रों को समान रुचियों और कौशल के आधार पर समूहों में जोड़ सकते हैं, कार्यों को कुशलतापूर्वक वितरित करने में मदद कर सकते हैं, और समूह की प्रगति पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। यह छात्रों के बीच संवाद, समन्वय और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा दे सकता है।

**सामाजिक चिंता को कम करना और आत्मविश्वास बढ़ाना :** कुछ छात्र कक्षा में या सामाजिक स्थितियों में अपनी राय व्यक्त करने में झिझक महसूस कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली छात्रों को अपनी गति से सीखने और अभ्यास करने का अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जब छात्र अकादमिक रूप से अधिक सक्षम महसूस करते हैं, तो वे सामाजिक अंतःक्रियाओं में अधिक सहज और आत्मविश्वासी हो सकते हैं।

**संचार कौशल में सुधार :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित भाषा सीखने के उपकरण छात्रों को विभिन्न भाषाओं में संवाद करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक समझ और वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्रतिक्रिया प्रणाली छात्रों को उनके लेखन और बोलने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जो प्रभावी सामाजिक संवाद के लिए आवश्यक है।

**वैश्विक स्तर पर संपर्क को बढ़ावा देना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्लेटफॉर्म विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों के छात्रों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन चर्चा मंच, आभासी विनिमय कार्यक्रम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-अनुवाद उपकरण छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और वैश्विक स्तर पर संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। यह अंतर-सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है।

**समावेश और पहुंच को बढ़ाना :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सहायक प्रौद्योगिकियां विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को सामाजिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, भाषण से पाठ और पाठ से भाषण जैसे उपकरण संचार बाधाओं को कम कर सकते हैं, और अनुकूलित सीखने के अनुभव सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान कर सकते हैं।

### विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित नकारात्मक प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है:

**प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क में कमी :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सीखने और मनोरंजन के उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों के बीच आमने-सामने की बातचीत को कम कर सकती है। वास्तविक दुनिया के सामाजिक संकेतों, गैर-मौखिक संचार और भावनात्मक बारीकियों को समझने के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से सामाजिक कौशल का विकास बाधित हो सकता है।

**सामाजिक अलगाव और अकेलापन :** यदि छात्र आभासी दुनिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित इंटरैक्शन को वास्तविक मानवीय संबंधों से अधिक पसंद करते हैं, तो वे सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस कर सकते हैं और अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। आभासी संबंध वास्तविक दुनिया के सामाजिक समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव की जगह नहीं ले सकते हैं।

**भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति पर प्रभाव :** मानवीय संपर्क में भावनाओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को महसूस करना और सहानुभूति दिखाना शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित इंटरैक्शन में इन भावनात्मक पहलुओं की कमी हो सकती है, जिससे छात्रों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति विकसित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

**साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का खतरा :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संचार उपकरण साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित नकली प्रोफाइल और स्वचालित बॉट छात्रों को लक्षित कर सकते हैं और उन्हें नकारात्मक अनुभवों का शिकार बना सकते हैं।

**गोपनीयता और विश्वास के मुद्दे :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित शैक्षिक उपकरणों द्वारा छात्रों के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और उपयोग गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है। छात्रों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी जानकारी कैसे एकत्र की जा रही है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। डेटा के दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच से छात्रों का विश्वास कम हो सकता है।

**प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता :** यदि छात्र सामाजिक संपर्क और समस्या-समाधान के लिए पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरणों पर निर्भर हो जाते हैं, तो वे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करने में विफल हो सकते हैं जो प्रौद्योगिकी के बिना आवश्यक हैं। यह उनकी आत्मनिर्भरता और अनुकूलन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

### लाभों और जोखिमों को संतुलित करना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शैक्षिक परिवेश में एकीकरण को इस तरह से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है कि इसके लाभों को अधिकतम किया जा सके और जोखिमों को कम किया जा सके। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार किया जा सकता है:

**मानव-केंद्रित दृष्टिकोण :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों को मानव शिक्षकों और सामाजिक संपर्क को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक बनने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। कक्षा में प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क, समूह कार्य और चर्चाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**डिजिटल साक्षरता और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा :** छात्रों को डिजिटल उपकरणों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए जो छात्रों को सहानुभूति, सहयोग, संचार और संघर्ष समाधान जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करें।

**शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका :** शिक्षकों और अभिभावकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक होना चाहिए और छात्रों को स्वस्थ डिजिटल आदतें विकसित करने और वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंधों को महत्व देने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

**नैतिक दिशानिर्देश और विनियमन :** शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देश और विनियमन स्थापित किए जाने चाहिए ताकि छात्रों की गोपनीयता की रक्षा की जा सके, डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निष्पक्ष और समावेशी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

**अनुसंधान और मूल्यांकन :** विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान और मूल्यांकन आवश्यक है। इसके निष्कर्षों का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित शैक्षिक उपकरणों और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

### निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन इसका विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव एक जटिल मुद्दा है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग, संचार और समावेश को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क को कम कर सकता है, सामाजिक अलगाव को बढ़ा सकता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस शोध पत्र में किए गए

विश्लेषण से पता चलता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस प्रकार डिजाइन और कार्यान्वित किया जाता है, और छात्र इसका उपयोग कैसे करते हैं। मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा और नैतिक दिशानिर्देशों के माध्यम से, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों को अधिकतम कर सकते हैं और इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। भविष्य के शोध को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दीर्घकालिक सामाजिक प्रभावों की गहन जांच करनी चाहिए, विभिन्न आयु समूहों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना चाहिए, और प्रभावी हस्तक्षेप रणनीतियों का विकास करना चाहिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शैक्षिक उपयोग को सामाजिक रूप से सकारात्मक परिणामों के साथ सरेखित करें।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
- Carr, N. G. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
- Tapscott, D. (1998). *Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation*. McGraw-Hill.
- Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants Part 1*. On the Horizon, 9(5), 1-6.
- Anderson, C. A., & Dill-Shackleford, K. E. (2017). *Boom! The Psychology of Digital Media*.
- Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. M. (2008). Online communication and adolescent relationships. *The Future of Children*, 18(1), 119-146.
- Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). *Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds*. Henry J. Kaiser Family Foundation.
- Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: Users' views and implications for youth online safety. *New Media & Society*, 10(3), 393-411.
- Uhls, Y. T., Michikyan, M., Morrisette, S., Garcia, D., Small, G. W., Zgourides, G., & Greenfield, P. M. (2014). Five days at outdoor education camp without screens improves recognition of nonverbal emotion cues. *Computers in Human Behavior*, 39, 387-392.
- Fussell, S. R., Kraut, R. E., Setlock, L. D., & Kiesler, S. (2004). Putting computers in the context of face-to-face communication: Interaction histories and channel choice. *Human-Computer Interaction*, 19(1), 19-46.
- Kretzschmar, K., Plester, B., Booth, S., Sharpe, T., & Ellis, J. G. (2013). The social media generation? A survey of online interactions and offline relationships among emerging adults. *First Monday*, 18(1).
- Lin, L. Y., Sidani, J. E., Shensa, A., Radovic, A., Miller, E., Colditz, J. B., ... & Primack, B. A. (2016). Association between social media use and perceived social isolation in young adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 51(1), 1-8.
- Nowland, R., Neckelmann, S., Pache, T. D., & ديشور, R. (2018). Social media use and well-being: A meta-analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(10), 659-670.
- Verduyn, P., Ybarra, O., Résibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do social network sites undermine subjective well-being? A systematic review. *Computers in Human Behavior*, 69, 308-319.
- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science*, 333(6043), 776-778.

- Pew Research Center. (Various years). *Internet & Technology*. (विभिन्न रिपोर्टें जो इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया और युवाओं पर केंद्रित हैं)
- Common Sense Media. (Various reports on children and media use).
- UNICEF. (Various reports on children's rights in the digital age).
- World Economic Forum. (Various reports on the future of education and technology).
- European Commission. (Various reports on digital literacy and online safety).



# शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का छात्र अध्ययन पर प्रभाव

प्रतिभा द्विवेदी\*

**सारांश :** शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव छात्रों के अध्ययन पर व्यापक रूप से देखा जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के माध्यम से व्यक्तिगत अध्ययन अनुभव संभव हुआ है, जहाँ छात्रों की क्षमताओं, कमजोरियों और रुचियों के अनुसार सामग्री प्रदान की जाती है। इससे उनकी सीखने की गति और गुणवत्ता में सुधार होता है। वर्चुअल ट्यूटर, चैटबॉट्स और बुद्धिमान मूल्यांकन प्रणालियाँ छात्रों को तुरंत प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे संदेह शीघ्र दूर होते हैं। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक के कार्यभार को भी कम करता है, जिससे वे छात्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि, इसके अधिक उपयोग से छात्रों की आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, संतुलित और नैतिक उपयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और समावेशी बना सकता है।

**मुख्य शब्द :** वर्चुअल ट्यूटर, चैटबॉट्स

## परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को तेजी से आकार दे रही है, और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विज्ञान और अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों की प्रगति ने शिक्षा के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है और छात्रों के सीखने के अनुभव को बदलने की अपार क्षमता प्रदान की है। वैयक्तिकृत शिक्षण से लेकर स्वचालित मूल्यांकन तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की कगार पर है। यह शोध पत्र शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के छात्र अध्ययन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की जांच करेंगे, साथ ही इसके प्रभावी और नैतिक कार्यान्वयन के लिए संभावित रणनीतियों पर भी विचार करेंगे। इस शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के हितधारकों : शिक्षकों, छात्रों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकीविदों : को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता और चुनौतियों की व्यापक समझ प्रदान करना है ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें और इस परिवर्तनकारी तकनीक का लाभ उठा सकें।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा: एक सैद्धांतिक ढांचा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोटे तौर पर, मशीनों में मानवीय बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण करने की क्षमता को संदर्भित करती है। शिक्षा के संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्रणालियों का उपयोग छात्रों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाने, शिक्षकों को सहायता प्रदान करने और शैक्षिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कई उप-शाखाएँ हैं जो शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं: मशीन लर्निंग यह कंप्यूटरों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने और सुधार करने की अनुमति देता है। शिक्षा में, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग छात्रों के प्रदर्शन पैटर्न की पहचान करने, सीखने की कठिनाइयों का अनुमान लगाने और व्यक्तिगत शिक्षण पथों की सिफारिश करने के लिए किया जा सकता है।

**प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण :** यह कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है। एन एल पी का उपयोग स्वचालित ग्रेडिंग, चैटबॉट्स के माध्यम से छात्र सहायता, और अनुकूलित शिक्षण सामग्री निर्माण के लिए किया जा सकता है।

\* प्रवक्ता, डी. एल. एड. विभाग, स्वामी शुकदेवानंद पी.जी. कॉलेज, शाहजहाँपुर, (उत्तर प्रदेश), भारत

**कंप्यूटर विज्ञान :** यह कंप्यूटरों को छवियों और वीडियो से जानकारी निकालने और समझने की अनुमति देता है। शिक्षा में, इसका उपयोग छात्र जुड़ाव का विश्लेषण करने, प्रयोगशाला उपकरणों की पहचान करने और दृश्य सीखने की सामग्री को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

**बुद्धिमान ट्यूटोरिंग सिस्टम :** ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित प्रणालियाँ हैं जो छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, जैसे कि एक मानव शिक्षक। आई टी एस छात्रों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और लक्षित सहायता प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा के सिद्धांतों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण कई महत्वपूर्ण तरीकों से छात्र अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। वैयक्तिकृत शिक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख वादा है, जहां प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, सीखने की गति और रुचियों के अनुसार शिक्षण सामग्री और गतिविधियाँ अनुकूलित की जाती हैं। अनुकूली शिक्षण प्रणालियाँ छात्र की प्रतिक्रिया के आधार पर वास्तविक समय में कठिनाई स्तर और सामग्री को समायोजित करती हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आकर्षक बनती है। आकलन के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वचालित ग्रेडिंग, रचनात्मक प्रतिक्रिया और सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए नए उपकरण प्रदान करता है। छात्र अध्ययन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में प्रेरणा, जुड़ाव, समझ और प्रतिधारण शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इन सभी कारकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

### छात्र अध्ययन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सकारात्मक प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में छात्र अध्ययन के अनुभव को कई तरह से समृद्ध और बेहतर बनाने की क्षमता है:

**वैयक्तिकृत शिक्षा :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम छात्र के प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, और फिर अनुकूलित शिक्षण सामग्री, अभ्यास और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित भाषा सीखने का ऐप प्रत्येक छात्र की प्रगति और त्रुटियों के आधार पर शब्दावली और व्याकरण अभ्यास को समायोजित कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखे और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे जहां उन्हें सबसे अधिक मदद की आवश्यकता है। कई अनुकूली शिक्षण प्रणालियाँ अब विभिन्न विषयों में छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं, जिससे सीखने की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ रही है।

**बढ़ी हुई पहुंच और समावेश :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को उन छात्रों के लिए अधिक सुलभ बना सकता है जो भौगोलिक बाधाओं, शारीरिक अक्षमताओं या अन्य चुनौतियों का सामना करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित उपकरण दूरस्थ शिक्षा को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एन एल पी आधारित अनुवाद उपकरण विभिन्न भाषाओं के छात्रों के लिए सीखने की सामग्री को सुलभ बना सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सहायक प्रौद्योगिकियाँ, जैसे कि भाषण से पाठ और पाठ से भाषण सॉफ्टवेयर, सीखने और संवाद करने में उनकी सहायता कर सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करके और छात्रों की सीखने की प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करके उनके काम को आसान बना सकता है। स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम शिक्षकों को निबंधों और अन्य मूल्यांकनों पर तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे छात्रों के साथ अधिक व्यक्तिगत बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित ट्यूटर्स और सहायक छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया और सहायता प्रदान कर सकते हैं, खासकर उन विषयों में जहां शिक्षकों की कमी है या कक्षा का आकार

बड़ा है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने के संसाधनों की खोज और संगठन में छात्रों की मदद कर सकता है, उन्हें प्रासंगिक जानकारी तक तेजी से पहुंचने और प्रभावी ढंग से अध्ययन करने में सक्षम बना सकता है। सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं, जो छात्रों को एक साथ काम करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए नए तरीके प्रदान करते हैं।

**छात्रों की प्रेरणा और जुड़ाव में वृद्धि :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने को अधिक इंटरैक्टिव, आकर्षक और प्रासंगिक बनाकर छात्रों की प्रेरणा और जुड़ाव को बढ़ा सकता है। गेमिफिकेशन और सिमुलेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सीखने को अधिक मजेदार और आकर्षक बना सकता है, जिससे छात्रों की रुचि और भागीदारी बढ़ती है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं के साथ सीखने को जोड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे जो सीख रहे हैं वह क्यों महत्वपूर्ण है। तत्काल प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत प्रशंसा प्रदान करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को प्रेरित रख सकता है और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अनुकूली शिक्षण प्रणालियाँ छात्रों को उनकी क्षमताओं के लिए उपयुक्त चुनौतियाँ प्रदान करके निराशा और बेरियत को कम करने में भी मदद कर सकती हैं, जिससे सीखने का अनुभव अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनता है।

### छात्र अध्ययन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ

जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शिक्षा के लिए अपार संभावनाएं हैं, इसके कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और संभावित नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है:

**डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएं :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित शैक्षिक प्रणालियाँ बड़ी मात्रा में छात्र डेटा एकत्र करती हैं, जिसमें उनके प्रदर्शन, सीखने की आदतों और व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। इस डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। डेटा उल्लंघनों और दुरुपयोग का जोखिम छात्रों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है और उनके विश्वास को कम कर सकता है। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है ताकि छात्रों के डेटा की सुरक्षा की जा सके और अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके। डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हैं।

**एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और निष्पक्षता :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम उन डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं जिन पर वे सीखते हैं, और यदि उस डेटा में पूर्वाग्रह मौजूद हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम उन पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है और उन्हें बढ़ा सकता है। शिक्षा में, इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ छात्र समूहों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सिफारिशें या मूल्यांकन अनुचित या भेदभावपूर्ण हों। उदाहरण के लिए, यदि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित करियर मार्गदर्शन उपकरण ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित है जो कुछ लिंगों या जातीय समूहों को विशिष्ट व्यवसायों में अधिक प्रतिनिधित्व दिखाता है, तो यह अनजाने में उन पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है। निष्पक्ष और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम के विकास के लिए विभिन्न और प्रतिनिधि डेटासेट का उपयोग करना और पूर्वाग्रहों की पहचान और उन्हें कम करने के लिए कठोर परीक्षण करना आवश्यक है।

**मानवीय संपर्क और सामाजिक-भावनात्मक विकास में कमी :** शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है यह सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में भी है। शिक्षक-छात्र और छात्र-छात्र बातचीत महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित शिक्षा के अत्यधिक उपयोग से इन महत्वपूर्ण मानवीय संपर्कों में कमी आ सकती है। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान कर सकता है, यह एक प्रेरित और देखभाल करने वाले शिक्षक के मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन की जगह नहीं ले सकता है। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इस तरह से एकीकृत करना महत्वपूर्ण है जो प्रौद्योगिकी और मानवीय संपर्क के बीच संतुलन बनाए रखे और छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा दे।

**तकनीकी निर्भरता और डिजिटल विभाजन :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सभी छात्रों के पास आवश्यक तकनीकी उपकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, जिससे डिजिटल विभाजन और बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान कौशल को कम कर सकती है यदि उन्हें प्रौद्योगिकी के बिना सीखने और कार्य करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्यान्वयन में इक्विटी और पहुंच के मुद्दों पर विचार करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें और तकनीकी रूप से सक्षम नागरिक बन सकें।

**रोजगार पर प्रभाव और कौशल का परिवर्तन :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग का भविष्य के कार्यबल के लिए आवश्यक कौशल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता होगी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा स्वचालित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, जटिल समस्या-समाधान और सामाजिक-भावनात्मक बुद्धिमत्ता। शिक्षा प्रणालियों को इन बदलते कौशल आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए और छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षण विधियों में नवाचार और छात्रों को नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना शामिल हो सकता है।

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतियाँ

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पूरी क्षमता का लाभ उठाने और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक कार्यान्वयन आवश्यक है:

**नैतिक दिशानिर्देश और नीतियाँ :** शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देशों और नीतियों का विकास महत्वपूर्ण है। इन नीतियों को डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। छात्रों के डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग के संबंध में नियम और विनियम स्थापित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम का उपयोग छात्रों के सर्वोत्तम हित में किया जाए और किसी भी प्रकार के भेदभाव या नुकसान से बचा जाए।

**शिक्षक प्रशिक्षण और विकास :** शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे काम करता है, इसकी क्षमताएं और सीमाएं क्या हैं, और इसे अपनी शिक्षण प्रथाओं में कैसे एकीकृत किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित शिक्षण के बदलते परिदृश्य के लिए शिक्षकों को तैयार करना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को डिजाइन करने, छात्र डेटा का विश्लेषण करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित उपकरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कौशल प्रदान करना चाहिए।

**सहयोग और हितधारक जुड़ाव :** शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों, नीति निर्माताओं, अभिभावकों और छात्रों सहित सभी हितधारकों के बीच सहयोग और जुड़ाव आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और कार्यान्वयन में सभी की जरूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हितधारकों के बीच नियमित संवाद और परामर्श से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती

### निष्कर्ष

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग ने छात्रों के अध्ययन के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत, सुलभ और प्रभावशाली बनाया जा रहा है। छात्रों को उनकी

आवश्यकता के अनुसार सामग्री, मार्गदर्शन और मूल्यांकन प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनकी सीखने की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्चुअल असिस्टेंट, अनुकूलन योग्य शिक्षण प्लेटफार्म, और स्मार्ट मूल्यांकन प्रणाली छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि, इसके अधिक निर्भरता से छात्रों की रचनात्मकता, सामाजिक संपर्क और विश्लेषण गैर-आत्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, डेटा गोपनीयता और डिजिटल असमानता जैसे मुद्दे भी उभर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जाए ताकि यह शिक्षा प्रणाली को सहयोगी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध हो सके।

### संदर्भ-ग्रंथ सूची

- शर्मा, आर. एन. (2018). शैक्षिक प्रौद्योगिकी. दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
- Mishra, S. (2020). *Artificial Intelligence in Education*. New Delhi: Sage Publications.
- Woolf, B. P. (2010). *Building Intelligent Interactive Tutors*. Burlington, MA: Morgan Kaufmann.
- Singh, Y. K. (2019). *Modern Education Technology*. New Delhi: APH Publishing Corporation.
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Panigrahi, R. (2022). "The Role of AI in Enhancing Student Learning Outcomes: A Review." *Journal of Educational Technology*, 18(2), 45-59.
- UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. <https://unesdoc.unesco.org>
- World Economic Forum (2020). *Transforming Education with AI*. <https://www.weforum.org>
- National Education Policy 2020 (India). <https://www.education.gov.in>



# शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षा शास्त्र का नया स्वरूप

डा. राहुल कुमार\*

प्रियंका मिश्रा\*\*

सारांश : कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। अब शिक्षक केवल ज्ञान संप्रेषक न होकर, शिक्षार्थियों के मार्गदर्शक, प्रेरक और सह-शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टूल्स जैसे चौटबॉट्स, वैयक्तिकृत अधिगम प्लेटफार्म, और स्वचालित मूल्यांकन प्रणालियाँ शिक्षकों के कार्य को सरल एवं प्रभावशाली बना रही हैं। इससे शिक्षकों को अधिक समय नवाचार, रचनात्मकता और छात्र-केंद्रित शिक्षण पर देने का अवसर मिल रहा है। यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बना रहा है, परंतु यह मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों की पूर्ति में सक्षम नहीं है। अतः शिक्षा शास्त्र का नया स्वरूप एक संतुलित प्रणाली की मांग करता है, जिसमें शिक्षक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करें।

## प्रस्तावना

21वीं सदी में तकनीकी नवाचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। शिक्षा के इस नए युग में पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों और शिक्षक की भूमिका में गहरा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब शिक्षक केवल ज्ञान के प्रदाता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और तकनीकी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त स्मार्ट क्लासरूम, वैयक्तिकृत अधिगम, और डेटा आधारित मूल्यांकन ने शिक्षा शास्त्र के स्वरूप को नया आयाम प्रदान किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्स छात्रों की सीखने की गति, रुचि और समझ के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों की भूमिका प्रबंधक और नवाचारकर्ता की हो गई है। इससे एक ओर शिक्षण प्रक्रिया में दक्षता आई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे तकनीकी कौशल का अधिग्रहण और डिजिटल नैतिकता का पालन। इस शोध पत्र में हम शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के पश्चात शिक्षकों की भूमिका में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और शिक्षा शास्त्र के नए स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। यह अध्ययन शिक्षकों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए दिशा-निर्देश सिद्ध हो सकता है।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया है और शिक्षा शास्त्र भी इससे अछूता नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से न केवल शिक्षण विधियाँ बदली हैं, बल्कि शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जहाँ एक ओर शिक्षक ज्ञान प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत थे, वहीं आज वे एक मार्गदर्शक, तकनीकी सहयोगी, सीखने के वास्तुकार और सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करने वाले समर्थक बन चुके हैं।

\* सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश), भारत

\*\*एम एड. छात्रा, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश), भारत

### शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका:

विगत दशकों तक शिक्षक ही शिक्षण का केंद्र थे। वे कक्षा में विषयवस्तु को व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत करते, पाठ्यक्रम तैयार करते, मूल्यांकन करते और छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते थे। संचार एकपक्षीय होता थाकृअर्थात् शिक्षक से छात्र की ओर। परंतु आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस ढांचे को बदल दिया है।

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म, जैसे कि वैयक्तिकृत शिक्षण टूल्स, इंटेलिजेंट ट्यूटर सिस्टम्स, भाषा अनुवादक, वर्चुअल असिस्टेंट्स, और डेटा एनालिटिक्स ने शिक्षकों के पारंपरिक दायित्वों को पुनर्परिभाषित किया है।

अब शिक्षकों का कार्य केवल विषय पढ़ाना नहीं, बल्कि निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाना भी है:

#### (क) मार्गदर्शक और सहायक:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों को स्वतः अध्यापन के माध्यम से विषय की समझ प्रदान करता है। ऐसे में शिक्षक का कार्य छात्रों को प्रासंगिक सामग्री चुनने, सही संसाधनों की पहचान करने, और जिज्ञासाओं को सुलझाने में सहायता करना हो गया है।

#### (ख) तकनीकी विशेषज्ञ:

अब शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्स का उपयोग करना आना चाहिए। उन्हें स्मार्ट बोर्ड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण, और डेटा विश्लेषण टूल्स में दक्ष होना आवश्यक है।

#### (ग) डेटा विश्लेषक:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण कर सकता है। शिक्षक इस डेटा का उपयोग कर छात्रों की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकते हैं।

#### (घ) सामाजिक-भावनात्मक समर्थनदाता:

जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचनात्मक आवश्यकताएँ पूरी करता है, वहीं शिक्षक का मानवीय पहलू छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण बना हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी भी मानवीय संवेदनाओं की गहराई तक नहीं पहुँच सकता, इसीलिए शिक्षक का यह पक्ष आज और अधिक आवश्यक हो गया है।

#### (ङ) नैतिक मार्गदर्शक:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में कई नैतिक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे डेटा गोपनीयता, सूचना की विश्वसनीयता, और तकनीकी निर्भरता। ऐसे में शिक्षक छात्रों को डिजिटल नैतिकता और जिम्मेदार उपयोग का पाठ पढ़ाते हैं।

#### नई चुनौतियाँ:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षकों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

**तकनीकी कौशल का अभाव :** विशेषकर ग्रामीण या सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता।

**कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक निर्भरता :** इससे शिक्षकों की रचनात्मकता और छात्रों की आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**व्यक्तिगत संपर्क में कमी :** वर्चुअल शिक्षण के कारण शिक्षक और छात्र के बीच पारंपरिक संबंध कमजोर पड़ते हैं।

**शिक्षकों की भूमिका का भविष्य:**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षक “लाइफ लॉन्ग लर्नर” की भूमिका में होंगे। उन्हें लगातार बदलती तकनीक के अनुसार स्वयं को अद्यतन रखना होगा। भविष्य में शिक्षक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहभागिता से शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली और समावेशी होगी। शिक्षक भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आलोचनात्मक सोच, और रचनात्मकता जैसे गुणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा सहज रूप से संभव नहीं।

**कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन के दुष्प्रभाव**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, लेकिन इसके प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं हैं। शिक्षकों की भूमिका में आए परिवर्तन के कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता, मानवीयता और सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। नीचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन से उत्पन्न प्रमुख दुष्प्रभावों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है:

**शिक्षक-छात्र संबंधों में कमी**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण पद्धतियों में मानवीय संपर्क कम होता जा रहा है। इससे शिक्षक और छात्रों के बीच जो भावनात्मक, नैतिक और प्रेरणात्मक संबंध होते थे, वे कमजोर पड़ रहे हैं। यह छात्रों के सामाजिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

**शिक्षकों की भूमिका में अस्पष्टता**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रयोग के कारण शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका सीमित होती जा रही है। इससे शिक्षकों को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि उनका वास्तविक दायित्व क्या है : वे पाठ पढ़ाएँ, तकनीकी उपकरणों का संचालन करें या सिर्फ मार्गदर्शन करें। इससे कार्य संतोष और आत्म-गौरव की भावना प्रभावित होती है।

**तकनीकी निर्भरता**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षकों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत शिक्षण शैली को प्रभावित करती है। धीरे-धीरे शिक्षक केवल “प्रशासक” या “डेटा ऑपरेटर” की भूमिका में सीमित होते जा रहे हैं।

**डिजिटल विभाजन**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा में तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के शिक्षक इस तकनीकी बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाते, जिससे एक बड़ा शिक्षा असमानता उत्पन्न होती है।

**नौकरी की असुरक्षा**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से यह डर उत्पन्न हो गया है कि भविष्य में शिक्षकों की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे कई शिक्षकों को नौकरी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर निजी संस्थानों में।

**नैतिक और मानसिक दबाव**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करते समय शिक्षकों पर डेटा प्रबंधन, ऑनलाइन मूल्यांकन, तकनीकी समस्याओं का समाधान आदि अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिससे मानसिक तनाव और नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है।

## नवाचार की कमी

**जब शिक्षण पूर्णतः** : कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्देशित हो जाता है, तो शिक्षकों के नवाचार और प्रयोगशीलता की भावना कम हो सकती है। वे पहले से तय किए गए कंटेंट और सिस्टम पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे शिक्षा में विविधता और सृजनशीलता घटती है।

## निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे शिक्षकों की पारंपरिक भूमिका में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। अब शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाले नहीं, बल्कि छात्रों के लिए मार्गदर्शक, समन्वयक और प्रेरक की भूमिका में परिवर्तित हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टूल्स जैसे व्यक्तिगत शिक्षण, डेटा विश्लेषण, और आभासी सहायक ने शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सटीक, प्रभावी और विद्यार्थीकेंद्रित बना दिया है। हालांकि, इस परिवर्तन के साथ शिक्षकों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण और उन्हें अपनाने की मानसिक तैयारी भी आवश्यक है। यह युग शिक्षकों से नवाचार, तकनीकी दक्षता और सतत अधिगम की अपेक्षा करता है। निष्कर्षतः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में शिक्षा शास्त्र का स्वरूप अधिक समावेशी, संवादात्मक और तकनीक-सहायक बनता जा रहा है, जिसमें शिक्षक की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और बहुआयामी हो गई है।

## संदर्भ-ग्रंथ सूची

- ggarwal, J. C. (2012). Essentials of Educational Technology. Vikas Publishing House.
- Sharma, R. A. (2010). Educational Technology and Management. R. Lall Book Depot.
- Woolfolk, A. (2020). Educational Psychology. Pearson Education.
- Selwyn, Neil (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press.
- Luckin, R. (2018). Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. UCL IOE Press.
- Kumar, Sudhir (2020). Shiksha Takneek Evam Adhyapan Kala. Laxmi Narain Agarwal.
- Bates, Tony (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.
- Mishra, S. (Ed.) (2005). Cases on Technological Adaptability and Transnational Learning: Issues and Challenges. IGI Global.



# कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन (ऑनलाइन अध्ययन और स्मार्ट क्लासरूम के संदर्भ में)

रोहित कुमार सिंह\*

**सारांश :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, विशेष रूप से ऑनलाइन अध्ययन और स्मार्ट क्लासरूम के संदर्भ में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफार्मों ने व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री, त्वरित मूल्यांकन और छात्र की सीखने की गति के अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना संभव बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण में चौटबॉट, वर्चुअल ट्यूटर और भाषाई अनुवाद जैसे उपकरणों ने छात्र-शिक्षक संवाद को प्रभावशाली बनाया है। स्मार्ट क्लासरूम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों द्वारा इंटरैक्टिव बोर्ड, फेशियल रिकग्निशन और डेटा विश्लेषण के माध्यम से शिक्षण को अधिक सटीक और आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे न केवल सीखने की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि शिक्षा अधिक सुलभ और समावेशी भी हुई है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बना रहा है।

## प्रस्तावना

21वीं सदी में तकनीकी विकास ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पारंपरिक कक्षाओं से आगे बढ़ते हुए आज शिक्षा डिजिटल प्लेटफार्मों, ऑनलाइन अध्ययन और स्मार्ट क्लासरूम की दिशा में अग्रसर हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से न केवल शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बन रही है, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के बीच की दूरी भी कम हो रही है। ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से जहां ज्ञान तक पहुंच सुलभ हुई है, वहीं स्मार्ट क्लासरूम के जरिए वास्तविक समय में इंटरैक्टिव और प्रभावशाली शिक्षण संभव हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टूल्स जैसे कि चौटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमैटिक असेसमेंट ने शिक्षा को अधिक सटीक, कुशल और परिणामोन्मुखी बना दिया है। यह परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा जगत को एक नई दिशा दी है और इसके माध्यम से शिक्षण प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा शिक्षा प्रणाली ऑनलाइन अध्ययन का महत्व व योगदान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सक्षम होती है। जब इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, व्यक्तिगत और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली छात्रों की सीखने की गति, उनकी रुचियों और कठिनाइयों के अनुसार सामग्री प्रदान करती है, जिससे अधिगम अधिक लक्षित और परिणामोन्मुखी हो जाता है।

---

\* सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश), भारत

## ऑनलाइन अध्ययन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व

### व्यक्तिगत अधिगम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के पिछले प्रदर्शन, सीखने की शैली और प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तिगत पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है। यह पारंपरिक 'एक पाठ्यक्रम सभी के लिए' मॉडल की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है।

### 24×7 लर्निंग सपोर्ट

ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल असिस्टेंट्स और चौटबॉट्स छात्रों को दिन-रात सहायता प्रदान करते हैं। इससे छात्र अपनी शंकाओं का समाधान तत्काल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और समझ दोनों में वृद्धि होती है।

### डेटा विश्लेषण और फीडबैक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों के अधिगम डेटा का विश्लेषण कर सकता है और शिक्षकों को सूचित कर सकता है कि किन क्षेत्रों में छात्र पिछड़ रहे हैं। इससे समय रहते आवश्यक सुधार संभव हो पाते हैं।

### भाषाई बाधाओं का समाधान:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद और स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल्स ने विभिन्न भाषाओं में अध्ययन को सहज बना दिया है। इससे भारत जैसे बहुभाषी देश में शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाया जा सकता है।

### ऑनलाइन मूल्यांकन और निगरानी:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वचालित परीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से छात्रों के ज्ञान का त्वरित मूल्यांकन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रॉक्टरिंग सिस्टम का उपयोग बढ़ रहा है।

## कोविड-19 और ऑनलाइन शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

### स्मार्ट क्लासरूम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

स्मार्ट क्लासरूम वह आधुनिक कक्षा होती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण जैसे इंटरएक्टिव बोर्ड, फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स टूल्स आदि का उपयोग किया जाता है। इससे शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति, सहभागिता और प्रदर्शन पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह भी विश्लेषण कर सकता है कि कौन से शिक्षण तरीके अधिक प्रभावी हैं।

### ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑनलाइन शिक्षा ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को बेहतर बनाया है। जहां योग्य शिक्षकों की कमी होती है, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट डिवाइसेज द्वारा बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में भी ऑनलाइन अध्ययन को संभव बनाया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने, उनके सीखने की गति और क्षमता के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा छात्रों की समझ बढ़ाने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई जा रही हैं:

**व्यक्तिगत अधिगम अनुभव:**

कृतिम बुद्धिमत्ता के द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचाना जा सकता है। यह तकनीक विद्यार्थियों के पिछले प्रदर्शन और उनकी सीखने की शैली के आधार पर अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित के विषय में कमजोर है, तो कृतिम बुद्धिमत्ता उस छात्र के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न और स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इस प्रकार, प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिलती है, जिससे उनकी समझ बेहतर होती है।

**इंटरएक्टिव और समृद्ध शिक्षण सामग्री:**

कृतिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफार्मों में शिक्षण सामग्री को इंटरएक्टिव और आकर्षक बनाया जाता है। वीडियो, एनीमेशन, और गेम्स के माध्यम से कठिन विषयों को सरल और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है और उनकी समझ में सुधार होता है, क्योंकि वे केवल पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ते, बल्कि उसे अनुभव करते हैं।

**तत्काल फीडबैक और सुधार:**

कृतिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली तुरंत फीडबैक प्रदान करती है। छात्रों को उनकी गलतियों का तुरंत पता चलता है और वे अपनी गलतियों को समझ कर उन्हें सुधार सकते हैं। यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया छात्रों को बेहतर समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी गणित की समस्या का हल गलत तरीके से करता है, तो कृतिम बुद्धिमत्ता उसे सही तरीका दिखाता है, जिससे उसकी समझ में वृद्धि होती है।

**समय-समय पर निगरानी और सुधार:**

कृतिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली छात्रों के अधिगम पैटर्न का विश्लेषण करती है और यह पहचानने में मदद करती है कि छात्र किस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद, यह उन्हें अतिरिक्त अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न या विशेष मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस प्रकार, छात्रों की कमजोरियों का समय रहते समाधान हो जाता है, जिससे उनकी समग्र समझ में सुधार होता है।

**शिक्षकों को समर्थन प्रदान करना:**

कृतिम बुद्धिमत्ता शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता है। इससे शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से छात्र किस विषय में कमजोर हैं और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार, शिक्षक छात्रों के लिए अधिक प्रभावी पाठ्यक्रम और अतिरिक्त संसाधन प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों की समझ को बढ़ावा मिलता है।

**भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान:**

कृतिम बुद्धिमत्ता के द्वारा छात्रों को विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जिससे भाषा की बाधा कम होती है। कृतिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद और भाषाई तकनीकें छात्रों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा देती हैं, जिससे वे अधिक आसानी से विषयों को समझ सकते हैं।

**शिक्षण सामग्री का अनुकूलन:**

कृतिम बुद्धिमत्ता छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री का अनुकूलन करता है। यह छात्रों को उनके पसंदीदा तरीकों से सीखने की अनुमति देता है, चाहे वह वीडियो, क्विज, या पठन सामग्री हो। इस अनुकूलन के कारण छात्र विषय में गहरी समझ प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी सीखते हैं, वह उनके लिए अधिक प्रासंगिक और आकर्षक होता है।

### ध्यान केंद्रित और उबाऊ सामग्री से बचाव:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह शिक्षण सामग्री को छात्रों की क्षमता और रुचियों के अनुसार डिलीवर करता है, जिससे छात्रों को उबाऊ और कठिन लगने वाली सामग्री से बचाव होता है। इस प्रकार, छात्रों का ध्यान बनाए रखा जाता है और वे विषय में अधिक रुचि दिखाते हैं, जिससे उनकी समझ में सुधार होता है।

### निष्कर्ष

आर्टिफिशियल सोसायटी द्वारा एआई ने शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, विशेष रूप से ऑनलाइन पढ़ाई और स्मार्ट क्लासरूम के क्षेत्र में। एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, जिससे छात्रों को अपनी गति और समझ के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। वर्चुअल, डॉक्यूमेंट्री चौटबॉट और स्वचालित रेटेड एसेसमेंट सिस्टम छात्रों के लिए काम करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम में एआई आधारित टूल्स, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स और मशीन सीखना, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना और पाठ्यक्रम को और अधिक दिलचस्प बनाने में सहायक होते हैं। हालाँकि, डिजिटल डिवाइड और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर, एआई शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, कुशल और उन्नत बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य की शिक्षा को और बढ़ावा दिया जा सकता है।

### संदर्भ- ग्रंथ सूची

- मिश्रा, एस. (2022) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा: डिजिटल युग में शिक्षण की नई दिशा। नई दिल्ली: प्रगति प्रकाशन।
- शर्मा, आर. (2021). ऑनलाइन शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम: आधुनिक शिक्षण प्रणाली में नवाचार। वाराणसी: ज्ञान भारती प्रकाशन।
- गुप्ता, पी. (2023). डिजिटल शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रभाव। जयपुर: राष्ट्रीय शिक्षा प्रकाशन।
- त्रिपाठी, के. (2020). शिक्षा और तकनीकी विकास: ऑनलाइन अध्ययन की संभावनाएँ। मुंबई: टेक्नो एजुकेशन प्रेस।
- सक्सेना, डी. (2019). स्मार्ट क्लासरूम: शिक्षण के नवीन आयाम। लखनऊ: आधुनिक शिक्षा प्रकाशन।
- भारद्वाज, एम. (2022). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ई-लर्निंग: शिक्षा जगत में उभरती प्रवृत्तियाँ। पटना: विद्या निकेतन।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (2020). भारत में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी समावेशन। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय।
- यादव, वी. (2021). कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन। कोलकाता: यूनिवर्सल एजुकेशन।
- राज, ए. (2023). ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और शिक्षण की गुणवत्ता। चेन्नई: नवभारत पब्लिशर्स।
- भारतीय शिक्षा परिषद (2022). डिजिटल शिक्षा: ऑनलाइन अध्ययन एवं स्मार्ट क्लासरूम की भूमिका। नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान।

